



सरस्वती-सिरीज़ नं० ४२

वंशानुक्रम विज्ञान

शचीन्द्रनाथ सान्याल



प्रकाशक  
इंडियन प्रेस लिमिटेड  
प्रयाग

## सरस्वती-सिरीज़

स्थायी परामर्शदाता—डा० मगवानदास, पण्डित अमरनाथ भा, भाई परमानंद, डा० प्राणनाथ विद्यालङ्कार, श्री सत्यदेव विद्यालङ्कार, प० द्वारिका प्रसाद मिश्र, सत निहालसिंह, प० लक्ष्मणनारायण ग, बाबू संपूर्णानन्द, श्री बाबूराव विष्णुपराशकर, पण्डित केदारनाथ मठ, श्यामहार राजेन्द्रसिंह, श्री पद्मलाल पुत्रालाल बकरो, श्री जैनेन्द्र कुमार, बाबू वृन्दावनलाल वर्मा, सेठ गोविन्ददास, पण्डित क्षेत्रेश चटर्जी, डा० ईश्वरप्रसाद डा० रामाश्वर त्रिपाठी, डा० परमात्मारारण, डा० बेनोप्रसाद, डा० रामप्रसाद त्रिपाठी, पण्डित रामनारायण मिश्र, श्री संतराम पण्डित रामचन्द्र शर्मा श्री महेश प्रसाद मौलवी काञ्चिल, श्री रायकृष्णदास, बाबू गोपालराम गहमरी, श्री उपेन्द्र नाथ "भरत", डा० ताराचन्द, श्री चन्द्रगुप्त विद्यालङ्कार, डा० गोरक्षप्रसाद, डा० सत्यप्रकारा, श्री भनुकूलचन्द्र मुकर्जी, रायसाहेब पण्डित श्रीनारायण चतुर्वेदी, रायबहादुर बाबू श्यामसुन्दरदास, पण्डित शुभिमन्तानन्दन पन्, प० सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला', प० नन्दलाल राजपेयी, प० द्वारकीप्रसाद द्विवेदी, पण्डित मोहनलाल महतो, श्रीमती महादेवी वर्मा, पण्डित अयाध्यासिंह उपाध्याय 'हरिभोध', डा० पीताम्बरराज बडवाल, डा० धारद वर्मा, बाबू रामचन्द्र टंडन, पण्डित केशवप्रसाद मिश्र बाबू वालिदास कपूर, इत्यादि, इत्यादि ।

विचारधारा

## वंशानुक्रम विज्ञान

मन्तान और प्रजनन विज्ञान के सन्ध मे कुछ महत्त्वपूर्ण प्रश्नों के वैज्ञानिक उत्तर

शचीन्द्रनाथ सान्याल

## पहला परिच्छेद

### वशानुक्रम-विज्ञान क्या है ?

इस संसार में अनादि काल से आज तक ऐसा कभी नहीं देखने में आया कि कोई एक व्यक्ति देखने में किसी दूसरे व्यक्ति के साथ पूर्णतया समान हो। और सम्भव है, अनन्त काल तक ऐसा ही होता रहे। इसका क्या कारण है ? किन्तु सभी ने यह देखा होगा कि एक ही माता-पिता की सन्तान आपस में देखने में कुछ अवश्य मिलती-जुलती हैं। माता-पिता और सन्तानों में भी कुछ सादृश्य रहता है। इसी प्रकार एक ही माता पिता के पुत्रा और पुत्रियों में कुछ समानता रहते हुए भी उनमें विपमता भी कम नहीं रहती। सत्र भाई-बहन विलकुल एक से कम होते हैं ? सन्तानों में माता पिता के सदृश तो होती हैं, किन्तु विलकुल एक सी नहीं होतीं। जिस विज्ञान से माता पिता और सन्तान-सन्ततियों में सादृश्य और विपमता के कारण का अनुसन्धान किया जाता है उस विज्ञान को 'वशानुक्रम-विज्ञान' कहते हैं। हम अपने माता पिता के गुण अवगुणों के उत्तराधिकारी होते हैं अथवा नहीं, और यदि होते हैं तो कहाँ तक होते हैं, और कैसे पूर्वजों के गुण वंशजों में, उनके जन्म के समय सन्निहित अर्थात् उत्पन्न होते हैं, एवं जिन गुणों को लेकर मनुष्य जन्म लेता है उनके आधार पर जाति की उत्पत्ति-अवनति

कैसे हुआ करती है, इन सब बातों के कोई नियम हैं अथवा नहीं ? जीव का जन्म कैसे हुआ करता है ? जन्म के पूर्व हम यह जान सकते हैं अथवा नहीं कि लड़का पैदा होगा अथवा लड़की ? इसके भी कुछ नियम हैं अथवा नहीं ? हम अपने इच्छानुसार पुत्र अथवा कन्या को जन्म दे सकते हैं अथवा नहीं ? यदि पिता का रङ्ग साँवला और माता का गोरा हो, तो उनकी सन्तान के रङ्ग कैसे होंगे ? शिशु किस माता पिता से उत्पन्न हुआ है, इसकी क्या पहचान है ? किस रोग को हम पूर्वजों से प्राप्त करते हैं और किसको नहीं ? सिफलिस (गर्मी) की बीमारी हम पूर्वजों से प्राप्त करते हैं । पागलपन अथवा बहरापन किन रीतियों से वंशजों में उत्पन्न होते हैं ? पुरुष के वीर्य में और स्त्री के शोणित में क्या-क्या है ? लड़की से लड़का और लड़के से लड़की बन सकती है अथवा नहीं ? जैसे बगीचे का माली पौधों से बीज सम्रह करता है और फिर अपने इच्छानुसार उन बीजों से फिर पौधे उत्पन्न करता है, वैसे ही मनुष्या का वीर्य भी सम्रह करके रक्खा जा सकता है, अथवा नहीं ? पुरुष और स्त्री का संयोग हुए त्रिणा भी यंत्रों की सहायता से सुरक्षित वीर्य द्वारा अभीप्सित सन्तान उत्पन्न की जा सकती है, अथवा नहीं ? सन्तान-उत्पादन की शक्ति न रहने का क्या अर्थ है ? अस्त्रोपचार अर्थात् नशत्र द्वारा सन्तान उत्पादन की शक्ति नष्ट की जा सकती है, अथवा नहीं ? निकट सम्बन्धियों में विवाह का सम्बन्ध होने से क्या हानि और लाभ हो सकता है ? एक ही व्यक्ति का आधा अङ्ग पुरुष का और आधा नारी का हो सकता है, अथवा नहीं ? इत्यादि का ज्ञान वंशानुक्रम विज्ञान से प्राप्त हो सकता है । एक विषय का ज्ञान प्राप्त करते समय दूसरे विषय के ज्ञान के साथ परिचित हो जाना आवश्यक हो जाता है । इस प्रकार एक विज्ञान से दूसरे विज्ञान की उत्पत्ति होती रहती है । वशापरम्परा में गुण

श्रवणगुण कैसे सक्रमित होते हैं, इसका पता जिस विज्ञान से चलता है उसे 'वंशानुक्रम विज्ञान' कहते हैं। इस विज्ञान के सम्बन्ध में रोज करते-करते अति अद्भुत और विस्मयकर घातों का पता चला है। इस छोटी सी पुस्तक में उन सब आश्चर्यजनक बातों का परिचय देने की चेष्टा की जायगी। वंशानुक्रम विज्ञान की आज अद्भुत उन्नति हुई है, किन्तु जन-साधारण को इस विषय में कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं है।

वंशानुक्रम विज्ञान का प्रयोजन और उसकी उत्पत्ति — विज्ञान के आविष्कार के साथ सामाजिक प्रश्नों का अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध है, किन्तु किस ज्ञान से समाज का कितना कल्याण होगा, अथवा कुछ भी कल्याण होगा या नहीं, इसको समझ लेना सत्र समय सहज बात नहीं है। ऐसी बहुत सी सूक्ष्म वैज्ञानिक बातों का आविष्कार हुआ है जिनके साथ सामाजिक अथवा व्यावहारिक जीवन का कोई सम्बन्ध पहले पहल नहीं जान पडा था। परन्तु समय बीतने पर देखा गया कि यदि विज्ञान की उक्त सूक्ष्म बातों का आविष्कार न हुआ होता, तो वर्तमान समय की अद्भुत व्यावहारिक विज्ञान की बातें भी हमें देखने को न मिलती। यदि सामाजिक लाभालाभ की परवा न करके, केवल विशुद्ध ज्ञानान्वेषण की प्रेरणा से वैज्ञानिकगण विज्ञान की रोज न करते, तो आज हमें रेडियो, वायरलेस, सिनेमा आदि से परिचित होने का सौभाग्य प्राप्त न हुआ होता। ईथर नाम की किसी वस्तु का यथार्थ में अस्तित्व है अथवा नहीं, इस बात की रोज करते समय अत्यन्त विस्तृत आकाश के सम्बन्ध में भी कितनी ही नयी, विस्मयकर और रहस्यमय बातों के आविष्कार हुए हैं। इन्हीं आविष्कारों के परिणाम में धीरे धीरे रेडियो और वायरलेस के अद्भुत और विस्मयकर व्यापार हमारे सामने आये हैं। इस प्रकार जब केवल शुद्ध ज्ञान के लिए ही ज्ञानान्वेषण किया जाता है तब उसके परि-

शाम में आगे चलकर समाज का भी कल्याण हुआ करता है। इस कारण विशुद्ध ज्ञान के साथ व्यावहारिक ज्ञान का नित्य और घनिष्ठ सम्बन्ध है।

यद्यपि वशानुक्रम विज्ञान के साथ सामाजिक और वशागत उन्नति अवनति का अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध है, तथापि दूसरे अनेक वैज्ञानिक तत्त्वों की तरह, वशानुक्रम विज्ञान के आलोचनादि कार्य व्यावहारिक प्रयोजन की प्रेरणा से प्रारम्भ नहीं हुए थे। जीव विज्ञान के सम्बन्ध में अनुसंधान और गणना करते समय ऐसे बहुत से तथ्यों का पता लगा, जिनके परिणाम में क्रमशः जीव विज्ञान से स्वतन्त्र, किन्तु उसी की शाखा के रूप में, वशानुक्रम विज्ञान की उत्पत्ति हुई। आजकल वशानुक्रम विज्ञान की गिनती एक स्वतन्त्र विज्ञान के रूप में होती है।

वशानुक्रम के सम्बन्ध में एक साधारण सी धारणा मनुष्यों के मन में हजारों वर्षों से चली आ रही है। संसार की अनेक असभ्य जातियों से लेकर बड़ी-बड़ी प्राचीन सभ्य जातियों में भी, वशानुक्रम के सम्बन्ध में, नाना प्रकार के व्यावहारिक ज्ञान प्रचलित हैं। आधुनिक समय के बड़े-बड़े परिदृष्टों ने नाना प्रकार की असभ्य और बर्बर जातियों की सामाजिक रीति-नीति के विषय में बहुत से अनुसंधान किये हैं। ऐसा करते समय उन जातियों के सरदारों के साथ परिचित होकर वे विस्मित हो गये हैं। उन जातियों में ऐसा भी रीति-जातियों का प्रचलन है, जो अनेक अर्थों में आधुनिक विज्ञान से अनुमोदित समझी जा सकती हैं।\*

\* देखिए —Man and His Superstitions P 246 by Prof. Carveth Read of the London University—second edition, 1925

ईसा के जन्म के छ सौ वर्ष पूर्व ग्रीक कवि थियामिस् ने यह कहकर आक्षेप किया था कि मनुष्य घोड़ो, गदहो और भेड़ों के सम्बन्ध में तो अच्छे वंश की रोज इस समझ से करता है कि 'अच्छे से अच्छे की ही उत्पत्ति होना' स्वाभाविक है, किन्तु एक अच्छे वंश का पिता अर्थ के लोभ में, कैसे अनायास ही, अपने पुत्र का विवाह एक बुरे वंश की बुरी लडकी के साथ कर देता है। स्पार्टा जाति के धर्मशास्त्र के प्रणेता लाइसर्गस् ने भी दूसरी जातियों की रीति-नीति को देखकर यह कहा था कि यह बड़े आश्चर्य की बात है कि अपनी गायो, भैसो के बारे में तो दूसरी जातियाँ उनकी नस्ल पर प्रखर दृष्टि रखती हैं, परन्तु अपनी प्रजा की उन्नति के लिए, मनुष्य वंश के प्रति उनका कुछ भी ध्यान नहीं रहता। लाइसर्गस् की प्रेरणा से स्पार्टा में विवाह के सम्बन्ध में बड़े कड़े नियम बनाये गये थे। उक्त नियमों का पालन कहाँ तक हुआ था, कहा नहीं जा सकता। विश्व विख्यात ग्रीक दार्शनिक प्लेटो ने भी वंश गुण-दोषों के प्रति ध्यान रखते हुए, अपनी आदर्श समाज संगठन की कल्पना में, विवाह के सम्बन्ध में विशेष नियमों का उल्लेख किया है। इसके दो हजार वर्ष पश्चात्, कैम्पानेला नामक एक प्रसिद्ध विद्वान् ने एक दूसरे आदर्श समाज के संगठन की कल्पना की थी। उसमें उन्होंने वशानुक्रम पर ध्यान रखते हुए, सन्तान और समाज की मङ्गल कामना से, मनुष्यों की विवाह पद्धति को नियन्त्रित करने के लिए कहा है।\* भारतवर्ष में वशानुक्रम के सम्बन्ध में बहुत ही स्पष्ट धारणाएँ थीं, और उन्हीं के आधार पर भारतीय वर्ण व्यवस्था की प्रतिष्ठा हुई थी। इस वर्ण-व्यवस्था के पक्ष में पश्चात्य-समाज के बड़े से बड़े



परिष्कृत, दार्शनिक और वैज्ञानिकगण, जैसे कडवरलिंग, नीट्शे, हास्टेन आदि ने अति स्पष्ट शब्दों में अपनी सम्मति दी है।\*

मनुष्य, ससार के सत्र प्रकार के शागर्जन या अभिलाषी है, किन्तु न जाने किस मोह के फेर में पड़कर वह अपने विषय में अधिक जानने के लिए विशेष इच्छुक नहीं है। इस कारण हम देखते हैं कि पदार्थ विज्ञान की आज जितनी उन्नति हुई है, उतनी उन्नति जीव विज्ञान अथवा मानस विज्ञान की नहीं हुई।† मनुष्य होने पर भी हम मानव-तत्त्व और आत्मज्ञान के सम्बन्ध में कितने उदासीन हैं। ज्योतिष्-मण्डल में क्या हो रहा है, यह जानने के लिए हम परम उत्सुक हैं, किन्तु मानव-समाज में, वंशानुक्रम के पर्याप्त ध्यान के न रहने के कारण विवाहपद्धति, केवल व्यक्तिगत रुचि अभिरुचि के अनुसार नियन्त्रित हो रही है और इस कारण समाज की वैसी दुर्गति हो रही है, इसका हमें पता भी नही है। गाय बैलों, घोड़ों और कुत्तों के वंशों के बारे में तो पारचात्य समाज न जाने कितना ध्यान रखता है, किन्तु मानव परिवार के सम्बन्ध में, ग्रीस सभ्यता के अभ्युदय के समय से लेकर आज तक, वह समाज नितान्त उदासीन रहा है। वंशानुक्रम विज्ञान की आज बहुत उन्नति हुई है, किन्तु वह केवल पुस्तकों में ही सीमित है, समाज के मङ्गल के लिए उसका प्रयोग आज भी नहीं के बराबर हुआ है।

\* देखिए —The World in the Making, Keyserling The Will to Power Nietzsche The Inequality of man by B S Haldane आदि आदि।

† We have gained the mystery of almost everything which exists on the surface of the earth excepting ourselves —Alexis Carell in man the Unknown—P 2 1st edn 1926

अनेक पण्डितों की यह राय है कि प्रतिभावान् पुरुषों के अभाव से एथेन्स और स्पार्टा का पतन हुआ था। अव्यवस्थित विवाह-पद्धति के कारण रोम के पारिवारिक जीवन में व्यभिचार का स्रोत प्रवाहित हुआ था, जिससे उसका भी पतन हुआ। विवाह-पद्धति के अनियन्त्रित होने से पारिवारिक जीवन में व्यभिचार का विष प्रवेश करता है, और तब व्यक्तित्व के विकास का उपयुक्त अरसर नहीं रह जाता। इस प्रकार प्रतिभा के विनाश से समाज में उपयुक्त नेताओं का अभाव होने लगता है, और समाज का सर्वनाश अग्रश्यम्भायी हो जाता है। इस कारण वंशानुक्रम विज्ञान के अनुसार विवाह-पद्धति का नियन्त्रित होना अत्यावश्यक है।

वंशानुक्रम के साथ शिक्षा का भी अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध है। इस विषय की आजकल पश्चात्य देशों में बहुत ही गम्भीर रूप से चर्चा चल रही है। ईसाई समाज में यह भ्रमात्मक धारणा फैली हुई है कि शिशु सर्वथा मस्कारशून्य होकर जन्म ग्रहण करता है। वंशानुक्रम विज्ञान में इसके विपरीत बहुत से प्रमाण प्राप्त होते हैं। कहा जाता है, हज़रत मोहम्मद साहब से किसी ने पूछा था कि किस समय से वातक की शिक्षा प्रारम्भ होनी उचित है। इसके उत्तर में उन्होंने कहा था—'उसके जन्म के कम से कम एक सौ वर्ष पूर्व से।' उस महापुरुष ने अपने उक्त वाक्य द्वारा वंशानुक्रम की बात को ही सूचित किया था। भारत-वासियों की धारणा में शिशु सस्कारयुक्त होकर ही जन्म लेता है। उन सस्कारों के आधार पर ही शिशु का व्यक्तित्व बनता है। इस तत्त्व से परिचित न होने से यथार्थ शिक्षा-व्यवस्था का निर्माण संभव नहीं है। दुर्जन व्यक्ति, शिक्षा प्राप्त कर लेने पर समाज की और भी भयङ्कर क्षति कर सकता है। विद्या से अलङ्कृत दुष्टजन को भी हमें त्यागना उचित है, जैसे मणि से भूषित होने पर भी सर्प हमारे लिए अत्यन्त भयङ्कर होता है। इस कारण विद्या-

लियों की व्यवस्था में छात्रों के  
 हमारे लिए परम कर्तव्य हो  
 विद्यार्जन करने का सपना  
 को भी नहीं। भारतवर्ष का  
 प्रभार के कार्यों के लिए अ-  
 अधिकार भेद का रहस्य न  
 जन्म ही हमें अधिकार प्रदान

विवाह पद्धति के साथ  
 भारतीय वर्णव्यवस्था में इसी।  
 का विशेष रूप से निर्देश है।  
 श्री कैङ्गलिंग ने कहा है कि सस्य  
 व्यवस्था का आदर्श धल प्राप्त करे

यह बात भी सत्य है कि जन्म  
 करने के लिए उपयुक्त शिक्षा  
 की परम आवश्यकता है।  
 प्राप्त नहीं करते हैं तो पारिवारिक  
 अधिक नष्ट पड़ सकता। यदि  
 को अपनी ओर न खींचती हो  
 चलाना भी कठिन हो जाता।  
 पर तुमुल ऋगडा चल रहा  
 पाश्चिमी वातावरण का अधिक  
 किन्तु बड़े से बड़े वैज्ञानिक  
 वंश परम्परा से हम बहुत कुछ  
 और  
 अविन प्रभाव पड़ता है।\*

\* देखिए — बंगला मासिक  
 श्री शशाधर राय का वरानुक्रम पर एक

जो यह समझते हैं कि वशानुक्रम की अपेक्षा जीव पर पारिपार्श्विक वातावरण का अधिक प्रभाव पड़ता है।

प्राच्य देशों में भी वश मर्यादा के प्रति यथार्थ अर्द्धा दर्शाई गई है। इंग्लैंड के प्रसिद्ध कवि श्री ड० ल्यू० वी० ईट्स ने कवीन्द्र रवीन्द्रनाथ की गीताञ्जलि की भूमिका में एक सुन्दर दृष्टान्त का उल्लेख किया है,—‘प्राच्य देशों में आप लोग यथार्थ में ही वश-मर्यादा को अक्षुण्ण रखना जानते हैं। उस दिन मुझे एक म्युजियम के क्यूरेटर (अध्यक्ष) ने एक कृष्णाङ्ग व्यक्ति को दिखाकर यह कहा था कि वह व्यक्ति, जो चीन देश की प्रदर्शनीय वस्तुओं को सजाकर रख रहा है, मिक्लेडो के एक प्रिय कलाकार वश का चौदहवाँ व्यक्ति, है। उक्त परिवार वश परम्परा से उसी कार्य में नियुक्त है।’

प्रसिद्ध जीव-वैज्ञानिक श्रीयुत जे० आर्थर टाम्सन् महोदय ने कहा है कि वशानुक्रम-विज्ञान से सम्बन्ध रखनेवाली समस्याएँ अन्य समस्त वैज्ञानिक समस्याओं में मनुष्य समाज के लिए सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण हैं।\*

सामाजिक प्रयोजन के अतिरिक्त विशुद्ध ज्ञान की दृष्टि से भी, हमें वशानुक्रम विज्ञान से बहुत ही चित्ताकर्षक घातों का पता चलेगा। जैसे कृत्रिम उपायों से सजी और फूलों तथा फलों के पौधों का अद्भुत विकास किया जा रहा है, वैसे ही प्राणियों में भी अपने इच्छानुसार नवीन प्रकार के जीवों की उत्पत्ति की चेष्टा

---

Heredity in the Light of Recent Research by L. Doncaster pp 49 50 116 Darwin & Modern p 101, अति प्रापुनिक युग के भी बड़े-बड़े वैज्ञानिकों का मत इसके पक्ष में है। इसके विरुद्ध भी कुछ अन्य बड़े-बड़े वैज्ञानिक अपनी राय देते हैं इस विषय पर आगे चलकर विस्तृत रूप से आलोचना की जायगी।

लियों की व्यवस्था में छात्रों के गुण अवगुणों के प्रति दृष्टि रखना हमारे लिए परम फलव्य हो जाता है। इसी कारण सब प्रकार के विद्यार्जन करने का सबको समान अधिकार नहीं है, सब प्राद्वर्णों को भी नहीं। भारतवर्ष का यही प्राचीन निर्देश है। अर्थात् सब प्रकार के कार्यों के लिए अधिकारी का होना आवश्यक है। यही अधिकार भेद का रहस्य भारतीय सभ्यता की एक विशिष्टता है। जन्म ही हमें अधिकार प्रदान करता है।

विवाह पद्धति के साथ जन्म का अपिच्छेद्य सम्बन्ध है। भारतीय वर्णव्यवस्था में इसी लिए विवाह पद्धति पर नियन्त्रण का विशेष रूप से निर्देश है। इसी कारण प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक श्री कैजरलिंग ने कहा है कि संसार में फिर प्राचीन भारतीय वर्ण व्यवस्था का आदर्श बल प्राप्त करेगा।

यह बात भी सत्य है कि जन्म से प्राप्त अधिकारों के विकसित करने के लिए उपयुक्त शिक्षा और दीक्षा एवं अनुकूल वातावरण की परम आवश्यकता है। किन्तु जन्म से यदि हम गुणों को प्राप्त नहीं करते हैं तो पारिवारिक वातावरण का प्रभाव हमारे ऊपर अधिक नहीं पड़ सकता। यदि स्वभाव से ही हमारी पृथ्वी पदार्थों को अपनी ओर न खींचती होती, तो एक साधारण हथौड़ी का चलाना भी कठिन हो जाता। आजकल वैज्ञानिकों में इस प्रश्न पर तुमुल झगड़ा चल रहा है कि हमारे जीवन पर पारिपाश्विक वातावरण का अधिक प्रभाव है अथवा जन्मगत गुणों का। किन्तु बड़े से बड़े वैज्ञानिक भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि वंश परम्परा से हम बहुत कुछ गुण अवगुणों को प्राप्त करते हैं और पारिपाश्विक वातावरण की अपेक्षा उन गुणों का जीवन पर अधिक प्रभाव पड़ता है।\* इसके विपरीत दूसरे भी वैज्ञानिक हैं,

\* देखिए,—बंगला मासिक पत्र—साहित्य, वैशाख, बंगला सन् १३१९—  
श्री शशाधर राय का वंशानुक्रम पर एक लेख।

जो यह समझते हैं कि वंशानुक्रम की अपेक्षा जीव पर पारिपार्श्विक वातावरण का अधिक प्रभाव पड़ता है।

प्राच्य देशों में भी वश-मर्यादा के प्रति यथार्थ अर्थात् दर्शाई गई है। इंग्लैंड के प्रसिद्ध कवि श्री डब्ल्यू० वी० टैट्स ने कवीन्द्र रवीन्द्रनाथ की गीताञ्जलि की भूमिका में एक सुन्दर दृष्टान्त का उल्लेख किया है,—"प्राच्य देशों में आप लोग यथार्थ में ही वश-मर्यादा को अश्रुण रचना जानते हैं। उस दिन मुझे एक म्युजियम के क्यूरेटर (अध्यक्ष) ने एक कृष्णाङ्ग व्यक्ति को दिग्गलाकर यह कहा था कि वह व्यक्ति, जो चीन देश की प्रदर्शनीय वस्तुओं को सजाकर रख रहा है, मिस्त्रो के एक प्रिय कलाकार वश का चौदहवाँ व्यक्ति, है। उक्त परिवार वश परम्परा से उसी कार्य में नियुक्त है।"

प्रसिद्ध जीव-वैज्ञानिक भ्रियुत जे० आर्थर टाम्सन् महोदय ने कहा है कि वशानुक्रम विज्ञान से सम्बन्ध रखनेवाली समस्याएँ अन्य समस्त वैज्ञानिक समस्याओं में मनुष्य समाज के लिए सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण हैं।\*

सामाजिक प्रयोजन के अतिरिक्त विशुद्ध ज्ञान की दृष्टि से भी, हमें वशानुक्रम विज्ञान से बहुत ही चित्ताकर्षक घातों का पता चलेगा। जैसे कृत्रिम उपायों से सब्जि और फूलों तथा फलों के पौधों का अद्भुत विकास किया जा रहा है, वैसे ही प्राणियों में भी अपने इच्छानुसार नवीन प्रकार के जीवों की उत्पत्ति की चेष्टा

---

Heredity in the Light of Recent Research by L. Doncaster pp 49 50 116 Darwin & Modern p 101, अति आधुनिक युग के भी बड़े-बड़े वैज्ञानिकों का मत इसके पक्ष में है। इसके विरुद्ध भी कुछ अन्य बड़े बड़े वैज्ञानिक अपनी राय देते हैं, इस विषय पर आगे चलकर विस्तृत रूप से आलोचना की जायगी।

की जा रही है। चूहे आदि पर इसकी परीक्षा प्रारम्भ हो गई है और इस विषय में बहुत कुछ सफलता भी प्राप्त हुई है। वैज्ञानिकों का कथन है कि भविष्य में हम पेड़ पौधों की तरह मनुष्यों को भी हम अपनी इच्छा के अनुसार जन्म दे सकेंगे। यदि विशुद्ध ज्ञान की दृष्टि से विज्ञान की उन्नति नहीं होगी, तो विज्ञान से हमें सामाजिक लाभ भी अधिक न हो सकेगा।

## दूसरा परिच्छेद

### डार्विन, गैल्टन और मेन्डेल के आविष्कार

डार्विन—तीसवीं सदी के पहले तक विज्ञान के आधार पर वशानुक्रम का ज्ञान प्रतिष्ठित नहीं हो पाया था। इस बात को तो सभी जानते थे कि सन्तान पिता माता के सदृश होती है, और एक ही पिता माता की सन्तान आपस में देखने में एक दूसरी से बहुत कुछ मिलती-जुलती हैं। मनुष्य इस बात को मैन्डो बर्पो से जानता था कि कटहल के पेड़ से आम नहीं फलता और केले का पंड़ लगाने से उससे लीची नहीं मिल सकती। मनुष्यों के बारे में भी ऐसा ही नियम लागू है, इस धारणा का भी मनुष्य अनादि काल से पोषण करता चला आया है। “मा को पूत पिता को घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा” यह कहावत उक्त धारणा की पुष्टि करती है। किन्तु वैज्ञानिक रीति से इसकी आलोचना अभी पिछले दिनों से ही प्रारम्भ हुई है।

विज्ञान के इतिहास में एफ० जे० गॉल (१७५८—१८०८) नामक एक डाक्टर ने, पहले तो वियना और बाद में पेरिस में, अपने परीक्षागारों में स्नायु के सम्बन्ध में अनुसन्धान करते समय,

वशानुक्रम के बारे में भी बहुत से तथ्यों का आविष्कार किया था। गॉल के वशानुक्रम-सम्बन्धी आविष्कार के कारण उन पर ईसाई समाज के पादरी अत्यन्त असंतुष्ट हो गये थे। इसका कारण यह था कि ईसाइयों के धारणानुसार जन्म के समय शिशु संस्कारशून्य होकर ही जन्म लेता है, और वशानुक्रम विज्ञान के अनुसार वह संस्कार युक्त होकर जन्म ग्रहण करता है।

आधुनिक विकासवाद अथवा विवर्तनवाद की भी मूल धारणाएँ हिन्दुओं में बहुत समय से प्रचलित हैं, किन्तु पाश्चात्य समाज में ही उसका वैज्ञानिक रूप प्रकट हुआ है। वशानुक्रम विज्ञान भी पहले-पहल विकासवाद की ही शाखा के रूप में दिखाई दिया था। सैकड़ों पशुपालक और बागवानों ने इस बात को समझ लिया था कि बलिष्ठ सोंड के औरस से उत्कृष्ट गाय का जन्म होता है, और फूल तथा फल के पौधों से भी, नई नई शाखाओं के निकलने से, नये प्रकार के फलों और फूलों के जन्म देनेवाले नवीन पौधों का आविर्भाव होता है।

वैज्ञानिक विकासवाद के आविर्भाव के पूर्व ही, दार्शनिक और चिन्तनशील लेखकों ने सर्वप्रथम विकासवाद के सिद्धान्त का प्रचार किया था, किन्तु सबसे पहले लामार्क और उसके बाद चार्ल्स हार्विन, वालेस और हरवर्ट स्पेन्सर ने, वर्तमान युग में वैज्ञानिक विकासवाद को जन्म दिया। इनमें से लामार्क की खोज और हार्विन के "प्रॉरिजिन आफ् स्पीसीज़" के खोजपूर्ण तथ्यों के आधार पर वशानुक्रम विज्ञान का वैज्ञानिक आधार प्रतिष्ठित हुआ है। वशानुक्रम की धारणा को छोड़कर वैज्ञानिक विकासवाद टिक नहीं सकता। सबसे पहले लामार्क ने ही वशानुक्रम के आधार



पर विकासवाद के एक युक्तिस्तम्भ सिद्धान्त का निर्माण किया था। लामार्क का जीवनकाल ई० सन् १७४४ से १८०६ है और डार्विन का जीवनकाल १८०६ से १८८२ है। डार्विन के पहले ही लामार्क ने विकासवाद के सम्बन्ध में गवेषणा प्रारम्भ कर दी थी। उन्होंने १८२० में अपनी गवेषणाओं का परिणाम प्रकाशित करा दिया था। डार्विन ने इसके बाद ही विकासवाद के सम्बन्ध में अपनी गवेषणा प्रारम्भ की थी। उस गवेषणा के परिणाम में एक नवीन एव अतिव्यापक वैज्ञानिक सिद्धान्त का उद्भव हुआ था। इस सिद्धान्त का अंगरेजी नाम है 'थियरी आफ इवोल्यूशन', अर्थात् विकासवाद। इस विकासवाद ने वैज्ञानिक क्षेत्र में जैसा युगान्तर्ग उपस्थित किया था, उसका वैसा ही अद्भुत प्रभाव सामाजिक और धार्मिक क्षेत्रों में भी देखा गया था।

विकासवाद के इन मूल सिद्धान्तों को लेकर आज भी नाना प्रकार की गवेषणाएँ हो रही हैं। नूतन का उद्भव कैसे होता है, इसकी वैज्ञानिक मीमांसा आज भी नहीं हो पाई है। सोवियट रूस में ऐसे भी एक वैज्ञानिक का आविर्भाव हुआ है, जिसने डार्विन के विकासवाद को स्वीकार नहीं किया है। इस पुस्तक में विकासवाद के सिद्धान्त के सम्बन्ध में अधिक आलोचना न करते हुए हम केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि विकासवाद के सिलसिले में ही वंशानुक्रम विज्ञान की उत्पत्ति हुई। नूतन का आविर्भाव कैसे होता है, इस प्रश्न ने एक ओर जैसे वैज्ञानिकों के मन को चञ्चल किया है, वैसे ही जीव राज्य में विभेदों की भी कैसे सृष्टि हुई और उनका स्वरूप क्या है, इसके सम्बन्ध में आज तक वैज्ञानिकों की खोज समाप्त नहीं हुई है। नवीन और विभेदों की सृष्टि के प्रश्नों के साथ ही वंशानुक्रम विज्ञान का सम्बन्ध है।

वंशानुक्रम विज्ञान के सम्बन्ध में इतने वैज्ञानिक आविष्कार हो चुके हैं कि उन्हें विधिपूर्वक क्रम के अनुसार एकत्र करना

और उनके तात्पर्यों को ठीक-ठीक समझ लेना आज अत्यन्त कठिन बात हो गई है। हमें यह भी स्मरण रखना उचित है कि वैज्ञानिक क्षेत्र में किसी विद्वान्त को हम अन्तिम निर्णय के रूप में नहीं ग्रहण कर सकते। वशानुक्रम विज्ञान के सम्वन्ध में भी यही बात यही जा सकती है। तथापि इस विज्ञान की इतनी वृत्ति हुई है कि यदि सामाजिक क्षेत्र में इसका उपयुक्त प्रयोग हो तो समाज का प्रभूत कल्याण होगा।

सर फ्रैन्सिस गैल्टन (१८२२-१९११)—टारविन के पश्चात् उनके चचेरे भाई गैल्टन महोदय ने ही आधुनिक वशानुक्रम विज्ञान को जन्म दिया। टारविन के 'ओरिजिन आफ् स्पीसीज' नामक ग्रन्थ में, प्राणियों के सम्वन्ध में जितनी वंशानुक्रम की बातें मिलीं, उन्हीं तथ्यों का प्रयोग गैल्टन ने मनुष्यों के सम्वन्ध में किया। विशेष विशेष परीक्षाओं में छात्रों ने जैसे-जैसे नम्बर प्राप्त किये उनकी तुलना करके गैल्टन ने यह प्रमाणित किया कि जड़ पदार्थों की गति आदि, जैसे गणित शास्त्र के नियमाधोन रहती हैं, उसी प्रकार मनुष्यों की मानसिक शक्ति का विकास भी, गणितशास्त्र के नियमों में घँटा हुआ है। गैल्टन ने यह प्रमाणित कर दिया है कि अधिकांश मनुष्यों की मानसिक शक्ति की गिनती मध्यम श्रेणी में है। यदि इस मध्यम श्रेणी के एक व्यक्ति की मानसिक शक्ति के साथ उसी समाज के एक प्रतिभावान् व्यक्ति की मानसिक शक्ति की तुलना की जाय तो यह देखने में आता है कि साधारण व्यक्ति और प्रतिभावान् व्यक्ति के बीच मानसिक शक्ति का जितना व्यवधान है, और इनके बीच जैसे क्रमशः उच्च से उच्चतर शक्ति का विकास देखने में आता है उसी प्रकार, यह भी देखने में आता है कि उसी समाज के एक निकृष्टतम व्यक्ति की तुलना, एक मध्यम श्रेणी के व्यक्ति की मानसिक शक्ति के साथ करने पर, इन दोनों में भी ठीक पहले

ही जैसा व्यवधान है। इन दोनों श्रेणियों के बीच, मानसिक शक्ति का ह्रास भी ठीक पहात ही की तरह, धीरे धीरे मध्यम श्रेणी से निम्न श्रेणी में निम्न से निम्नतर होता जाता है। इस प्रकार श्रेणी-विभाजन के लिए गैन्टन ने प्रति दस लाख मनुष्यों के बीच में केवल ढाई सौ व्यक्तियों को छाँटकर उन्हें एक श्रेणी में डाल दिया था और उस श्रेणी के व्यक्ति का नाम 'एमिनेन्ट', अर्थात् 'शक्तिमान्' मानकर रक्खा था। इस प्रकार दस लाख मनुष्यों के बीच से एक विशिष्ट व्यक्ति को छाँटकर उसका नाम 'इन्डियम' अर्थात् प्रतिभावान् मानकर रक्खा था। इस प्रकार नामकरण के पश्चात् गैन्टन ने यह दिखाया है कि मूढ़-जड़ स्वभाव-विशिष्ट मनुष्य के साथ एक और साधारण मनुष्य का जितना अन्तर है दूसरी ओर साधारण मनुष्य के साथ शक्तिमान् मनुष्य का भी ठीक उतना ही अन्तर है। प्रामाणिक पुस्तकों आदि की महायता में प्रसिद्ध व्यक्तियों के जीवनचरित्रों को पढ़कर गैन्टन ने यह दिखाया है कि साधारण व्यक्तियों के निकट आत्मीय जनों में जितना शक्तिमान् व्यक्ति मिल सकते हैं उनकी अपेक्षा शक्तिमान् व्यक्तियों के आत्मीय जनों में बहुत अधिक प्रतिभावान् व्यक्ति मिलते हैं। उन्होंने यह भी दिखाया है कि एक साधारण श्रेणी के व्यक्ति के पुत्र की अपेक्षा एक शक्तिमान् व्यक्ति के पुत्र का प्रतिभावान् व्यक्ति होना पाँच सौ गुना अधिक सम्भव है। उन्होंने वशानुक्रम के सम्बन्ध में तीन पुस्तकें लिखी हैं। उनके दृष्टान्त का अनुसरण करके दूसरे वैज्ञानिकों ने वशानुक्रम के सम्बन्ध में बड़ी-बड़ी महत्त्वपूर्ण खोजें की हैं, और आज वशानुक्रम विज्ञान नाना रूप से पल्लवित होकर फल देने की अवस्था में आ पहुँचा है। गैन्टन के मंत्र नियमों की आलोचना यहाँ सम्भव नहीं है। यहाँ पर उनके केवल दो नियमों का उल्लेख करना आवश्यक है। उनका एक नियम तो यह है कि सन्तान, अपने माता-पिता से, उनके आधे आधे गुणों को प्राप्त करती है,

आर अपने माता पिता के माता पिताओं से भी, वे उनके एक चौथाई गुण प्राप्त करते हैं। इसी भाँति वे उनके भी माता पिताओं से, उनके आठवें-हिस्से गुण को प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार गैल्टन के मतानुसार एक व्यक्ति अपने समाज का अविच्छिन्न अङ्ग बना है। उनका दूसरा नियम यह है,—यदि किसी समाज को उच्च, मध्यम और निम्न श्रेणी के व्यक्तियों के हिसाब से विभाजित किया जाय, तो उच्च श्रेणी की सन्तान मध्यम श्रेणी के व्यक्ति के समीपवर्ती होकर जन्म लेती है, और निम्न श्रेणी के व्यक्तियों की सन्तान भी मध्यम श्रेणी की निम्नवर्ती होकर जन्म लेती है। दृष्टान्त के तौर पर लम्बे पिता-माता की सन्तान, उनसे छोटे ऊँचे की होगी, किन्तु मध्यम श्रेणी से ऊँची होगी। इसी प्रकार नाटे पिता-माता की सन्तान अपने पिता-माता से तो ऊँची होंगी, किन्तु मध्यम श्रेणी के व्यक्तियों से छोटी होगी। जिस समाज में अनियमित विवाह पद्धति का प्रचलन है, उस समाज में हा ये नियम अधिक लागू हों।

ग्रेगर जोहन मेन्डेल—इस बात को सभी ने देखा होगा कि एक ही पिता माता की सन्तान देखने में, अनेकांश में, अपने पिता-माता के सदृश ही होती है। किन्तु पिता-माता और उनकी सन्तानों में जैसे एक सादृश्य है, वैसे उनकी आकृति और प्रकृतियों में भिन्नता भी कम नहीं है। एक ही पिता माता की प्रत्येक सन्तान देखने में ठीक एक सी नहीं होती है। पिता-माता और उनकी सन्तानों के बीच कुछ समानता और कुछ असमानता भी रहती है। कोई सन्तान आकृति और प्रकृति में दू-बहु पिता माता के अनुरूप नहीं होती।

माता पिता और सन्तानों में कितनी समता और असमता है एवं एक ही माता पिता की सन्तानों में भी परस्पर कितना सादृश्य है और कितना नहीं, इन सबका अनुसन्धान करना ही वंशानुक्रम

विज्ञान का लक्ष्य है। गैल्टन की गणना के परिणाम में हमें इस बात का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था कि वंश परम्परा के क्रम से, सन्तान माता पिता के गुणों और अगुणों की अधिकारी कैसे बनती है। आस्ट्रिया के एक सन्यासी, ग्रेगर जोहन मेन्डेल (Gregor John Mendel १८२२-१८८४) महोदय ने इस विषय पर पौधों को लेकर बहुत परीक्षाएँ की थीं। मात्र ८ साल की परीक्षाओं के परिणाम में बहुत से वैज्ञानिक तथ्यों का आविष्कार हुआ है, और उन आविष्कारों के आधार पर वंशानुक्रम का ज्ञान यथार्थ विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित हो पाया है।

जिस समय डार्विन अपनी ग्लोज में लगे थे और जिस समय उन्होंने १८६५ में अपनी एक किताब प्रकाशित की थी, उसी समय मेन्डेल महोदय भी अपने आश्रम में पौधों के वंश के सम्बन्ध में परीक्षाएँ कर रहे थे। उन्होंने परीक्षाओं का फल एक स्थानीय वैज्ञानिक समिति के पत्र में प्रकाशित किया था, परन्तु करीब चालीस साल तक इनका पता सत्सार के दूसरे बड़े-बड़े वैज्ञानिकों को न था। सन् १९०० में ह्यूगो डी० ग्राइज, कारेन्स और शेरमैरुन मेन्डेल के आविष्कार को सत्सार के सम्मुख उपस्थित किया। विलियम वैटेशन आदि दूसरे वैज्ञानिकों की परीक्षाओं से मेन्डेल के आविष्कार की पुष्टि हुई।

मेन्डेल का आविष्कार—बड़े शब्दों में मेन्डेल के आविष्कार


का वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है—मेन्डेल ने बड़े और छोटे मटर के पौधों को लेकर परीक्षा प्रारम्भ की। जब केवल एक प्रकार के मटर को अलग बोया गया तो उससे केवल एक ही प्रकार के मटर पैदा हुए। किन्तु जब दोनों प्रकार के मटर एक साथ लगाये गये, तो उनमें से केवल बड़े प्रकार के मटर के पौधे निकले, छोटे प्रकार के गायब हो गये। परन्तु जब पुनः इस नये बड़े मटर को लगाया गया, तो देखा गया कि उनमें एक

चौथाई छोटे मटर निकल आये और तीन चौथाई बड़े प्रकार के मटर निकले। ये एक चौथाई छोटे मटर के पौधे अलग लगाये गये तो उनमें से सत्र छोटे ही मटर निकले, बड़ा मटर एक भी न निकला। उधर तीन चौथाई जो नये प्रकार के बड़े मटर निकले थे उन्हें अलग लगाया गया तो उनमें से फिर कुछ छोटे और कुछ बड़े मटर के पौधे निकले। इस प्रकार यह देखा गया कि सबसे पहलेवाले बड़े मटर के पौधे लगाने से उनमें से केवल बड़े के ही पौधे निकलते हैं और छोटेवाले से छोटे के, परन्तु इन दोनों प्रकार के पौधों में संयोग होने पर, पहली पीढ़ी में, एक प्रकार का पौधा गायब हो जाता है। अब इस पहली पीढ़ी के बड़े मटर से छोटे बड़े दोनों प्रकार के पौधे निकलते हैं। किन्तु पहले प्रकार के बड़े मटर से केवल एक ही प्रकार के बड़े मटर निकले थे। इन विभिन्न प्रकार के पौधों की उत्पत्ति की सरयाएँ पृष्ठ २४ पर चित्र में समझाई गई हैं।

उस चित्र से पाठको को पता चल जायगा कि मिश्रण होने के पश्चात्, पहली पीढ़ी में, छोटे मटर गायब हो जाते हैं और केवल एक ही प्रकार के बड़े मटर उगते हैं। परन्तु इस पहली पीढ़ी के मटर के बीज में छोटे पौधे के बीज छिपे हुए हैं। इस छिपी हुई सत्ता को अँगरेजी में Recessive Character कहते हैं और उसके बड़ेपन को अँगरेजी में Dominant Character कहते हैं। हम हिन्दी में इन दोनों लक्षणों को क्रमशः "सुप्त" और "व्यक्त" लक्षण कह सकते हैं। पहली पीढ़ी के बड़े मटर में हम 'व्यक्त' लक्षण बड़ेपन और 'सुप्त' लक्षण छोटेपन को एकत्र पाते हैं। यह मिश्र वंश कहलायेगा। इस मिश्र वंश के पौधों के आपस के संयोग से, जो दूसरी पीढ़ी उत्पन्न होगी, उसमें एक चौथाई तो बड़े मटर निकलेंगे और एक चौथाई छोटे मटर। इन दोनों प्रकार के छोटे

बड़ा मटर × छोटा मटर

बड़ा मटर



और बड़े मटरों को यदि अलग अलग बोया जाय तो इनमें से शुद्ध छोटे और बड़े प्रकार के मटर के पौधे हमेशा निकलने रहेंगे। इन दोनों वंशों को शुद्ध वंश कह सकते हैं। इस दूसरी पीढ़ी में एक चौथाई बड़े और एक चौथाई छोटे मटरों के वंशों को छोड़कर बाकी दो चौथाई अर्थात् आधे पौधे देखने में तो बड़े प्रकार के होंगे, परन्तु ये पौधे मिश्र वंश के होंगे और इनके आपस के संयोग से फिर एक चौथाई बड़े और एक चौथाई छोटे शुद्ध वंश के पौधे निकलेंगे। बाकी आधे पुन मिश्र वंश के होंगे। इस नियम को मेन्डेल का नियम कहा जाता है। इसके अतिरिक्त दूसरे दृष्टान्त भी मिलते हैं,—जैसे एक ही जाति के सफेद और लाल फूलों में संयोग होने से पहले गुलाबी फूल उत्पन्न होगा और इस मिश्र-गुलाबी फूल के आपस के संयोग से मेन्डेलियन नियमानुसार पुन सफेद, लाल और गुलाबी फूल उत्पन्न होते रहेंगे। एक तासरा दृष्टान्त इस प्रकार है—काले और मुलायम लोमवाले गिनी पिग\* से सफेद और कड़े लोमवाले गिनी पिग का संयोग होने से, पहली पीढ़ी में, काले तथा कड़े बालवाले गिनी पिग उत्पन्न होते हैं और इन पहली पीढ़ीवालों में परस्पर संयोग होने से नौ काले तथा कड़े लोमवाले, तीन काले और नरम लोमवाले, तीन सफेद और कड़े लोमवाले एवं एक सफेद नरम लोमवाला गिनी पिग उत्पन्न होता है। इस दृष्टान्त में कुछ नवीन प्रकार के गिनी पिग उत्पन्न हुए, परन्तु ये देखने में ही नवीन हैं, यथार्थ में नहीं। इनमें केवल पहले के, अलग-अलग गुणों के, विभिन्न सम्मिश्रण मात्र हैं। वंश-वृद्धि के ये सत्र दृष्टान्त मेन्डेल के नियमानुसार ही होते हैं। इन दृष्टान्तों से हमें यह जान पड़ता है कि जीव के विभिन्न गुण अलग अलग रूप से सन्तान में दिखाई पड़ते हैं। इन अलग अलग गुणों को आंगरेजी में 'मेन्डेलियन

\* Guinea Pig = चूहा जातीय एक जंतु।



फैक्टर्स' कहते हैं। इन्हें हिन्दी में "गुण", "लक्षण" अथवा "उपकरण" कह सकते हैं। पौधों अथवा जीवों के ये "गुण" (factors) स्वतन्त्र रूप से क्रियाशील रहते हैं। सम्मिश्रण होने पर भी ये लुप्त न होकर वंश परम्परा में क्रियाशील रहते हैं। वशानुक्रम विज्ञान में इस बात का अत्यन्त महत्त्व है। इन फैक्टर्स ( लक्षणों ) के विभिन्न रूप से मिश्रित होने पर अलग-अलग जातों की उत्पत्ति होती है। विभिन्न गुण-युक्त स्त्री और पुरुष के संयोग से उनके विभिन्न "फैक्टर्स" के नाना प्रकार के सम्मिश्रण होते हैं। इन फैक्टर्स की संख्या जितनी अधिक होगी, उतना सम्मिश्रण भी उतना ही जटिल होगा। इस जटिलता का एक उदाहरण यह है कि देखने में तो एक जीव गोरा है, किन्तु उसका यह गोरापन कई एक गुणों ( Factors ) के सम्मिश्रित होने का परिणाम है। इसी प्रकार एक दूसरे जीव का गोरापन दूसरे गुणों के मिश्रित होने से उत्पन्न हुआ है। जब ऐसे दो जीवों का संयोग होगा तब उनकी संतान गोरी नहीं भी हो सकती है। गोरापन के अतिरिक्त दूसरे गुणों के सम्बन्ध में भी यही नियम लागू है। यह तत्त्व कितना महत्त्व रखता है, इसका पता एक दूसरे उदाहरण से चलेगा। एक प्रकार का गेहूँ है, जिसमें शाग्र कीड़े नहीं लगते। एक दूसरे प्रकार के गेहूँ में भी वही गुण है परन्तु वह भिन्न 'फैक्टर्स' के सम्मिश्रण से बना है। किन्तु इन दो प्रकार के गेहूँ के सम्मिश्रण से जितने प्रकार के गेहूँ उत्पन्न होते हैं उनमें से एक ऐसे प्रकार का भी गेहूँ होता है, जिसमें बहुत शीघ्र कीड़े लग जाते हैं। मेण्डेल के नियमानुसार 'फैक्टर्स' के विभिन्न प्रकार के सम्मिश्रण होने के कारण 'सुप्त' (Recessive) और 'व्यक्त' (Dominant) लक्षणों के रहने से, ऐसे विचित्र वंशजों की उत्पत्ति होती है\*।

\* देखिए—Human Heredity by Baur Fischer and Lenz—Pp 45 47 53 55 61

ये नियम, पौधों और जन्तुओं की तरह, मनुष्यों को भी बहुत कुछ लागू हैं। मनुष्यों में कितने ऐसे 'गुण' (फैक्टर्स) हैं जो वंशजों में प्रकट होते हैं, इसका पूरा पता अभी तक प्राप्त नहीं है, किन्तु इनकी संख्या बहुत अधिक है। इसके उपरान्त 'सुप्त' (Recessive) और 'व्यक्त' (Dominant) लक्षणों के रहने के कारण वंशानुक्रम की प्रक्रियाएँ अत्यन्त जटिल बन गई हैं। कभी तो 'सुप्त' (Recessive) या 'व्यक्त' (Dominant) लक्षण केवल स्त्री अथवा केवल पुरुष वंशज में ही प्रकट होता है, अथवा कुछ फैक्टर्स कहीं-कहीं संयुक्त रूप से ही प्रकटित होते हैं, स्वतन्त्र रूप से नहीं, एवं कभी कभी ऐसा भी होता है कि दो फैक्टर्स एकत्र प्रकट नहीं होते। ऐसा देखा गया है कि पिता का रोग न तो पुत्र और न पुत्री में किन्तु पुत्री के सन्तानों में जाकर प्रकट हुआ। (इसे अंगरेजी में Sex-linked characters or factors कहते हैं।)

मेन्डेल के नियमों को छोड़कर दूसरे प्रकार से भी वंशानुक्रम हुआ करता है, परन्तु उसके नियमों का अभी तक विशेष पता नहीं चला है। किन्तु किन प्रक्रियाओं से माता पिता के गुण-अगुण सन्तान में उत्पन्न होते हैं, इसका यथेष्ट ज्ञान प्राप्त हो चुका है।

मेन्डेल का आविष्कार और कृषि आदि की उन्नति—मेन्डेल के नियमानुसार वंशानुक्रम विज्ञान के प्रयोग से यूरोप, अमेरिका और जापान में गृह पालित पशुओं और पेड़ पौधों की अद्भुत उत्पत्ति हो रही है। हमारे देश में प्रायः एक ही प्रकार के छोटे-छोटे आलू उत्पन्न होते हैं। अधिक से अधिक कुछ अपेक्षाकृत बड़े नैनीताली आलू भी हमें देखने की मिल जाते हैं किन्तु जापान और अमेरिका आदि देशों में इतने बड़े-बड़े आलू उत्पन्न किये गये हैं कि एक एक आलू तौल में डेढ़ डेढ़ पाव से

भी अधिक होते हैं, कुम्हड़े एक-एक मन तर के हुए हैं। उन देशों में कोई ऐसी सच्ची नहीं है, कोई ऐमा फल नहीं है, अथवा अण्डा, मुर्गी, दुग्धा, बकरी आदि ऐसा कोई पालतू पशु या पक्षी नहीं है जिसकी मेन्डेलियन आदि रीतियों के अनुसार प्रभूत उन्नति न की गई हो। गृहपालित पशु और रोती के बारे में तो वशानुक्रम-विज्ञान का यूरोप आदि देशों में अच्छा प्रयोग होने लगा है, किन्तु मनुष्य-समाज के सम्बन्ध में अभी तक इस विज्ञान का प्रयोग नहीं के बराबर हुआ है। तथापि आज पश्चात्य देशों में और जापान में, बड़ी-बड़ी वैज्ञानिक समितियाँ बनी हैं जिनका कार्य वशानुक्रम विज्ञान के अनुसार समाज का पुनर्र्गठन करना है। किन्तु भारतवर्ष में आज भी इस विषय पर गम्भीर रूप से विचार तक प्रारम्भ नहीं हुआ है।

मेन्डेलियन रीति के अनुसार कैसे पौधों की उन्नति की जाती है, इसके कुछ दृष्टान्त यहाँ दिये जाते हैं। सेम के पौधे को ले लीजिए। जब इन पौधों की अच्छी सेवा की जाती है, जल-वायु अनुकूल होती है एवं खाद का अच्छा प्रयोग होता है, तब पौधों की अच्छी उन्नति होती है। किन्तु इन पौधों से जो सेम उत्पन्न होती हैं वे सब एक सी नहीं होतीं। उनमें छोटी बड़ी सब प्रकार की होती हैं। अब इन में से से बड़ी-बड़ी सेमों के बीज को यदि अलग कर लिया जाय तो यह देखा गया है कि इन बड़ी सेमों के बीजों से जो नये पौधे निकलेंगे, उनमें से भी पहले की तरह छोटी-बड़ी सेमों उत्पन्न होती हैं, केवल बड़ी सेमों नहीं उत्पन्न होता। और यदि केवल छोटी सेमों के बीज भी अलग लगाये जायें तो उनमें से भी ठीक पहले की तरह छोटी-बड़ी सेमों उत्पन्न होती हैं। अर्थात् केवल छोटों से पौधा की अधिक उन्नति नहीं हो सकती।

एक दूसरा दृष्टान्त लीजिए। इंग्लैंड में जो गेहूँ उत्पन्न होता है उसकी नस्ल अच्छी नहीं होती, किन्तु उसकी पैदावार अच्छी होती है। इसके विपरीत अमेरिका में जो गेहूँ उत्पन्न होता है वह इंग्लैंड के गेहूँ से अच्छा होता है, किन्तु अमेरिका के गेहूँ की पैदावार इंग्लैंड के गेहूँ से कम होती है। बीफेन (Biffen) नामक एक वैज्ञानिक ने एक नवीन प्रकार का गेहूँ उत्पन्न करना चाहा, जिसमें उपज तो अमेरिका के गेहूँ से अधिक हो किन्तु गुण में वह इंग्लैंड के गेहूँ से अच्छा, अमेरिका के गेहूँ की तरह हो। बीफेन (Biffen) ने यह देखा कि अमेरिका के गेहूँ का जो अन्धापन है वह मेन्डेल की भाषा में डामिनेन्ट अर्थात् 'व्यक्त' गुण-युक्त है। जब उन्होंने अँगरेजी और अमेरिका के गेहूँओं का संयोग कराया तो उनमें से सब अमेरिका की तरह अच्छे गेहूँ उत्पन्न हुए और इसके बाद की पीढ़ी में मेन्डेल के नियमानुसार एक और तीन के अनुपात में अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के गेहूँ उत्पन्न हुए। फिर इनमें से निर्वाचन करते करते एक नवीन प्रकार का गेहूँ उत्पन्न हुआ, जिसकी पैदावार तो इंग्लैंड के गेहूँ की तरह हुई किन्तु गुण में वह अमेरिका के गेहूँ की तरह हुआ। इसके बाद भी परीक्षाएँ होती रहीं, और आजकल उनके परिणाम में इंग्लैंड के गेहूँ की प्रभूत उन्नति हुई है। गेहूँ के अच्छे होने को यह भी एक पहचान है कि उसमें कीड़े जल्दी न लगें और वह अथ किसी प्रकार से रोग-ग्रस्त न हो जाय। इंग्लैंड का गेहूँ जल्दी रोग-ग्रस्त हो जाता था, किन्तु रूस का एक प्रकार का घुटका नाम का गेहूँ इस विषय में बहुत अच्छा है। इसमें जल्दी रोग नहीं पकड़ता है। बीफेन ने अँगरेजी गेहूँ के साथ रूस के इस घुटका नाम के गेहूँ का संयोग कराया। फिर पूर्वोक्त प्रकार से निर्वाचन के

शराब भी बनती है, शिल्प में व्यवहार-योग्य स्फिरिट भी बनती है और इसके अतिरिक्त इससे दूसरे पदार्थ भी बनते हैं। मुट्टे के पेड से कागज तथा नकली रेशम आदि भी बनते हैं। इन सब कारणों से अमेरिका में मुट्टों के धारे में भी बहुत सी परीक्षाएँ हुई हैं और उसमें वहाँ पर बहुत कुछ उन्नति की गई है।

सोवियट रूस में गेहूँ के धारे में ऐसी उन्नति की गई है कि वहाँ पर जाड़े की फसल गर्मियों में और गर्मी की फसल जाड़ों में उत्पन्न की जा सकती है। उस देश में जंगलों में एक प्रकार का पौदा होता है, जिससे रबर निकलती है। रूस के वैज्ञानिकों ने उस जंगली पौधे को अपनी इच्छा के अनुसार लगाया है, और उससे अच्छा रबर उत्पन्न किया है। सन् '३९ के मार्च महीने में मास्को में इन वैज्ञानिकों का एक सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन में उपर्युक्त बात पर बहुत प्रकाश डाला गया था।



## तीसरा परिच्छेद

### वंशानुक्रम की प्रक्रियाएँ

जीव की उत्पत्ति—हमारे उपनिषद् के एक महावाक्य से संसार आज भली भाँति परिचित हो गया है—एकोऽहं बहु स्याम्। एक से ही बहुत हुआ है। एक तनिक-से बीज से, कितना विशाल वट वृक्ष उत्पन्न हो जाता है। एक में ही समस्त विचित्रताएँ परिष्फुट होती हैं। समता से विषमता में, अव्यक्त से व्यक्त में जाने का ही नाम सृष्टि है। यह परिदृश्यमान जगत् कितना वैचित्र्यपूर्ण है, किन्तु इसका विकास एक वस्तु से ही हुआ है। इस कारण इस संसार में सहस्रो विचित्रताओं के बीच कुछ सादृश्य



संसार में प्रथम जीव की उत्पत्ति कैसे हुई है, कैसे इस जड़ जगत में सबसे पहले प्राणशक्ति का स्फुरण हुआ है—यह एक अत्यन्त गूढ़, रहस्यपूर्ण एवं जटिल वैज्ञानिक प्रश्न है। यह आधुनिक विज्ञान का एक विशेष अनुसन्धान का विषय है। हम यहाँ पर केवल इतना ही कह देना पर्याप्त समझने हैं कि आधुनिक विज्ञान के अनुसार, प्राण से ही प्राण की उत्पत्ति होती है—ऐसा माना जाता है। और इस प्राणशक्ति का अन्तिम रूप जीवित जीव कोष में ही प्राप्त होता है। कभी तो एक कोष विशिष्ट जीव द्विस्रष्टित होकर दूसरा जीव बनता है और कभी बहु कोष विशिष्ट जीव से केवल एक ही कोष निकलकर उससे दूसरा जीव उत्पन्न होता है। कभी-कभी बहु-कोष-विशिष्ट जीव-देह से कोषों का समूह अथवा उसका एक विशेष अङ्ग देह से अलग हो जाता है और उससे नवीन जीव की उत्पत्ति होती है। इसके अतिरिक्त कभी एक ही देह से दो कोष निकलने हैं और इन दोनों कोषों के सम्मेलन से एक नवीन जीव की उत्पत्ति होती है। और कभी कभी दो जीवों से एक एक कोष निकलकर सम्मिलित होते हैं और उससे एक नवीन जीव का जन्म होता है। अतः में कही गई इस रीति में ही मैथुन के परिणाम में जीव की उत्पत्ति होती है। दूसरी रीतियों में बिना मैथुन के ही जीव की उत्पत्ति हो सकती है।

जीव वैज्ञानिकगण कहते हैं कि जैसे और स्थानों में वैसे ही प्राणि जगत् में भी प्रसारभेद अर्थात् श्रेणीभेद का करना प्रायः असम्भव है। विभिन्न श्रेणियों को दूसरी से इतने, वनिष्ठ रूप से सम्बन्धित हैं कि एक श्रेणी को दूसरी श्रेणी से अलग करना अत्यन्त कठिन कार्य है, तथापि विषय को समझने के लिए श्रेणी विभाजन का विशेष आवश्यकता होती है।

एक-कोष विशिष्ट जीव की वंश-वृद्धि तीन प्रकार से हो सकती है—(१) एक कोष के दो टुकड़े हो जाते हैं और इस प्रकार

एक जीव के स्थान पर दो जीव उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार पिता की देह से दो देहों की उत्पत्ति होती है, और पिता के अस्तित्व का अवसान हो जाता है। जीव उत्पत्ति की इस रीति को अंगरेजी में फिशन (Fission) कहते हैं। (२) पिता की देह पर एक नयी देह उगती है और फिर वह नयी उद्भूत देह पितृ-देह से अलग हो जाती है। इस दूसरी रीति में पितृ देह का अवसान नहीं होता। जीव उत्पत्ति की इस रीति को अंगरेजी भाषा में बडिङ्ग (Budding) कहते हैं। इस रीति में भी एक कोष के ही दो टुकड़े हो जाने का दृष्टान्त मौजूद है। (३) एक कोष से ही बहुतों की उत्पत्ति होने को स्पोरुलेशन (Sporulation) कहते हैं। इस रीति का एक और विशेष रूप भी दृष्टिगोचर होता है। जब पितृ देह पर एक कोष निकलकर वह उसमें अलग नहीं हो जाता और पितृ-देह पर रहते हुए ही वह कोष अपना नवीन जीवन प्रारम्भ करता है तब उस विचित्र जीव को कॉलोनी (Colony) कहते हैं।

इन रीतियों में बिना मैथुन के ही नयी जीव की मृष्टि होती है, किन्तु इस नियम का अपवाद देखा जाता है।

बहुकोषीय विशिष्ट जीवों की वंशवृद्धि प्रधानतः दो प्रकार से होती है—(१) देह का विभाजित हो जाना—कभी तो केवल एक कोष पितृ-देह से निकलकर एक अलग जीव बनता है, और कभी बहुकोषीय, सामूहिक रूप से पितृ-देह में अलग हो जाते हैं। इन कोषों के सामूहिक रूप से ही देह के अङ्ग प्रत्यङ्ग आदि बनते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि पितृ-देह का एक अङ्ग, देह से अलग होकर, स्वतंत्र जीव बन जाता है। इस रीति में भी मैथुन की क्रिया दृष्टिगोचर नहीं होती। (२) इस दूसरी रीति में मैथुन के परिणाम में ही जीवों की उत्पत्ति होती है। मैथुन की रीतियों में भी बहुत ही रहस्यपूर्ण घातें पाई जाती हैं। एक तो वह रीति है,



जन्म पुरुष का वीर्य स्त्री के अण्ड में प्रविष्ट होता है। ये पुरुष और स्त्री स्वतंत्र रूप से जीवन बिताते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि एक ही प्राणी में पुरुष का वीर्य और स्त्री का अण्ड दोनों उत्पन्न होते हैं। पौधों में और निम्नस्तर के जीवों में ऐसे दृष्टान्त प्राप्त होते हैं। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि पुरुष के वीर्य के साथ संयुक्त न होकर भी स्त्री के अण्डे से ही जीव की उत्पत्ति होती है। इसे अंगरेजी में पार्थेनोजेनेसिस (Parthenogenesis) कहते हैं।

सबसे सरल आकार विशिष्ट जीव और पौधों में केवल एक ही कोष के अस्तित्व का प्रमाण मिलता है। किन्तु ऐसी भी वस्तुएँ हैं जिन्हें न पौधा ही कहा जा सकता है और न जंतु ही। इन वस्तुओं को अंगरेजी में प्रोटिस्टा (Protista) कहते हैं। ऐसा अनुमान किया जाता है कि प्रोटिस्टा से ही उद्भिज और प्राणियों की उत्पत्ति हुई है, अर्थात् प्राणी और उद्भिजों में सीमा रेखा का रीचना सम्भव नहीं।

कोष का विभाजन और उसका परिणाम—कोष के विकास की एक सीमा है। उस सीमा तक पहुँचने पर कोष दो टुकड़े में विभाजित हो जाता है। ये कोष के दो टुकड़े फिर अपनी पूर्णता को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार एक-कोष विशिष्ट जीव से दूसरे जीव की उत्पत्ति होती है। यह दूसरा जीव अपने पिता के पूर्ण अनुरूप होता है। एक कोष के दो टुकड़े हो जाने की गति भी बहुत ही रहस्यपूर्ण है। एक कोष के दो टुकड़े होते समय उस कोष के अन्तर्गत समस्त वस्तुएँ भी ठीक-ठीक दो हिस्सों में विभाजित हो जाती हैं। फिर वे आधी आधी वस्तुएँ पूर्णता को प्राप्त कर लेती हैं।

कोष के अंदर शब्द जैसा एक अर्ध-तरल पदार्थ प्राप्त होता है। इसे अंगरेजी में प्रोटोप्लाज्म (Protoplasm)

कहते हैं। शब्द सट्टा इस पदार्थ में एक और अण्डाकार पदार्थ भासमान रहता है। इस भासमान अण्डाकार पदार्थ को उस कोष की "नाभि" कह सकते हैं। इसे अंगरेजी में न्यूक्लियस (Nucleus) कहते हैं। इस नाभि के अन्दर एक प्रकार के और पदार्थ प्राप्त होते हैं, जो सूत्र के सट्टा होते हैं। 'नाभि' के अन्दर ये जाल के समान एक दूसरे से लिपटे फले रहते हैं। इन पदार्थों को अंगरेजी में क्रोमोसोमस् (Chromosomes) कहते हैं। इस सूत्र-सट्टा पदार्थ को हम हिन्दी में वशसूत्र कहेंगे। नाभि के अन्दर ये वश-सूत्र (Chromosomes) पानी सट्टा एक तरल पदार्थ में भासमान रहते हैं।

कोष के विभाजन को अंगरेजी में माइटोसिस (Mitosis) कहते हैं। इस विभाजन के कई एक स्तर हैं। वास्तव में कोष का विभाजन तेल की धार सट्टा अविच्छिन्न एव एक परिपूर्ण क्रिया है। किन्तु समझने की सुविधा के लिए इस क्रिया को विभिन्न स्तरों में टालकर हम इस क्रिया को पूर्ण रीति से समझने की चेष्टा करते हैं। इसकी प्रथम स्थिति को अंगरेजी में रेस्टिंग फेज (Resting Phase) कहते हैं और हिन्दी में हम इसे साधारण स्थिति कह सकते हैं। इस साधारण स्थिति में न्यूक्लियस अर्थात् नाभि के अन्दर की वस्तुओं को हम ठीक ठीक देख नहीं पाते। इसके अन्दर जो लम्बे और सूक्ष्म सूत्र सट्टा पदार्थ रहते हैं वे इस प्रकार एक दूसरे में लिपटे रहते हैं कि उन सूत्रों को अलग-अलग देखना असम्भव सा है। जिस तरल पदार्थ में ये सूत्र भासमान रहते हैं, उसमें ये मानों कोष की साधारण स्थिति में घुले रहते हैं। जब इस कोष में कोई रङ्ग डाला जाता है, तब यह देखने में आया है कि न्यूक्लियस अर्थात् 'नाभि' के स्थान पर अधिक रङ्ग एकत्र होता है। फिर जब किसी ऐसिड से

इस रङ्ग का साफ कर दिया जाता है तब कोष का और मर ध्यान तो साफ हो जाता है, किन्तु 'नाभि' अथवा न्यूक्लियस क ध्यान में कुछ रङ्ग रह ही जाता है। 'नाभि' और कोष में स्थित शहद सदृश अर्ध-तरल पदार्थ के बीच एक सूक्ष्म परा रहता है। यह परा और इसके अन्तर्गत 'नाभि' क अन्दर स्थित पानी से तरल पदार्थ म रङ्ग नहीं दिखता। किन्तु इस पानी सदृश पदार्थ में, तैरते हुए, अपेक्षाकृत एक कठिन पदार्थ और इसके अतिरिक्त सूत्र-सदृश कुछ और पदार्थ हैं। इन सब पदार्थों में ही रङ्ग ठीक ठीक जमता है। ऐसिड क दान पर भी यह रङ्ग जाता नहीं। इन सूत्र-सदृश पदार्थ का क्रोमैटिन (Chromatin) कहते हैं और नाभि के बीच क कठिन पदार्थ को न्यूक्लिओलस (Nucleolus) कहते हैं। सब कोषों में न्यूक्लिओलस नहीं रहते हैं। इस नाभि के बाहर एक और पदार्थ रहता है जिम्का अँगरेजी नाम सेन्ट्रॉसोम (Centrosome) है। सेन्ट्रॉसोम भी सब कोषों में नहीं रहते। इन सब पदार्थों के अतिरिक्त कोष में और भी पदार्थ रहते हैं, जिनका पूरा वर्णन यहाँ पर नहीं दिया जा सकता।

रेस्टिङ्ग फेज अर्थात् साधारण स्थिति क बाद कोष विभाजन की दूसरी स्थिति का अँगरेजी में प्राफेज (Prophase) कहते हैं। हम अँगरेजी नाम इसलिए रहे हैं कि इससे पाठकों को नाद म इस विषय पर बड़ी पुस्तक पढ़ने में सुविधा होगी। इन सब नामों और इनकी क्रियाओं से परिचित हो जाने से पाठकों को विषय के समझने में बहुत आसानी होगी। इस द्वितीय स्थिति में क्रोमोसोम अर्थात् वश-सूत्र स्पष्ट दिखाने देने लगते हैं और तब यह प्रतीत होता है कि ये क्रोमोसोम अर्थात् वश-सूत्र जोड़े-जोड़े में हैं। इस एक एक जोड़े के एक-एक हिस्से को क्रोमैटिड्स (Chromatids) कहते हैं। द्वितीय स्थिति में ये वश-सूत्र

सङ्कीर्ण होने लगते हैं। छोटे होते-होते ये अपने घीसपेँ हिस्से तक लम्बाई में छोटे हो जाते हैं। इस दूसरी स्थिति में एक-एक जोड़ा क्रॉमोसोम अर्थात् वंश-सूत्र अलग-अलग रहते हैं और उनके दोनो भाग एक दूसरे से लिपटे दिखाई देते हैं। इस दूसरी स्थिति में ये क्रॉमोसोम अर्थात् वंश-सूत्र कुण्डलाकार रहते हैं। एक क्रॉमोसोम के दोनो भाग वैसे एक दूसरे से युक्त रहते हैं, अभी तक इसका रहस्योद्घाटन नहीं हो पाया है। कोई अदृश्य शक्ति क्रॉमोसोम के दोनो भागों को एक दूसरे के साथ संयुक्त रखती है। क्रॉमोसोम अर्थात् वंश-सूत्र के दोनो भाग एक दूसरे के बिलकुल अनुरूप होते हैं। कोप विभाजन की दूसरी स्थिति में 'नाभि' के बाहर स्थित सेन्द्रोसोम भी दो भागों में विभाजित हो जाता है, और ये दोनो भाग एक दूसरे से कुछ दूरी पर खिसक जाते हैं।

कोप विभाजन की तृतीय स्थिति में क्रॉमोसोम और भी छोटे और मोटे हो जाते हैं और इस बीच में सेन्द्रोसोम के दोनो भाग 'नाभि' के दोनो तरफ ठीक एक दूसरे के मुकाबले में आ जाते हैं। 'नाभि' के इन दोनो स्थानों को, जहाँ पर सेन्द्रोसोम के दोनो भाग एक दूसरे के मुकाबले में आ जाते हैं, पोलम ( Poles ) कहते हैं। इस मुहूर्त्त में 'नाभि' और कोप के अन्दर के सब सदृश अर्ध-तरल पदार्थ के बीच का पर्दा छुन्न हो जाता है, तब क्रॉमोसोम कोप के अन्दर उस अर्ध-तरल पदार्थ में भासमान रहने लगता है। इन सब परिवर्तनों के साथ-साथ कोप के अन्दर स्थित दूसरे पदार्थों में भी परिवर्तन होते रहते हैं। पाठक याद रखेंगे कि इस तीसरी स्थिति में सेन्द्रोसोम दो भागों में विभाजित होकर, एक दूसरे के मुकाबले में, 'नाभि' के दोनो ओर आ जाते हैं। इन दोनो 'पैलों' में स्थित सेन्द्रोसोम के बीच के पदार्थ इस तरह से सज जाते हैं, मानों किसी छेटी सी लकड़ी के टुकड़े में सूत लपेटने से बीच में फूल आया हो। ये पदार्थ उस समय रेशे जैसे दिखलाई पड़ते


हैं। इन दोनों पोलों के बीचोबीच के स्थान को इक्वेटर (Equator) कहते हैं। कोष विभाजन की तृतीय स्थिति में क्रॉमोसोम अर्थात् बस-सूत्र इक्वेटर के पास चले आते हैं। इस तृतीय स्थिति को अंगरेजी में मेटाफेज (Meta phase) कहते हैं।

कोष के विभाजन की चतुर्थ स्थिति को अनाफेज (Anaphase) कहते हैं। इस स्थिति में एक जोड़ा क्रॉमोसोम के दो भाग, जो कि एक दूसरे के अनुरूप होते हैं, दोनों पोलों की ओर चलने लगते हैं। इस प्रकार प्रत्येक पोल में एक-एक जोड़ा क्रॉमोसोम के आधे-आधे भाग एकत्र हो जाते हैं। अर्थात् दोनों पोलों में स्थित से क्रॉमोसोम के 'आधे आधे टुकड़े एक एक नाभि' अर्थात् न्यूक्लियस की तरह बन जाते हैं, और उन 'नाभियों' में एक जोड़ा क्रॉमोसोम के आधे आधे क्रॉमोसोम आ जाने से एक कोष दो कोषों में परिणत होने लगता है।

कोष विभाजन की पाँचवीं स्थिति को टेलोफेज (Telophase) कहते हैं। कोष विभाजन की यह अंतिम स्थिति है। इस स्थिति में 'नाभि' और कोष के अन्दर स्थित अर्ध-तरल पदार्थ के बीच फिर एक सूक्ष्म पर्दा बनता है, और आधे आधे क्रॉमोसोम फिर अपनी पूर्णता को प्राप्त कर लेते हैं। यह अन्तिम स्थिति, कोष की पहली स्थिति की तरह, साधारण स्थिति में परिणत हो जाती है। एक जोड़ा क्रॉमोसोम का एक हिस्सा फिर कैसे जोड़ा बन जाता है, इसमें वैज्ञानिकों में मतभेद है। किसी किसी का कहना है कि एक जोड़े का आधा हिस्सा क्रॉमोसोम कोष में स्थित पदार्थों से ही अपना जोड़ा बना लेता है, और किसी किसी का यह अनुमान है कि एक हिस्सा क्रॉमोसोम लम्बाई में दो टुकड़े में हो जाता है, और फिर ये टुकड़े अपनी पूर्णता को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार एक कोष, द्विपरिणत होकर, दो कोषों में परिणत हो जाता है।

१ (क)

१ (ख)



१—(क) कोशिका (ख)—कोशिका की आराम की स्थिति (Resting phase)। कोशिका सक्रिय स्थिति में दूसरी स्थिति में परिवर्तित हो सकती है।

२ (क)

२ (ख)



२—(क) कोशिका में कोशिका भित्ति का टूटना (ख) कोशिका में कोशिका भित्ति का टूटना

३ (क)



३ (ख)



३—(क) और (ख)—कोष की तीसरी स्थिति—Meta-phase । इस स्थिति में 'वंश-सूत्र' (Chromosomes) इन्क्वेटर (Equator) में आ गये हैं ।

४ (क)



४ (ख)




४—(क) और (ख)—कोष की चौथी स्थिति—Ana phase । इस स्थिति में द्विसंखित सेन्द्रोसोम (Centrosome) की दोना ओर क्रोमोसोम (Chromosomes) एकत्रित हो रही है ।

५ (क)

५ (ख)

६



५—(क) और (ख)—कोप विभाजन की पाँचवाँ स्थिति—  
न्युक्लियस के, केन्द्रबिन्दु, नाभि के चारों ओर पर्दा बन रहा है  
एव दो अलग कोप बन रहे हैं।

६—अन्तिम स्थिति—एक कोप से दो कोप बन गये हैं।

इसी प्रकार, एक-कोप विशिष्ट जीव का वशावृद्धि एव बहु कोप-  
विशिष्ट जीव-देह की उत्पत्ति तथा उसका विकास एक कोप के द्विरसण्डित  
होने पर और फिर उसकी पूर्ण परिणति हो जाने पर ही हुआ करता है।

मनुष्य का जन्म किस प्रकार होता है—हम पहले ही  
बता चुके हैं कि ऐसे बहुत से प्राणी हैं जिनका जन्म बिना मैथुन  
के ही हुआ करता है। किन्तु मनुष्य का जन्म मैथुन से ही होता  
है। पुरुष देह निःसृत शुक्र के साथ स्त्री देह स्थित अण्ड के  
सम्मिश्रित होने पर ही सन्तान की उत्पत्ति होती है। पुरुष का  
शुक्र और स्त्री का अण्डकोप विशेष प्रकार के जीव-कोप हैं।  
जीव देह से जीव देह की उत्पत्ति नहीं होती। जीव-देह में  
असंख्य कोप हैं। ये जीव-वस्तु से पूर्ण हैं, जीवन्त हैं, किन्तु इन  
कोपों से जीव की उत्पत्ति नहीं होती। पुंज के वीर्य में अथवा




स्त्री के अण्डकोप में जो कोप वर्तमान हैं, उन्हें अंगरेजी में जर्म सेल्स ( Germcells ) अथवा ग्यामेट ( Gamete ) कहते हैं। हिन्दी में हम उन्हें बीज-कोप कहेंगे। पुरुष का शुक्र अर्थात् बीज कोप जब स्त्री के डिम्बकोप अथवा डिवाणु ( Ovum ) में प्रविष्ट होता है तभी जीव का जन्म होता है। हिन्दुओं के वैद्यक ग्रन्थ "भाव प्रकाश" में अवश्य यह कहा गया है कि पुन्य के संसर्ग से रहित होकर भी स्त्री जीव को जन्म दे सकती है। निम्न भ्रूणी के जीवों में यह बात पाई गई है, किन्तु मनुष्य के बारे में इसका कोई दृष्टान्त हमें उपलब्ध नहीं है, यद्यपि ऐसा कहा गया है कि हज़रत ईसा का तथा श्रीरामकृष्णदेव का जन्म पुरुष संसर्ग से नहीं हुआ था।

साधारणतया एक समय में एक ही पु बीज-कोप स्त्री के डिम्बाणु में प्रवेश कर सकता है। पुरुष के शुक्र में कोटि कोटि बीज कोप रहते हैं। इनमें से केवल एक ही बीज-कोप स्त्री के डिम्बाणु में, अर्थात् स्त्री बीज-कोप में, प्रवेश कर पाता है। एक पु बीज-कोप के, स्त्री के एक डिम्बकोप में प्रविष्ट हो जाने पर डिम्बकोप का बाहरी पर्दा इतना कठिन हो जाता है कि फिर उसमें दूसरा पु बीज-कोप प्रवेश नहीं कर पाता। संभव है, पु बीज-कोपों में यह प्रतिद्वन्द्विता हो कि कौन बीज-कोप सबसे पहले स्त्री के अण्ड कोप में प्रविष्ट होगा। ऐसा भी अनुमान होता है कि स्त्री का अण्डकोप भी पुरुष के बीज कोप को अपनी ओर आकर्षित करता है। पुरुष के कोटि कोटि बीज-कोप स्त्री के अण्डकोप के चारों ओर तैरते रहते हैं। एक समय अण्डकोप का एक अंश कुछ स्फीत हो उठता है और उसमें केवल एक ही पु बीज-कोप प्रवेश कर पाता है। लक्ष्मकोटि पु-बीज कोपों की आपस की प्रतियोगिता में केवल एक ही पु बीज-कोप सफलता को प्राप्त करता है, बाकी सब योही अण्डकोप के चारों ओर तैरते-तैरते विनष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार जीव से ही जीव की उत्पत्ति होती है। किन्तु पिता अथवा

माता का एक विन्दु भी रक्त संतान को प्राप्त नहीं होता—बीज कोष से ही भ्रूण की उत्पत्ति होती है और एक भ्रूण कोष से ही जीव की पूरी देह बनती है। किन्तु बीज-कोष पूर्ण देह को बनाकर भी स्वयं पूर्ववत् देह से भिन्न और परिपूर्ण रहता है। हमारे शास्त्रा में कहा गया है—पूर्णस्य पूर्णमादाय पूणमेवावशिष्यते। बीज कोष इसका जीवन्त दृष्टांत है। एक बीज कोष से वंश-परम्परागत अनन्त पुरुषों का जन्म होता रहता है, किन्तु वह बीज-कोष फिर भी पूर्ववत् ही बना रहता है। जीव उत्पत्ति से घटकर दूसरी कोई आश्चर्यजनक घटना इस ससार में नहीं हो सकती। जैसे एक मशाल से दूसरी मशाल में अग्नि प्रज्वलित का जा सकता है, उसी प्रकार एक ही प्राणविन्दु में अनन्त जीवों का जन्म होता रहता है।


स्त्री का अण्डकोष अथवा अण्डाणु पुरुष के बीज-कोष से बहुत बड़ा होता है। जब पुरुष-बीज-कोष की 'नाभि' अर्थात् न्यूक्लियस स्त्री अण्डाणु की नाभि से युक्त होती है, तब भ्रूण-कोष का जन्म होता है। इस भ्रूण-कोष को अंगरेजी में जाइगोट (Zygote) कहते हैं। यही जीव का जन्म है। एक भ्रूण कोष द्विसंख्यित होकर दो कोषों में परिणत होता है। इस प्रकार दो में चार और चार से चार हजार और चार हजार से कोटि-कोटि कोषों की सृष्टि होती है। किसी कोष-समूह से त्वचा बनती है, किसी से हड्डी और किसी से चक्षु। इस प्रकार स्त्री और पुरुष के एक एक कोष के मिलने से एक नवीन कोष की उत्पत्ति होती है और इस एक नवीन कोष से जीव की परिपूर्ण देह एवं बीज कोष बनते हैं।

क्रोमोसोम और जेनि—प्रत्येक जीव कोष में एक एक केन्द्र-विन्दु अथवा 'नाभि' रहती है। इन केन्द्र विन्दुओं में, अर्थात् नाभियों में, कुछ सूत्राकार पदार्थ रहते हैं। कोष के विभाजित होने के पूर्व ये सूत्र स्पष्ट दिखाई नहीं देते। कोष के तरल पदार्थ में ये घुले से रहते हैं। इस घुली हुई अवस्था में इन्हें क्रोमैटिन



पुरुष के बीज में ये-न अणु प्रमाण कीट रहत हैं, यही पुरुष के बीज-कोष हैं

(१)



स्त्री का अणुगणु । यही स्त्री का बीज कोष है

(२)

{ न्यूक्लियोलस-नाभि का केन्द्र बिन्दु

न्यूक्लियस अर्थात् ताम्र

{ प्रोटोप्लास्म अर्थात् शरीर मरुग अर्थात् तरल पदार्थ

{ मग्नेस-आवरण अंगरेजी में मेग्नेस कहते हैं



पुरुष का बीज अर्थात् बीज कोष स्त्री के अणुगणु अर्थात् बीज कोष में प्रविष्ट हो रहा है ।

(४)



पुरुष के बीज-कोष से पूँछ अलग हो गई है ।

(५)



पुरुष बीज-कोष की ना द्रवित होने लगी है व से-शोसोम विभाजित हो लगा है

(६)



पुरुष और स्त्री बीज कोष की नाभि एक-दूसरे के



पुरुष और स्त्री ताम्र



क्रोमोसोम दिखाई देने

(७)




प्रोबोसोम का विभाजन

(८)



आणविक की अक्षरणा

(९)



एक कोष में दो कोशों की उत्पत्ति

इस स्थान पर स्त्री के अण्डाणु रहन है

जरायु या यिनी जिसे 'अण्ड' नाम होता है और यहाँ माँ के पेट में पर पुरिसा पाया है

इस स्थान पर स्त्री

स्त्री जब प्रायुमगी अण्डाणु टांखला होती है तब उसका अण्डाणु जरायु की ओर चलता है

योनि द्वार से पुरुष बीज-कोष जरायु के भीतर से स्त्री अण्डाणु की ओर जाता है

कहते हैं। और कोष के विभाजित होते समय जब ये स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं, तब इन्हें क्रॉमोसोम कहते हैं। इन क्रॉमोसोमों में और भी सूक्ष्म पदार्थ हैं, जिन्हें अँगरेजी में जेनि (Gene) कहते हैं। बहुसंख्यक जेनियों के माला सदृश एक सूत्र में गुँथे रहने से मानों एक एक क्रॉमोसोम बना है। ये सब बातें पहले ही बता दी गई हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अब हमें आगे बढ़ना होगा। प्रत्येक जाति के जीव-कोषों में, एक ही प्रकार के एन एक ही संख्या में, वंश-सूत्र (Chromosome) जोड़े जोड़े में रहते हैं। मनुष्य-मात्र के जीव-कोषों में प्रति अणुस्था में, चौबीस जोड़े अर्थात् ४८ वंश सूत्र रहते हैं। एक प्रकार की मक्खी में केवल चार जोड़े ही रहते हैं, और किसी किसी जीव में ८०० जोड़े अर्थात् १६०० क्रॉमोसोम पाये गये हैं। एक जोड़े क्रॉमोसोम का एक एक भाग उसके दूसरे भाग के बिलकुल अनुरूप होता है। इस अनुरूपता को अँगरेजी में होमोलोगस (Homologous) कहते हैं। जब कोष का विभाजन होता है, तब एक एक क्रॉमोसोम लम्बाई में दो-दो टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। इन टुकड़ों को अँगरेजी में क्रोमैटिड्स (Chromatids) कहते हैं। साधारण जीव कोष का इसी भाँति संगठन होता है। किन्तु बीज-कोष का संगठन कुछ और प्रकार का होता है। बीज-कोष में क्रॉमोसोम जोड़े जोड़े में नहीं रहते हैं। जैसे मनुष्य की देह के कोष में चौबीस जोड़े अर्थात् ४८ क्रॉमोसोम हैं, किन्तु मनुष्य के बीज-कोष में ये २४ क्रॉमोसोम, जोड़े-जोड़े में न रहकर, हर एक जोड़े का एक एक क्रॉमोसोम, अलग अलग रूप में रहता है। इस कारण जब स्त्री और पुरुष के बीज-कोष सम्मिलित होते हैं, तब स्त्री बीज-कोष से २४, एवं पुरुष बीज कोष से २४ क्रॉमोसोम, सम्मिलित होते हैं, और तब अणु कोष में, २४ जोड़े अर्थात् ४८ क्रॉमोसोम बन जाते हैं। देह के साधारण कोष में जितने क्रॉमोसोम

रहते हैं, उन्हें अँगरेजी में डिप्लॉयड ( Diploid ) कहते हैं। और बीज कोष के ( Gametes ) क्रॉमोसोम को हैप्लायड ( Haploid ) कहते हैं। अर्थात् जन देह के साधारण कोष में क्रॉमोसोम ( वश-सूत्र ) जोड़े-जोड़े में रहते हैं, तब वे डिप्लॉयड कहलाते हैं, और जन वे बीज कोष में ( Germcells अथवा Gametes ) जोड़े में न रहकर केवल एक-एक के रूप में रहते हैं, तब हैप्लायड कहलाते हैं। इस प्रकार मातृ और पितृकोष से हैप्लॉयड क्रॉमोसोम मिलकर डिप्लॉयड क्रॉमोसोम बन जाते हैं। इस प्रकार भ्रूण-कोष अर्थात् जर्माण्ड में स्त्री और पुरुष के समान-समान वश-सूत्र और उनके साथ साथ उनके गुण भी चले आते हैं। अर्थात् वश-सूत्र में, क्रॉमोसोम में जो जेनि रहते हैं, उन्हीं के आधार पर माता पिता के गुण अलग-अलग सन्तान में चल आते हैं। इन गुणों को फैक्टर्स ( Factors ) कहते हैं। अर्थात् 'जेनि' और 'फैक्टर्स' समान पदार्थ हैं।

'जेनि' या "वश लक्षण-बीज"—प्रत्येक 'वश-सूत्र' में बहुत से दाने होते हैं, यही दाने पूर्वजों के गुण-अवगुणों को दशादि ले आते हैं। ऐसा अनुमान किया जाता है कि प्रत्येक दाने एक-एक गुण अवगुण का वाहक है। इन्हीं दानों को क्रॉमोसोम में जेनि ( Gene ) कहते हैं, हिन्दी में हम इन्हें लक्षण-बीज कह सकते हैं। इन्हीं 'जेनि' में ही वंशागत लक्षण प्रकट होते हैं; एक एक जेनि एक-एक लक्षण अथवा 'फैक्टर्स' कहलाते हैं। पुं एव स्त्री, दोनों के बीज कोषों में ही, जेनि स्थित होते हैं। दोनों बीज कोषों के प्रत्येक 'वश-सूत्र' में उक्त जेनि के सस्थान भी एक से ही होते हैं। 'वश-सूत्र' में जो जेनि जिस स्थान पर हैं, वही जेनि ठीक उसी स्थान पर हैं। लक्षण के लिए अलग-अलग जेनि हैं।

गिता से सन्तान में आ जाता है। वंशानुक्रम विज्ञान में यह एक अनोखी बात है। जीव की देह समय रूप से एक परिपूर्ण वस्तु है। समें एक अणु का प्रभाव दूसरे अणु पर पड़ता है। इस कारण यह समझना कि केवल क्रॉमोसोम अर्थात् वंश-सूत्र अथवा जेनि ही वंश लक्षणों का एकमात्र वाहक है सर्वाश में एवं संपावस्था में सत्य नहीं है।\*

किसी भी एक श्रेणी के प्राणियों की देह में एक ही प्रकार के कोष होते हैं, और उन कोषों में क्रॉमोसोम अर्थात् वंश-सूत्र की संख्याएँ भी एक ही होती हैं। क्रॉमोसोम तो दृष्टिगोचर होते हैं, किन्तु उनमें जो जेनि रहते हैं, वे अभी तक दृष्टिगोचर नहीं हो पाये हैं। वंशानुक्रम-विज्ञान के एक घुरापर परिचित अमेरिका निवासी श्रीयुत टी० एच० मॉर्गन महोदय ने इस विषय में अद्भुत श्रोज की है। उनकी श्रोज से यह ज्ञात हुआ है कि क्रॉमोसोम में जेनि रहते हैं। ये जेनि वंश लक्षण के वाहक प्रमाणित हुए हैं। जौन सा जेनि क्रिस गुण का वाहक है, इमका पूरा पता तो नहीं चला है, लेकिन बहुत कुछ पता चल गया है। वैज्ञानिकों ने आज तक किसी भी जेनि को नतो श्रतन्त्र रूप में देख पाया है और

\* देखिय - Scientific Monthly - February 1936 Pages 99 to 110

'Leukemic cells arose from leukemic cells and only from leukemic cells the leukemic cells are direct lineal descendants from the spontaneous case in which they originated The change that rendered certain cells leukemic is inherited by their descendants indefinitely If genes were the only means of genetic transmission, we would think that this inherited change involved genes but reciprocal crosses have shown that some non chromosomal mechanism is also indicated "

न उसके रासायनिक स्वरूप को ही समझ पाया है। उनमें यह दृढ़ धारणा हो गई है कि दही के जामा की तरह जेनि की भी क्रिया होती है। वह स्वयं परिवर्तित न होकर जीव-देह में अद्भुत परिवर्तन ला सकता है। यद्युत से आधुनिक वैज्ञानिकों के मतानुसार जेनि ही जीवन का सूक्ष्मतम विन्दु अथवा अणु है।

विज्ञान के क्षेत्र में हमें दो प्रकार की घातें मिलती हैं, एक तो वास्तविक घटनाएँ, जिन्हें हम तथ्य कह सकते हैं, दूसरी वास्तविक घटनाओं के आधार पर वैज्ञानिकगणों द्वारा निर्मित सिद्धान्त। विभिन्न घटनाओं को एक सूत्र में प्रथित करना सिद्धान्त का कार्य है। जब पुन नयीन घटनाओं, तथ्यों के आविष्कार से एक नयीन जटिलता की सृष्टि होती है, तब सिद्धान्तों में भी परिवर्तन की आवश्यकता हो जाती है। वंशानुक्रम-विज्ञान में 'जेनि' का स्थान वास्तविक घटना अथवा तथ्य को अपेक्षा सिद्धान्त के पर्याययुक्त होना अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। क्रॉमोसोम के धारे में यह बात नहीं कही जा सकती।

'जेनि' के सम्बन्ध में कितनी ही जटिलताएँ दृष्टिगोचर होती हैं, इसका कुछ परिचय यहाँ दिया जाता है। परीक्षाओं के परिणाम में यह देखा गया है कि एक ही जेनि के प्रभाव से कई एक विशेष गुणों की उत्पत्ति होती है और कई एक जेनि के सामूहिक प्रभाव से केवल एक ही गुण को विकसित होते हुए देखा गया है। इस प्रकार केवल एक-एक जेनि अथवा फैक्टर से एक एक गुण का स्फुरण नहीं होता है। किसी एक व्यक्ति में जितने फैक्टर्स, जेनि अथवा वंश-लक्षण-योज हैं, वे एक दूसरे पर प्रभाव डालते रहते हैं। इस कार्य को अंगरेजी में जेनि कॉम्प्लेक्स (Gene-Complex) कहते हैं। जेनि कॉम्प्लेक्स की क्रिया पारिपार्श्विक वातावरण पर बहुत कुछ निर्भर करती है।



१९२९ के मार्च महीने में मास्को में जो वैज्ञानिकों का सम्मेलन हुआ था, उसमें ऐसे झगड़े लगे हुए थे, जिनमें यह लिखा था—“डार्विन के झगड़े के नीचे” (“Under the banner of Darwin”)। सोवियट रूस के वैज्ञानिकगण इस प्रकार मेन्डेल की हँसी उड़ाते हैं,—एक बाप और तीन माँ की तरह अथवा एक माँ और तीन बाप की तरह। राजनीतिक उत्तेजना की तरह वैज्ञानिक विषयों में भी सोवियट रूस में वैज्ञानिकों में भी मेन्डेल और मॉर्गन के विरुद्ध विषम उत्तेजना फैली हुई है। वहाँ के बहुत से नवोन वैज्ञानिक विश्वविद्यालयों से मेन्डेल, मॉर्गन आदि का बहिष्कार करना चाहते हैं।\*

लिंगेज तथा कपलिंग की प्रक्रियाएँ—क्रॉमोसोम अर्थात् वंश-सूत्र तथा जेनि अर्थात् वंश लक्षण बीज आदि के सम्बन्ध में मेन्डेल के नियमों का ध्यान में रखन से वंशानुक्रम के ज्ञान के सम्बन्ध की बहुत सी बातों को समझना सरल हो जाता है। गरीबी, माता और काले पिता से सन्तानों के रक्त कैसे होंगे, ससुरार में दो मनुष्य क्यों हू-ब-बू एक प्रकार के नहा होत हैं, रोग कैसे वंशजों में उत्पन्न हो सकते हैं, लिंग भेद की उत्पत्ति कैसे होती है, इत्यादि विषयों का समझना अत्यन्त सरल हो जायगा।

वंशानुक्रम में परिवर्तन के तीन कारण हो सकते हैं—(१) एक ही प्रकार के वंश-लक्षण-बीज के रहत हुए भी दो व्यक्तियों में पारि-पारिविक वातावरण के कारण बहुत से परिवर्तन दिखाई दे सकते हैं। (२) मैथुन के कारण माता पिता से विभिन्न लक्षणयुक्त बीजों के उत्तराधिकारी होने के कारण वंशजों में नाना प्रकार के परिवर्तन दिखाई देते हैं। वंशसूत्र (Chromosome) अथवा वंश लक्षण बीज (Gene) के विभिन्न प्रकार से सम्मिश्रित होने के

कारण ये विभिन्नताएँ उत्पन्न होती हैं। (३) कभी कभी वंश लक्षण-बीज (Gene) में ही कुछ अज्ञात कारणों से परिवर्तन आ जाते हैं। तब बीज कोष में परिवर्तन हो जाने के कारण जीव-कोष में परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार एक नयी जाति की उत्पत्ति हो जाती है। इन परिवर्तनों के अंगरेजी नाम क्रम से ये हैं—(१) मॉडिफिकेशन ( Modifications or paravariations ), (२) कॉम्बिनेशन ( Combinations or mixovariations ), (३) म्यूटेशन ( Mutations or idiovariations )।

मनुष्यों पर वंशानुक्रम की परीक्षाएँ सम्भव नहीं हैं, इस कारण पीधो तथा निम्न श्रेणी के कीट पतंगों पर ही परीक्षाएँ हुई हैं। मनुष्यों की एक पीढ़ी के गुजरने में औसतन् ३० साल लगते हैं। वंशानुक्रम को समझने के लिए बीस-तीस, चालीस चालीस पीढ़ियों तक की परीक्षाओं की आवश्यकता होती है, इस कारण तथा मनुष्यों में अपने इच्छानुसार पुरुष और स्त्रियों में संयोग कराना सम्भव नहीं है, इस कारण भी वंशानुक्रम व सन्बन्ध में मनुष्यों पर परीक्षा सम्भव नहीं है। ऐसी स्थिति में एक प्रकार के फलो पर की मक्खिया को लेकर अमेरिका के प्रसिद्ध वैज्ञानिक टी० एच० मॉर्गन महोदय ने लाखों परीक्षाएँ की हैं। इन मक्खियों का वैज्ञानिक नाम ड्रोसोफिला (Drosophila) है। इन्हें पालना बहुत सरल काम है। थोड़े समय में इनके बहुत से बच्चे पैदा होते हैं। इनकी एक-एक पादा पन्द्रह दिन में समाप्त हो जाती है। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर (Drosophila Melanogaster) नामक मक्खियों की एक लाख पीढ़ियों का इतिहास मॉर्गन महोदय ने सप्रह किया है। इनके वंशजों में चार सौ प्रकार के मौलिक परिवर्तन अर्थात् म्यूटेशन (Mutations) पाये गये हैं। इन मक्खियों में चार श्रेणियों के कैस्टर्स अथवा

जेनि हैं और इनके कोषा में चार जोड़े क्रॉमोसोम अथवा वश-सूत्र रहते हैं। ड्रोसोफीला मिरलिस नामक उसी मन्थी की एक और जाति में छ जोड़े क्रॉमोसोम पाये गये हैं और उसी की एक तीसरी जाति 'ड्रोसोफीला अन्स्च्युरा' में पाँच जोड़े क्रॉमोसोम पाये गये हैं। इनमें जितने जोड़े क्रॉमोसोम हैं, उतने ही वश-लक्षण-योज के समूह भी अर्थात् जेनि के समूह भी अवश्य होंगे। अर्थात् जातियों की विभिन्नता क्रॉमोसोम के जोड़ों की संख्याओं के भेद पर निर्भर है। बार बार की सहस्रा प्रकार की परीक्षाओं के परिणाम में यह ज्ञान पड़ा है कि प्राणियों में तथा मनुष्यों में भी जितनी विभिन्नताएँ दिखाई देती हैं, उनके मूल में सबसे बड़ा कारण शत-शत प्रकार के वश-लक्षण-योज अर्थात् हरे डिटरा फैक्टर्स अथवा जेनियों के विभिन्न प्रकार के सम्मिश्रण हैं। इस सम्मिश्रण-जनित भेद के साथ मौलिक भेद अर्थात् म्यूटेशन का बहुत बड़ा अन्तर्ग है।

इसके पूर्व हमने यह समझाया है कि कैसे एक कोष द्विगणित हो जाता है और उससे दो कोष बन जाते हैं। दो कोषों के बनते समय उनके वश-सूत्र भी कैसे विभाजित होते हैं, इसे भी हमने समझा दिया है। इसके सम्बन्ध में यहाँ पर कुछ और नवीन बातें बताई जा रही हैं। किसी भी जीव में जितने चारित्रिक लक्षण दिखाई देते हैं, उनके साथ उन जीवों के क्रॉमोसोमों का, अर्थात् वश-सूत्रों का एक अविच्छेद्य सम्बन्ध है। जैसे, जिस जाति के जीव में पाँच जोड़े क्रॉमोसोम रहते हैं, उस जाति के जीव में चार श्रेणी के चारित्रिक लक्षण पाये जायेंगे। किन्तु मेन्डेल के सिद्धान्तानुसार जीव में जितने फैक्टर्स का होना अर्थात् चारित्रिक लक्षणों का होना सम्भव है, उसमें उतने जोड़े क्रॉमोसोमस् नहीं पाये जाते। इस प्रकार और भी बहुत-सी बातों के कारण वैज्ञानिकों ने इस बात का अनुमान किया है कि क्रॉमोसोम के भी क्षुद्रातिशुद्ध

अशा हैं जो कि माला के दानों की तरह एकत्र गुथे हुए रहते हैं। इन्हें लुद्रातिमुद्र अशा को जेनि (Gene) कहा गया है। एक कोष के दो कोषों में विभाजित होते समय क्रॉमोसोम अपने लुद्रातिमुद्र अशाओं में टुकड़े टुकड़े होकर गिरर नहीं जाते, वरन् क्रॉमोसोम अर्थात् वशा सूत्र के जेनि अर्थात् वशा-लक्षण-बीज सामूहिक रूप में सम्मिश्रित होते हैं। इस सामूहिक रूप से सम्मिश्रित होने को अँगरेजी में कपलिग (Coupling) अथवा लिंकेज (Linkage) कहते हैं। जिन क्रियाओं से ऐसा होता है उन्हें अँगरेजी में सिंगल क्रॉसिंग ओवर (Single Crossing Over), टुबल क्रॉसिंग ओवर (Double Crossing Over) आदि कहते हैं। क्रॉमोसोम के विभाजित होते समय जेनियों के सामूहिक रूप में सम्मिश्रित होने के कारण, माता पिता और उनकी सन्तानों में कुछ समता और कुछ विपमता दोनों बातें आ जाती हैं। इस क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया के कारण कुछ वशा-लक्षण एकत्रित रूप से प्रकटित होते हैं। जैसे गोरे रङ के साथ लवचा का भी सूक्ष्म होना प्रायः देखा गया है। ड्रासोफीला में मार्गन महोदय की परीक्षाओं के परिणाम में कई सौ आतिरिक्त लक्षण (Mendelising Hereditary Factors) पाये गये हैं, जिनमें चार प्रकार के कपलिङ के दृष्टान्त पाये जाते हैं। ड्रासोफीला के बीज कोष में केवल चार क्रॉमोसोम हैं। जिस समय भ्रूण कोष से जीव कोष और बीज-कोषों की उत्पत्ति होती है, उसी समय लिंकेज और कपलिङ आदि की प्रक्रियाएँ भी होती जाती हैं। इस लिंकेज के कारण ही कभी-कभी ऐसा भी होता देखा गया है कि कोई-कोई रोग तो केवल पुरुष में ही दिखाई देते हैं और कोई-कोई केवल स्त्री में। इसके अतिरिक्त ऐसा भी होता है कि माता पिता के कुछ रोग टाडनी द्वारा ही वशाजों में उत्पन्न नहीं। इसका भी उल्लेख पहले ही कर

दिया गया है। ऐसा होने का कारण लिवेज की प्रक्रिया में ही निहित है। हिमोफीलिया एक ऐसा रोग है, जिसमें एक बार देह के किसी अंग का कट जाने पर रक्त का प्रवाह किसी प्रकार भी बन्द नहीं होता। ऐसे रोगी अरिक्त दिन जीवित नहीं रहते। जिस जेनि में यह रोग उत्पन्न होता है, उमरे केवल एक के प्रभाव से पुत्र में ही यह रोग उत्पन्न होता है, स्त्री में नहीं। किन्तु इस प्रकार के दो जेनि के सम्मिश्रण में स्त्री में भी यह रोग उत्पन्न होता है। हिमोफीलिया रोग-प्रस्त व्यक्तियों का 'ब्लीडर्स' भी कहते हैं। 'ब्लीडर्स' अपनी माताओं में ही इस रोग को प्राप्त होते हैं, किन्तु ये माताएँ स्वयं इस रोग से मुक्त रहती हैं। यह दोष कई पुरुष तब माता से कन्या पर नमसे उसकी कन्या आदि क्रम से सन्तानों में संक्रमित होता रहता है, किन्तु कन्याएँ रोगप्रस्त न होकर उनके लडके ही रोगी बनने रहते हैं। पिता से यह रोग पुत्र को प्राप्त होते कभी नहीं देखा गया है। "ब्लीडर्स" अपनी विवाह योग्य आयु को कटाचिन् ही प्राप्त होते हैं। उमरें पूर्ण ही उनकी मृत्यु हो जाती है। आज तक यह रोग केवल पुरुषों में ही होत देखा गया है। जो नाडियों इस रोग को अपनी देह में बहन करती हैं उन्हें 'कन्डक्टर्स' (Conductors) कहते हैं। यह रोग मत्र प्रदेशों में नहीं दिखाई देता। अमेरिका के संयुक्त राष्ट्र में भी जत्र कभी यह रोग दिखाई दिया, तब यहाँ देखने में आया कि जिन परिवारों में यह रोग उत्पन्न हुआ, उन परिवारों का सम्बन्ध यूरोप में ही रहा।\* कहा जाता है, महारानी निक्टोरिया की दह में इस रोग का बीज था।

## चौथा परिच्छेद

### लिङ्गभेद का रहस्य

( १ )

यौन आकर्षण—पुरुष और नारी—मनुष्य-जन्म से घटकर कोई दूसरी अधिक रहस्यपूर्ण बात इस सत्तार में नहीं है। इसके बाद ही अन्य विस्मयजनक वस्तु लिङ्गभेद का प्रश्न है। पुरुष और नारी में जो रहस्यपूर्ण प्रभेद हैं, उनसे मनुष्य दङ्ग रह जाता है। पुरुष और नारी के बीच इतना मोहक आकर्षण न जाने क्या है। पुरुष नारी को जानता है पहचानता है, किन्तु उसके तारे में मनुष्य के मन में रहस्य की सीमा नहीं है। नारी भी पुरुष का साहचर्य पाने के लिए न जाने कितनी उत्सुक रहती है। यौवन की उमड़ों में दुनिया की माया छिपी हुई है। इसका बहुत कुछ रहस्योद्घाटन आज होने लगा है। किन्तु आश्चर्य की बात तो यह है कि एक रहस्य का उद्घाटन होते ही दूसरा सामने आ जाता है। इस प्रकार ज्ञान के सम्प्रसारण के साथ-साथ हमें, गम्भीर से गम्भीरतर रहस्यों का सामना करना पड़ता है। मनुष्य का जन्म तो एक विस्मय-कर वस्तु है ही, किन्तु यदि हम इस बात पर ध्यान दें कि सत्तार में पुरुषों और नारियों की सत्तया कैसे प्रायः समान है, तो आश्चर्य की सीमा नहीं रहती। यदि पुरुषों से नारियों की सत्तया कहीं अधिक हो जाय तो मनुष्य-समाज में न जाने कितनी खलखली मच जायगी। मनुष्य अभी तक अपने इच्छानुसार लड़का अथवा लड़की को जन्म नहीं दे सकता है। किन्तु किस कारण लड़का होता है और किस कारण लड़की, इस रहस्य का कुछ पता चलने लगा है और इसकी भी आशा होने लगी है कि भविष्य में हम लड़का अथवा लड़की के जन्म पर नियन्त्रण कर सकेंगे।

किन्तु ससार में लड़के एवं लड़कियाँ प्रायः समान संख्या में न्यो जन्म लेती हैं, यह बात आज भी रहस्यावृत ही रह गई है।

प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक प्लेटो ने, ईसा के जन्म से तीन सौ वर्ष पूर्व, यह कहा था कि स्त्री और पुरुष आरम्भ में एक ही व्यक्तित्व में समाये हुए थे, किन्तु देवता की क्रोधान्त्रि ने उन्हें अलग अलग कर दिया था और तब से वे दोनों एक दूसरे के साथ पुनः सम्मिलित होने के लिए चिरलालायित हैं। प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक अध्यापक ब्र्यू ने कहा है कि यौन आकर्षण की इससे अधिक सुन्दर व्याख्या सम्भव नहीं। हमारे देश के अति प्राचीन शास्त्र मनुस्मृति में भी कहा गया है कि विधाता ने अपनी देह को द्विधा विभक्त करके आधे अंश से पुरुष का एवं दूसरे आधे अंश से स्त्री का सृजन किया है। ( मनु० १।३२ )

प्राणि जगत् में ऐसे बहुत से दृष्टान्त प्राप्त हैं जहाँ स्त्री और पुरुष अलग अलग न रहकर एक ही व्यक्तित्व में समाये हुए रहते हैं। पौधों में भी इनके बहुत से दृष्टान्त मिलते हैं। घोंघे ( earth worm ) आदि कीटों में स्त्री और पुरुष अलग अलग नहीं होते। प्रत्येक घोंघा पुरुष और स्त्री दोनों के ही लक्षण से युक्त होता है। युवावस्था को प्राप्त होते ही वे अपने अपने साथी को ढूँढते हैं एवं दोनों ही एक दूसरे के गर्भ में सन्तानों को जन्म देते हैं। भोग के समय दोनों ही पुरुष और स्त्री के रूप में व्यवहार करते हैं। और भी निम्न श्रेणी के जीवों में मैथुन के न होत हुए भी जीव की उत्पत्ति होती है, जैसे क्षुद्रतम प्राणी "अमीबा" अथवा रोग उत्पादक जीवाणु जिन्हें "बैक्टीरिया" कहते हैं। ये एक कोप निशिष्ट जीव होते हैं। इनकी वशावृद्धि एक कोप के द्विगणित हो जाने पर ही होती है। इन जीवों को न पुरुष ही कह सकते हैं और न स्त्री ही। इसी प्रकार एक कोप निशिष्ट एक और प्रकार का जीव है जिसमें

निम्नलिखित का अर्थ बताइए -  
 क समय एक दुर्लभ अवसर है।  
 बीच लक्षित पदार्थों का एक विशेष गुण है।  
 क गुणों से इन पदार्थों को अलग करने में  
 फिर वे एक ही रूप में आ जाते हैं।  
 मद्यतियाँ होती हैं।  
 fish) कहते हैं।  
 एक नवीन शक्ति का आविर्भाव होता है।  
 बाहु तब जोड़ दी जाती है।  
 जाता है और गुणों में परिवर्तन आता है।  
 मेह में प्रविष्ट हो जाता है।  
 होती है जो नवीन शक्ति का आविर्भाव करता है।  
 वायु को जोड़ कर एक नया पदार्थ तैयार  
 बन जा सकता है।  
 और पुरुष दोनों के गुणों का मिलन  
 जीव के सम्मर्प में आता है।  
 पुरुष के गुणों से नया जीव तैयार  
 दे सकते हैं।  
 आकर भी, अणु से नया जीव तैयार  
 चिड़ियाँ भी हैं।  
 हैं और उन आणविक से नया जीव तैयार  
 अंगरेप में आणविक से नया जीव तैयार  
 हैं।  
 तिरा पुरुष और स्त्री के गुणों का मिलन  
 आवश्यकता नहीं है।  
 है, मगि भी नया जीव तैयार  
 जहाँ या जहाँ के जीव तैयार

वि  
 उ  
 व  
 ति  
 भी  
 मे  
 नन्द  
 र्थान्  
 योग  
 क्या  
 साथ  
 क से  
 ही  
 है।  
 प्रचिन्ना  
 न जीवों से  
 यह तो एक  
 ही तो सृष्टि है।  
 न्त्रण करके अपने  
 जीव उत्पन्न कर  
 अपने-इच्छा



मिलने से एक नवीन जीव की उत्पत्ति होती है। एडिनबर्ग विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध अध्यापक म्यू महोदय ने उपर दिये गये दृष्टान्तों के आधार पर यह कहा है कि वंशवृद्धि के लिए यौन आकर्षण का होना अत्यावश्यक नहीं है। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि यौन आकर्षण के द्वारा प्रकृति जीवों की वंशवृद्धि कराती है। म्यू साहब इसका विरोध करते हैं। प्रसिद्ध प्राणि तत्त्व विद् एल्वरडिस (Alverdes) महोदय ने भी बहुत से दृष्टान्तों का उद्धरण करके यह दिखलाया है कि परत मन्तानोंपादन के लिए ही प्राणियों में पुरुषों और स्त्रियों का आकर्षण नहीं हुआ करता।\* 'म्यू' साहब का कहना है कि यौन आकर्षण क्या वस्तु है, इसका उत्तर विज्ञान आन नहीं दे सकता। ('We do not know what sex is'—F. A. L. Crew in an article on 'sex' in the 'outline of Modern Knowledge') जद्यदि न मधुन के भी सन्तान की उत्पत्ति हो सकती है तो यौन आकर्षण की क्या आवश्यकता है? केवल आनन्द के लिए ?

नर के ससर्ग में न आकर भी मोढक के यन्त्रे उत्पन्न हुए हैं। किन्तु मनुष्य के सम्बन्ध में ऐसा एक भी दृष्टान्त प्राप्त नहीं हुआ है। यद्यपि मुश्रत नामक वैश्वक ग्रन्थ में यह उल्लेख है कि पुरुष के सस्पर्श में न आकर भी मातृगर्भ से मनुष्य का जन्म सम्भव है। चूहों के गर्भ की परीक्षा करने पर यह ज्ञात हुआ है कि मधुन न होने पर भी गर्भस्थ अण्डों से भ्रूण की उत्पत्ति हुई है, किन्तु यह भ्रूण अधिक दिन तक जीवित नहीं रह पाया। इससे इतना तो अनुमान अवश्य किया जा सकता है कि नर-वीर्य के संस्पर्श में न आकर भी चूहे की उत्पत्ति हो सकती है।

\* देखिए—Social Life in the animal world।

जिन एक कोष प्रशिष्ट जीवों में केवल द्विरण्डित होकर नवीन जीवों की उत्पत्ति होती है, उनमें भी यह देखा गया है कि कुछ दिनों के पश्चात् एक कोष से दो कोषों का होना धीरे धीरे कम होता जाता है। तब फिर दो जीव सम्मिलित होते हैं और इस प्रकार उनमें द्विरण्डित होने की शक्ति पूर्ववत् फिर आ जाती है। इस दृष्टान्त को यथार्थ मान लेने से यह स्वीकार करना पड़ता है कि जीवों की उत्पत्ति के लिए मैथुन का भी प्रयोजन है। किन्तु ऋषू साहज कहते हैं कि ऊपर दिये गये दृष्टान्त में कुछ भ्रम है। उपयुक्त आहार के न पाने से ही उक्त जीवों में द्विरण्डित होने की शक्ति कम हो जाती थी।

इसके विपरीत मैथुन के परिणाम में जीवों की उत्पत्ति नहीं भी हो सकती। मनुष्य में भी ऐसी अवस्था आती है। जत्र स्त्रियों में रजस्वला होने की शक्ति लुप्त हो जाती है तब मैथुन में आनन्द प्राप्त होने पर भी सन्तान की उत्पत्ति नहीं होती। अर्थात् ऋषू साहज के मतानुसार सन्तानोत्पादन के साथ यौन-सयोग अथवा यौन आकर्षण का कोई सम्बन्ध नहीं है। किन्तु क्या यह नहीं कहा जा सकता कि जीवों की क्रमोन्नति के साथ साथ उनमें पुरुष और स्त्री के भेदों की भी उत्पत्ति होती है? एक से बहु होना ही तो विकास का नियम है। इस कारण मैथुन से ही जीवों की उत्पत्ति होना उच्चतर विकास का ही लक्षण हो सकता है। एक 'अमीबा' से दूसरे 'अमीबा' के उत्पन्न होने पर कोई विचित्रता नहीं दिखाई देती, किन्तु दो जीवों के मैथुन से उत्पन्न जीवों में नाना प्रकार की विचित्रताएँ दिखाई देती हैं। यह तो एक प्रमाणित वैज्ञानिक तथ्य है। एक से बहुत का होना ही तो सृष्टि है।

मधु मस्त्रियाँ अपने बच्चों के आहार का नियन्त्रण करके अपने इच्छानुसार स्त्री अथवा पुरुष अथवा नपुंसक जीव उत्पन्न कर सकती हैं, परन्तु इस बीसवीं शताब्दी में भी मनुष्य अपने इच्छा

मे एक्स क्रॉमोसोम के साथ पु वीज-कोप के  $x$  क्रॉमोसोम मिलकर भ्रूण के कोप में दो एक्स क्रॉमोसोम बनते हैं। दो एक्स क्रॉमोसोम से स्त्री की वृह बनती है और यदि पु-वीर्य से वाई क्रॉमोसोम बहन करनेवाला कोप स्त्री के अण्डाणु में अर्थात् वीजकोप में प्रविष्ट होता है तो भ्रूण बालक-राक्षण-प्रशिष्ट होता है। कारण इस भ्रूण में एक  $x$  क्रॉमोसोम के साथ दूसरा  $y$  क्रॉमोसोम मिलता है, अर्थात् भ्रूण में  $xy$  (एक्स वाई) क्रॉमोसोम बनते हैं।  $xy$  क्रॉमोसोम विशिष्ट जीव पुं-लक्षण प्रशिष्ट होता है। अर्थात् पु-वीज कोप के साथ स्त्री वीज-कोप के सम्मिलित होते समय ही यह निश्चित हो जाता है कि भ्रूण लड़का होगा अथवा लड़की। पाठक यह भी ध्यान में रखेंगे कि पु-वीज कोप ही यह निर्णय करता है कि भ्रूण लड़का होगा अथवा लड़की। एक बार भ्रूण बन जाने के पश्चात् फिर उसका लिङ्ग-परिवर्तन करना असम्भव सी बात है। अवश्य इसमें भी बहुत कुछ रहस्य छिपा हुआ है। यथास्थान इसका उद्हरण किया जायगा।

यहाँ एक बात पर और विचार करना रह गया है। यह निर्णय कैसे होगा कि स्त्री के अण्डाणु में  $x$  क्रॉमोसोमवाला पु वीज-कोप प्रवेश करेगा अथवा  $y$  क्रॉमोसोमवाला ? भ्रूण का लड़का अथवा लड़की होना तो इसी बात पर निर्भर करता है।

इस विषय पर आधुनिक विज्ञान निश्चयात्मक रूप से कुछ नहीं कह पाया है। "हफैर" नामक एक वैज्ञानिक ने सन् १९२० ई० में एक "मैडलर" नामक एक दूसरे वैज्ञानिक ने सन् १९३० ई० में स्वतंत्र रूप से प्रमाणित करने की चेष्टा की है कि यदि माता से पिता की आयु अधिक होती है तो सन्तान अधिकतर बालक होते हैं और यदि माता की आयु पिता से

अधिक होती है तो अधिकारा समय वन्याएँ ही उत्पन्न होती हैं। इस सिद्धान्त की पुष्टि भी होती है और इसके विरोध में भी बहुत से दृष्टान्त प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार कुट्ट और भी घातें कही गई हैं, जिनका वैज्ञानिक समाधान अभी तक नहीं हो पाया है।

ऐसा अनुमान किया जाता है कि बाहरी कारणों से लिङ्ग का निर्णय नहीं होता है। उस बात का एक प्रमाण यहाँ दिया जाता है। मनुष्यों में कभी-कभी यमज (एक साथ जन्म लेनेवाले दो बच्चों के जोड़े को यमज सन्तान कहते हैं) सन्तान उत्पन्न होती हैं। यमज सन्तान दो प्रकार की होती हैं—एक तो जन स्त्री के एक अण्डाणु से ही यमज उत्पन्न होते हैं, दूसरा जन दो अण्डाणुओं में दो पु-बीज-कोष प्रवेश करते हैं, तब अन्य प्रकार की यमज सन्तानें उत्पन्न होती हैं। पहले प्रकार की यमज सन्तानें आकृति एवं प्रकृति में एक दूसरी से अद्भुत प्रकार से मिलती हैं, किन्तु दूसरे प्रकार की यमज सन्तानों में वैसा ही मेल रहता है जैसा कि भाई भाई में और भाई बहनों में रहता है। पहले प्रकार की यमज सन्तान को ऑर्गेज्जो में आइडेंटिकल ट्वींस (Identical twins) कहते हैं और दूसरे प्रकार के यमज को फ्रैटरनल ट्वीन्स (Fraternal twins) कहते हैं। Identical twins के लिङ्ग एक ही प्रकार के होते हैं, किन्तु Fraternal twins के लिङ्ग एक प्रकार के हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। यदि बाहरी कारण से लिङ्ग का निर्णय होता हो तो आइडेंटिकल यमज सन्तानों के लिङ्ग सदा एक प्रकार के कैसे हो सकते हैं? यह भी तो समझने की बात है कि जब दो स्त्री अण्डाणु से यमज सन्तान उत्पन्न होती हैं, तब उनके लिङ्ग कभी तो एक ही प्रकार के होते हैं और कभी नहीं भी होते। इस प्रमाण से यह सिद्ध

चेष्टा हो रही है कि पुरुष के बीज कोषों को अलग से जीवित रखा जाय और उनमें से y और x क्रोमोसोमवाले बीज कोषों को भी अलग कर लिया जाय। ये बीज मीप फिर समय और सुविधा के अनुसार स्त्री के गर्भाशय में डाले जा सकते हैं। इस प्रकार अपने इच्छानुसार लड़का अथवा लड़की को हम जन्म दे सकते हैं। ये सब काल्पनिक बातें नही हैं। आजकल विदेशों में इन सब बातों की परीक्षाएँ हो रही हैं।

इसके प्रतिरिक्त एक और भी विस्मयकर बात की परीक्षा हो रही है। चूहों पर इसकी परीक्षा हुई है। मादा चूहों के गर्भ से गर्भाशय अर्थात् जरायु को निकालकर अलग जीवित रखा जाता है, और नर चूहों से वीर्य को लेकर भी अलग जीवित रखा जाता है। गर्भ रहने के बाद भी मादा चूहे के पेट से बच्चा समेत गर्भाशय को बाहर निकालकर अलग जीवित रखने की चेष्टा हो रही है। सन् १९०१ ई० में वैज्ञानिक 'हीप' (Heape) महोदय एक मादा खरगोश के पेट से बच्चा समेत गर्भाशय को दूसरी मादा खरगोश के पेट में डालने में समर्थ हुए थे। सन् १९२५ ई० में प्रसिद्ध वैज्ञानिक 'हॉलडेन' (Haldane) महोदय ने चूहिया के पेट से बच्चा समेत गर्भाशय बाहर निकालकर दस दिन तक जीवित रखा था। गर्भाशय में घच्चे के लिए उपयुक्त आहार पहुँचाना एक भारी समस्या है। इस समस्या के हल हो जाने पर माँ के पेट से बाहर रहते हुए ही जैसे गर्भाशय से जीवित चूहे का निकलना सम्भव है, इसी प्रकार मनुष्यों में भी माँ के पेट से गर्भाशय को अलग निकालकर, स्वतन्त्र रूप से, अपने इच्छानुसार बच्चा पैदा करने की आशा वैज्ञानिकगण आन करने लगे हैं। जैसे आज हम मुर्गी के अण्डे को यन्त्र में रखकर बच्चे पैदा कर लेते हैं, उसी प्रकार भविष्य में वैज्ञानिकगण पुरुष के वीर्य की अलग सग्रह करके स्त्री के

पेट से जरायु को अलग निकालकर, मुर्गी के अण्डों की तरह मनुष्यों के घर्षों को भी, यन्त्र की सहायता से उपन्न किया करेंगे। इस प्रक्रिया को वैज्ञानिक परिभाषा में (Ectogenesis) एक्टोजेनेसिस कहते हैं।

आजरल यूनाइटेड स्टेट्स आक अमेरिका में ऐसे गुप्त स्थान हैं, जहाँ पुरुष का वीर्य-सम्रह किया जाता है एवं प्रयोजनानुसार स्त्री के गर्भ में उसे डाला जा सकता है। कालेज के चुने हुए प्रेजुण्ट युवकों से वीर्य सम्रह किया जाता है। इनके नाम अथवा परिचय गुप्त रखे जाते हैं। मान लीजिए कि पुरुष के दोष से स्त्री के सन्तान न हो रही हो तो उस दशा में पूर्वोक्त गुप्त स्थान से चुने हुए सुन्दर, विद्वान्, स्वस्थ युवक के वीर्य से स्त्री को गर्भाधान किया जा सकता है। न्यूयार्क में ऐसा ही एक गुप्त स्थान है।

गृहपालित पशु आदि के धारों में अत्र उक्त बात केवल परोक्षा-गारा में ही सीमित नहीं है। आजकल पशुधर्म पर इस विज्ञान का यथेष्ट प्रयोग होने लगा है। अन्धे अन्धे चुने हुए साँड़ों से वीर्य सम्रह करके उसे रेफ्रिजरेटरों में (Refrigerators = जहाँ ताप की मात्रा इच्छानुसार क्रायम रखी जा सकती है) सँभालकर रक्खा जाता है और आवश्यकतानुसार चुनी हुई गाय को गर्भवती किया जाता है। योरोप और अमेरिका के वहुत से प्रदेशों में इस विज्ञान का प्रयोग होने लगा है। दक्षिण अमेरिका से चुने हुए साँड़ों का वीर्य हवाई जहाज द्वारा युनाइटेड स्टेट्स आक अमेरिका में लाया जाने लगा है। इस प्रकार कृत्रिम

गर्भाधान की प्रक्रिया को वैज्ञानिक भाषा में आर्टोटेलेजेनेसिस (Eutelegensis) कहते हैं।\*

( २ )

अर्द्धनारीशर—आधा पुरुष और आधा नारी—प्रायः समाचारपत्रों में खबर छपती है कि एक युवती की देह में पुरुष के लक्षण दिखाई देने लगे और बाद को चिकित्सालय में अछो पचार (चीरफाड़) के पश्चात् वह पुरुष बन गई। इसी प्रकार ऐसे भी दृष्टान्त प्राप्त हैं जहाँ लडका लडकी के रूप में परिवर्तित हो गया है। इसके अतिरिक्त बहुतों ने यह भी देखा होगा कि कभी-कभी पुरुष की देह में नारी के चिह्न विकसित होते हैं, जैसे—किसी किसी पुरुष के स्तन युवतियों की तरह उभर एव स्फीत होते हैं। इसी प्रकार कभी कभी युवतियों के भी मूँछें निकल आती हैं। पाठकों को यह सुनकर आश्चर्य होगा कि वर्तमान समय में ऐसे मनुष्य भी हैं, जिनमें पुरुष और स्त्री दोनों के लक्षण एक ही साथ उपस्थित हैं। स्त्रीत्व और पुरुषत्व के लक्षण, पुरुष और स्त्री दोनों में ही पाये जाते हैं। किसी में कोई लक्षण परिपूर्ण रूप से प्रस्फुटित होता है और किसी अन्य में दूसरे लक्षण अधिक प्रस्फुटित होते हैं। पुरुष की देह में स्तन के स्पष्ट चिह्न वर्तमान हैं, किन्तु वे स्तन का काम नहीं देते। स्त्रियों में भी पुरुष का लिङ्ग सूक्ष्म रूप से वर्तमान है, जिसका अंगरेजी नाम क्लाइटोरिस (Clitoris) है। कभी-कभी स्त्रियों में स्त्रीत्व के लक्षण तो अर्द्ध परिस्फुट होकर ही रह जाते हैं और साथ ही पुरुष के लक्षण भी उनमें सूक्ष्म

\* देखिए—Yon and Heredity—by Amram Scheinfeld

## लिङ्गभेद का रहस्य

रूप से पाये जाते हैं। इस विषय पर जॉन हफ्तिन्स के अध्यापक ह्य हैमटन यङ्ग (Hugh Hampton) महोदय ने विस्तृत विवरणयुक्त एक पुस्तक लिखी है। वहना है कि उनके पास बीस ऐसे स्पष्ट दृष्टान्त हैं, जिनमें यह निश्चयात्मक रूप से कहा जा सकता है कि उनका और नारी दोनों के चिह्न वर्तमान हैं। उनमें स्त्री के पुरुष के अण्डकोष (Both Ovaries and Testes) दोनों एकत्र पाये गये हैं।

इसके अतिरिक्त दूसरे अपेक्षाकृत अधिक ऐसे हैं, जहाँ एक ही व्यक्ति में या तो स्त्री के अण्डकोष (जो अण्डों के रूप में होते हैं) अथवा पुरुष के अण्डकोष (Testicles) पाये गये हैं, किन्तु उस व्यक्ति में और मादा दोनों के ही लक्षण एक मात्र दिखाने देते हैं, जिनमें से केवल एक लक्षण तो दूसरे पर परिस्फुट होते देखा गया है। इन कारणों से हम उसे लड़का अथवा लड़की कहते हैं। परन्तु परिणाम में ऐसा अनुमान किया जाता है कि इनमें से एक मनुष्य में उपर्युक्त समय अर्थात् जन्म के समय वशानुक्रम के कारण तो यथार्थ में पुरुष अथवा नारी केवल स्त्री अण्डकोष अथवा पुरुष अण्डकोष के कारण लक्षणों के कारण भ्रम-रहित रूप में लड़का है अथवा लड़की है। किन्तु लक्षणों के कारण ही जहाँ पर एक विशेष दिशा दिखती है, किन्तु समय-समय पर लक्षण देने लगते हैं, जिनके कारण निर्णय करना पड़ता है और चिन्तन



बन जाती है। उसकी देह में स्त्री के लक्षण अपरिस्फुट एवं अपूर्ण थे। उन चिह्नों को चिकित्सक की सहायता में ढटवा डाला गया था।

विज्ञान की परिभाषा में यह नहीं कहा जा सकता कि कोई एक व्यक्ति परिपूर्ण रूप से पुरुषत्व अथवा स्त्रीत्व के लक्षणों से युक्त होता है। किसी में तो पुरुष बनने की और किसी में स्त्री बनने का सम्भावना प्रबल रहती है। संभव है भ्रूण के विकसित होते समय, सृष्टि प्रवाह को जारी रखने के लिए, प्रकृति देवी अपने रहस्यमय उपायों से किसी को तो पुरुष बना देती है और किसी को स्त्री।

यज्ञान के एक धार्मिक सम्प्रदाय का नाम 'सहजिया' सम्प्रदाय है। इस सम्प्रदाय के मतानुसार प्रत्येक पुरुष में नारीत्व के भाव भी हैं और प्रत्येक नारी में भी पुरुषत्व के भाव हैं। पुरुष में पुरुषत्व का भाव प्रबल है, इसलिए वह पुरुष है और नारी में नारीत्व का भाव प्रबल है, इसलिए वह नारी है। वे पुरुष के आधे वाम अङ्ग को नारी-स्वभाव विशिष्ट मानते हैं और स्त्री के दक्षिण अङ्ग को पुरुष-स्वभाव विशिष्ट। यह प्रायः देखा गया है कि स्त्री का वाम स्तन दक्षिण स्तन से अधिक परिपुष्ट होता है। पुरुष का भी दक्षिण अङ्ग वाम अङ्ग से प्रायः अधिक वनिष्ट एवं कर्मठ होता है।

हिन्दुओं के पौराणिक ग्रंथों में भी सृष्टि-क्रम के सम्बन्ध में अमैथुनी सृष्टि का उल्लेख किया गया है। न्याय-कुसुमाञ्जलि में भी इस बात का उल्लेख है। हिन्दुओं के देवाधिदेव महादेव शिव को अर्द्धनारायण कहा गया है। इसका आध्यात्मिक तात्पर्य भी है और पाश्चिम दृष्टि से भी इसका एक तात्पर्य यह है कि सृष्टि द्वन्द्व-आत्मक है। प्रत्येक वस्तु में दोनो भाव एकरूप रहते हैं। केवल किसी एक भाव के प्रबल होने से उस वस्तु का, उस प्रबल भाव के नाम के आधार पर, यह नाम पड़ता है। इन दोनों भावों के पारस्परिक

विकास के अनन्त भेद हैं। आधुनिक विज्ञान के अन्तर्गत चलता है कि स्त्री और पुरुषत्व के विद्यमान में कोई अन्तर्विभक्ति नहीं है। जहाँ यह भेद अति सूक्ष्म है वहाँ स्पष्ट रूप से भेद देखा जाता है, किन्तु जहाँ भेद अधिक हो जाता है वहाँ स्पष्ट रूप से भेद हम उसे देख पाते हैं।

वशानुक्रम विज्ञान के अनुसार स्त्री और पुरुषत्व के भिन्न-भिन्न विषय में बहुत धाते जानने योग्य हैं। हम इन धातु के अन्तर्विभक्ति परिचित हो गये हैं कि प्रचलित 'जेनि' के द्वारा स्त्रीत्व के अन्तर्विभक्ति वशाजों में आते हैं। हमने यह भी देखा है कि स्त्रीत्व के अन्तर्विभक्ति में X, Y क्रोमोसोम रहते हैं, और स्त्रीत्व के अन्तर्विभक्ति में केवल X, X क्रोमोसोम रहते हैं। किन्तु इस विषय के अन्तर्विभक्ति में धातु रहते हैं। जिन जेनियों के द्वारा स्त्रीत्व और पुरुषत्व के अन्तर्विभक्ति होते हैं, वे केवल X, अथवा केवल Y क्रोमोसोम ही होते हैं। X और Y क्रोमोसोम में केवल स्त्रीत्व अथवा पुरुषत्व के वशा-लक्षण-बीज अर्थात् जेनि ही रहते हैं, अन्यथा अन्य वनमें दूसरे अनेक प्रकार के लक्षणों के अन्तर्विभक्ति रहते हैं, परन्तु रहते हैं। इसी प्रकार दूसरे क्रोमोसोम में भी स्त्री और पुरुष के लक्षण उत्पन्न करनेवाले जेनि भी रहते हैं अर्थात् केवल X अथवा केवल Y क्रोमोसोम द्वारा ही लिङ्गभेद ही उत्पन्न नहीं होता है। लिङ्ग भेद की उत्पत्ति के लिए समस्त क्रोमोसोमों का संयोजन का सम्मिलित प्रभाव काम करता है। इसके पुरे "त्रिप्लोमिया" नामक रोग के सम्बन्ध में इस विषय पर चर्चा की गई थी। लिङ्ग भेद के सम्बन्ध में भी वही बात लागू है।

X और Y क्रोमोसोम में एक 'जेनि' अथवा अधिनायकत्व में, भ्रूण में लिङ्ग के लक्षण विकसित परन्तु लिङ्ग लक्षण के विकसित होने में और भी द्विपी हुई हैं। भ्रूण में प्रथम अवस्था में दो

रहती हैं। प्राथमिक अवस्था में ये न तो स्त्री के डिम्बाणु की तरह होती हैं और न पुरुष के अण्ड-कोष की तरह। विकसित होते समय भ्रूण को यदि पुरुष बनना है तो वे सूक्ष्म ग्रन्थियाँ पुरुष के अण्ड-कोष बन जाती हैं, और उनसे जो रस निकला करता है उसके प्रभाव से पुरुष के दूसरे लिङ्ग-लक्षण विकसित होने लगते हैं। और यदि भ्रूण को स्त्री बनना है तो उक्त ग्रन्थियाँ स्त्री के डिम्बाणु बन जाती हैं और उनसे दूसरे प्रकार के रस निर्गत होते हैं। इन ग्रन्थियों के साथ दो नल युक्त रहते हैं। इनमें से एक का नाम "मुलेरियन्" (Mullerian) और दूसरे का नाम है "वलफियन्" (Wolfian) डक्ट अथवा नल। जत्र भ्रूण में स्त्री-लिङ्ग के लक्षण विकसित होते हैं तत्र 'मुलेरियन्' नल जगयु आदि में परिणत हो जाता है तथा 'वलफियन्' नल शुष्कप्राय हो जाता है और जत्र भ्रूण में पु लिङ्ग के लक्षण विकसित होने लगते हैं तत्र 'मुलेरियन्' नल विकसित न होकर शुष्कप्राय रह जाता है एवं 'वलफियन्' नल पुरुष का वीर्यवाही नल बन जाता है। स्त्री में 'वलफियन्' नल शुष्कप्राय रह जाते हैं।

ऊपर बताई गई ग्रन्थियों का पारिभाषिक नाम गोनेड्स या सेक्स ग्लाण्ड्स (Gonads or Sex Glands) है। लिङ्ग-भेद के उत्पन्न होने में पहले X अथवा Y क्रॉमोसोम का प्रभाव रहता है। ये प्रभाव वशानुक्रम के नियमानुसार प्राप्त होते हैं। इसके साथ-साथ 'गोनेड्स' के रसप्रवाह का भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रभाव लिङ्ग-भेद के कारण के रूप में वर्तमान है। जत्र 'सेक्स ग्लाण्ड्स' के रसप्रवाह के साथ X अथवा Y क्रॉमोसोम का सामञ्जस्य रहता है तत्र स्वाभाविक रूप से पुरुष अथवा स्त्री उत्पन्न होती है, अन्यथा नाना प्रकार की विचित्रताएँ उत्पन्न होती हैं। 'सेक्स ग्लाण्ड्स' से जो रस निकलता है, उसका पारिभाषिक नाम 'सेक्स हरमोन्स' है।

सेक्स हॉर्मोनस्—'सेक्स ग्लान्ड्स' का रस एक विस्मय की वस्तु है। यदि किमी मुर्ग के अण्डकोष निकाल लिये जाते हैं, तो मुर्गे का चीखना बन्द हो जाता है। उसके मस्तरु पर का रद्दीन मांसपिण्ड शुष्क होने लगता है और उसका रङ्ग फीका पड़ जाता है। किन्तु यदि उस मुर्गे को देह में दूसरे मुर्गे के जीवित अण्डकोष रस दिये जाते हैं तो वह फिर पूर्ववत् घोंग देने लगता है एवं उसमें दूसरे पुरुष के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। यदि किसी मादा चूहे के पेट से अण्डाणुओं को निकाल लिया जाता है, तो उसमें कामोद्दीपना नहीं रह जाती एवं वह नर को पास नहीं आने देती। किन्तु यदि उस चूहे की देह में स्त्री अण्डाणु का रस अर्थात् स्त्री हॉर्मोन इन्जेक्ट (Inject) कर दिया जाता है तो उसमें फिर पूर्ववत् कामोद्दीपना होने लगती है, फिर वह नर चूहे को पाम आने देती है आदि, आदि।

इसी प्रकार जिन किसी पुरुष की देह से अण्डकोष निकाल लिये जाते हैं और उसमें यदि स्त्री 'हॉर्मोन' इन्जेक्ट किया जाता है तो उस पुरुष का लिङ्ग शुष्क और छोटा होने लगता है। इसके साथ-साथ उसकी देह में स्त्रियों के से स्तन विकसित होने लगते हैं और वह बच्चों को दूध पिता सकता है। स्त्री की देह से भी जिन अण्डाणु निकाल लिये जाते हैं, एवं उसकी देह में पु 'हॉर्मोन' इन्जेक्ट किया जाता है तो उनके स्तन शुष्क होने लगते हैं और उसका क्लाइटारिस पुरुष लिङ्ग की तरह विकसित होने लगता है। (क्लाइटारिस का परिचय हम पृष्ठ ७४ में दे आये हैं।)

जीव की देह में जो कोष हैं उनमें पुरुष अथवा स्त्री, दोनों लक्षणों के विकसित होने की बराबर बराबर सम्भावनाएँ रहती हैं। 'सेक्स हॉर्मोन' के प्रभाव से स्त्री अथवा पुरुष के लक्षणों में उनका परिवर्तन हो सकता है।

इन सत्र बातों से यह प्रतीत होता है कि लिङ्ग-भेद के मूल में जेनि, x अथवा y क्रोमोसोम, एवं 'सेक्स हॉर्मोन्स' (अर्थात् 'सेक्स ग्लान्ड') का रस प्रवाह सामूहिक रूप से काम करता है। इन सत्र के समन्वय से तो स्वाभाविक रूप से स्त्री अथवा पुरुष का विकास होता है। जब इन मूल कारणों में परस्पर विरोध उत्पन्न हो जाता है तो प्रकृति में विचित्रता दिखाई देने लगती है।

कुछ निम्न श्रेणी के प्राणियों में स्वाभाविक रीति से ही किसी एक ही व्यक्ति में षभय लिङ्ग अभिव्यक्त होते हैं। वे एक ही समय में अथवा समयान्तर में स्त्री एवं पुरुष दोनों के से ही व्यवहार करते हैं। इस श्रेणी के जीवों को "हरमा फ्रोडाइट्स" (Herma Phrodites) कहते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे भी प्राणी हैं, जिनमें आधी देह तो स्त्री-लक्षण युक्त होती है और दूसरी आधी में पुरुष के लक्षण विकसित होते हैं। ऐसे जीवों को "गीनैन्ड्रोमोर्फ्स" (Gynandromorphs) कहते हैं। ड्रासोफीला नामक मक्खियों में आधी देह पुरुष की और आधी स्त्री की पाई गई है। संसार में इस प्रकार के और भी बहुत से प्राणी पाये जाते हैं।

मनुष्यों में यौवनावस्था का प्रारम्भ हो जाने के पश्चात् यदि स्त्री की देह से अण्डाणुओं को निकाल लिया जाय तो उसमें विशेष परिवर्तन के लक्षण नहीं दिखाई देते। किंतु यदि यौवनावस्था के पूर्व ऐसा किया जाता है तो अग्रश्य मनुष्यदेह में भी परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। यौवनावस्था के पूर्व लड़की की देह में स्त्रीजनोचित लक्षण विकसित नहीं होते। इस कारण यदि उस अवस्था में लड़की की देह से अण्डाणु को निकाल लिया जाता है, तो यौवनावस्था आने पर उसकी देह में पुरुष के कुछ कुछ लक्षण दिखाई देने लगते हैं। इसी प्रकार यदि यौवनावस्था के पूर्व लड़के के अण्ड कोप निकाल लिये जाते हैं तो यौवनावस्था

आने पर उस लडके में स्त्रीजनोचित स्वभाव एवं देहावयव विकसित होने लगते हैं। ऐसे लडके के मूँछें नहीं निकलतीं, गले का स्वर स्त्रियों का सा हो जाता है, आदि-आदि।

इस स्थान पर एक बात का स्पष्ट उल्लेख कर देना नितांत आवश्यक है। यौवनावस्था के प्राप्त होने पर 'गोनेड्स' अर्थात् 'सेक्स ग्लैण्ड्स' के निकाल लने पर भी मनुष्य की दृष्टि पर लिङ्ग के सम्बन्ध में कुछ विशेष परिवर्तन नहीं होते। दूसरे पुरुषों की तरह हिजडे भी रतिक्रिया कर सकते हैं।\*

'सेक्स ग्लैण्ड्स' के तीव्र रसप्रवाह के कारण कभी-कभी दो अथवा तीन वर्ष के बच्चों में भी लिङ्ग-लक्षण परिपूर्ण रूप से विकसित होते हुए देखा गया है। इन्हीं प्रस्थियों के रसप्रवाह एन जेनियो के कारण मनुष्यजाति के सत्र व्यक्तियों में ही प्रायः एक ही समय में यौवन के लक्षण दिखाई देते हैं। संसार भर में सत्र देशों की स्त्रियों में प्रायः एक ही समय में ऋतु म्नाव बन्द हो जाता है।

सेक्स ग्लैण्ड्स के रसप्रवाह से ही भ्रूण के लिङ्ग-लक्षण तथा उसकी पुरुष अथवा स्त्रीजनोचित प्रकृति विकसित होती है। किन्तु सेक्स ग्लैण्ड्स के रसप्रवाह का नियन्त्रण कैसे होता है, अथवा जो प्रस्थियाँ सेक्स ग्लैण्ड्स के रूप में बदलती हैं, उनका नियन्त्रण किन नियमों के अनुसार होता है इसका ज्ञान अभी तक हमें नहीं है।

हमने अभी तक जो कुछ लिखा है, उसके आधार पर अब यह थोड़ा बहुत समझ में आ सकता है कि कैसे युवती युवक के रूप में अथवा युवक युवती के रूप में परिवर्तित हो सकता है। देह के

\* देखिए—Yon and Heredity by Amram Scheinfeld—  
P 181 and Yon and Heredity—P 182

हॉर्मोन का कोई प्रभाव नहीं रहता है एवं भ्रूण की देह में जो जीव फोप हैं उनमें स्वाभाविक रीति में ही स्त्री के लक्षण विकसित होते हैं। अर्थात् किसी प्रकार के हॉर्मोन के न रहते हुए भी साधारण जीव-कोषों में स्त्री के लक्षण उत्पन्न करने की शक्ति अन्तर्निहित है। यदि नर हॉर्मोन का प्रभाव नहीं रहता है तो देह का स्वाभाविक विकास स्त्री के रूप में ही होता है। किन्तु स्त्री के लक्षणों का विकास एक बार प्रारम्भ हो जाने पर उसके स्थायित्व के लिए स्त्री हॉर्मोन की आवश्यकता अनिवार्य हो जाती है। इसके विपरीत पुस्त्व के विरहित होने के लिए नर-अण्ड-कोषों से नर हॉर्मोन का रहना अत्यावश्यक है। यदि किसी देह में किसी प्रकार की भी सेमम ग्लैण्ड नहीं रहती है अथवा यदि किसी देह में केवल अण्डाणु रहते हैं तो उस देह में स्त्री के लक्षण ही विकसित होंगे। चूहा में यह बात पाई गई है। नर हॉर्मोन के रहने से देह में नर-लिङ्ग के लक्षण ही विकसित होते हैं। इन परीक्षाओं से हम इस सिद्धांत पर पहुँचते हैं कि भ्रूण की देह में स्वाभाविक रूप से स्त्री बनने की शक्ति रहती है, किन्तु यदि नर हॉर्मोन का प्रभाव आ जाता है तो वह देह पुरुष के रूप में परिणत हो जाती है। प्रारम्भिक अवस्था में भ्रूण की देह स्त्री बनने के योग्य होती है, यदि उस अवस्था में नर हॉर्मोन का प्रभाव आ जाता है तो वह पुरुष के रूप में ही परिणत हो जाती है।

यदि ऐसा ही होता हो तो उभय लिङ्ग उत्पन्न होने का रहस्य कुछ समय में आ सकता है। एक नियत समय के अन्दर यदि पुं हॉर्मोन उत्पन्न हो जाता है, तो भ्रूण पुंस्लिङ्ग-युक्त होता है। और यदि इस पुं हॉर्मोन के उत्पन्न होने में कुछ विलम्ब हो जाता है तो उभय लिङ्ग-त्रिशिष्ट जीव उत्पन्न हो जाता है। इस विलम्ब का परिमाण जितना अधिक होता है, जीव में पुं-लक्षणों

की अपेक्षा स्त्री-लक्षणों के अधिक विकसित होने की उतनी ही सम्भावना रहती है। यह सिद्धान्त मनुष्य के लिए भी लागू है।

स्त्री और पुरुष में प्रभेद—पुरुष देह के जीव-कोष जिनका पारिभाषिक नाम 'सोमाटिक सेल्स'—Somatic Cells— है और धीज कोष का स्पर्म अथवा जर्म सेल्स—Sperm or Germ Cells—स्त्री देह के जीव कोषों से अपेक्षाकृत बड़े होते हैं। स्त्री और पुरुष के साँस लेने की रीतियों में भी अन्तर है। उन दोनों की नाडियों की रीति में भी स्पष्ट अन्तर रहता है। शरीर के अन्दर जितनी रासायनिक और अन्य प्रकार की क्रियाएँ होती रहती हैं, उनमें भी स्त्री और पुरुष में भेद है।

प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक शपेन हावेर महोदय ने वंशानुक्रम के सम्बन्ध में, वैज्ञानिक युग के आरम्भ होने के पूर्व, दृढता-पूर्वक यह कहा था कि मानव अपनी माता से ही मस्तिष्क अर्थात् चिन्तन शक्ति को प्राप्त करता है और अपना व्यक्तित्व पिता से। किन्तु आज यह प्रमाणित हो चुका है कि चिन्तन-शक्ति केवल एक जेनि के आधार पर नहीं बनती। वास्तव में कई जेनियों के सम्मिलित प्रभाव से ही चिन्तन शक्ति का विकास होता है। इसी प्रकार चरित्र का विकास भी किसी एक जेनि के आधार पर नहीं होता। शपेन हावेर के इस कथन का कि पुत्र अपने गुणों के लिए माता का अत्यन्त ऋणी रहता है, आधुनिक विज्ञान से कुछ समर्थन प्राप्त होता है।

इसके विपरीत गैस्टन महोदय ने बहुत से दृष्टान्त समूह करके यह दिखाया है कि प्रसिद्ध व्यक्तियों के जो आत्मीयगर्ग यश प्राप्त कर चुके हैं, उनमें स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की संख्या ही

\* Prof F A E Crew—article on Sex in "An Outline of modern Knowledge" P 284



अधिक है। गैस्टन महोदय ने यह भी कहा है कि वैज्ञानिकों के कुलों में मातृकुल का प्रभाव ही सन्तान पर अधिक पड़ा है। उन्होंने यह दिखाया है कि बड़े बड़े वैज्ञानिकों की ४३ माताओं में से ८ माताएँ ऐसी थीं जो उनके पिताओं से अधिक गुणशालिनी थीं। आधुनिक विज्ञान के अनुसार इस बात का समर्थन होता है।

स्त्री पुरुषों में जो प्रभेद हैं, वे भी वंश परम्परा से प्राप्त जेनि के आधार पर ही होते हैं। कुछ वंश-लक्षण ऐसे हैं, जो कन्या द्वारा ही संक्रमित होते हैं। कन्या में दो x (एम्स्) क्रॉमोसोम रहते हैं अर्थात् वंशगत लक्षण के पुत्रापेक्षा कन्या में अधिक संक्रमित होने की सम्भावना रहती है। पुत्र में तो केवल एक x क्रॉमोसोम रहता है, दूसरा y क्रॉमोसोम होता है। कुछ ऐसे भी वंश लक्षण होते हैं, जो पुत्रों द्वारा ही वंशजों में संक्रमित होते हैं।

पुरुषों में प्रकृति पर विजय प्राप्त करने की विशेष शक्ति रहती है। युद्ध एवं शिकार में पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा अधिक शक्ति का परिचय देता है। स्त्रियों को मुग्ध करना भी पुरुष का ही काम है। प्रकृति के नियमानुसार सन्तान प्रतिपालन का भार पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों पर अधिक पड़ा है। स्त्री की अपेक्षा पुरुष को ही स्त्री अधिक आकर्षित करती है। स्त्री सोच-समझकर, जान बूझकर पुरुषों को अपनी ओर आकर्षित नहीं करती। पुरुष के सान्निध्य में स्त्री लज्जा से निवृत्त हो जाती है, किन्तु उसकी विवशता से पुरुष के मन में एक विचित्र आकर्षण का अनुभव होता है। पुरुष के सम्बन्ध में स्त्री का आचरण सकोच से भरा हुआ होता है, किन्तु उस सकोच के कारण ही पुरुष के मन में स्त्री के प्रति एक सम्मोहन की सृष्टि होती है। स्त्रियों और पुरुषों के व्यवहारों में जो विशेष अन्तर है, उसके कारण प्रायः एक गलतफहमी होती है। कभी तो पुरुषों पर और कभी स्त्रियों पर यह लाञ्छन लगाया जाता है कि उनकी तो स्वभाव से ही दुष्ट प्रकृति होती है।

कभी तो यह कहना पड़ता है कि सनातन पुरुष स्त्री को आकर्षित करता है और कभी यह कि सनातन नारी पुरुष को आकर्षित करती है। यथार्थ में बात यह है कि स्त्रियो और पुरुषों की प्रकृतियों में एक व्यवधान अवश्य है और वह स्वाभाविक ही है। कुछ जर्मन पण्डितों की राय में स्त्रियो का स्वभाव पुरुषों में अनेक बातों में श्रेष्ठ है। उनकी राय में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियाँ कम भ्रष्टा एवं कम भ्रगडालू होती हैं। किसी घटना के घट जाने के पश्चात् स्त्री में उसका प्रभाव पुष्पों की अपेक्षा अधिक स्थायी एवं अधिक गम्भीर होता है। स्त्री पुरुषों की अपेक्षा कला कौशल में अधिक दक्ष होती है किन्तु विज्ञान तथा गणित में पुरुष स्त्री की अपेक्षा अधिक दक्ष होता है। राजनीति में स्त्री की उतनी रुचि नहीं रहती जितनी धार्मिक बातों में रहती है। सन्तान प्रतिपालन में स्त्री की स्वाभाविक रुचि पुरुषों से कहीं अधिक रहती है।

बुद्धिवृत्ति की परीक्षाओं में समवयस्क लड़के और लड़कियाँ एक सा ही सफल होती हैं। किन्तु इस स्थान पर हमें यह स्मरण रखना उचित है कि बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था में लड़कियाँ लड़कों की अपेक्षा अधिक परिपक्व हुआ करती हैं। बाल्यावस्था से किशोरावस्था में लड़कों और लड़कियों के स्वभाव और बुद्धिवृत्तियों में बहुत अन्तर बढ़ जाता है। किन्तु पण्डित एल० एम० टर्मैन की परीक्षाओं में लड़कियों की अपेक्षा लड़के बुद्धिवृत्ति में अधिक प्रखर प्रमाणित हुए थे। लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में मानसिक एवं शारीरिक विकास अधिक शीघ्र होता है। किन्तु स्कूलों एवं विश्वविद्यालयों के छात्र तथा छात्राएँ समान रूप से ही परीनोत्तीर्ण होती हैं। कभी-कभी इन परीक्षाओं में लड़कों की अपेक्षा लड़कियाँ अधिक सफलता दिखाती हैं। उनका अति उज्वल सफलता को देखकर यह आशा उत्पन्न होती है कि भविष्य जीवन में ये लड़कियाँ न जाने कितनी उन्नति करेंगी, किन्तु

सांसारिक जीवन की चलग्गनों में पड़कर उनकी प्रतिभा न जाने कहाँ लुप्त हो जाती है। पर्यवेक्षण-शक्ति एवं स्मृति-शक्ति में नारी पुरुष से पिछड़ी हुई नहीं है, किन्तु साहित्य के क्षेत्र में अथवा नयीन की सृष्टि में साधारणतया नारी पुरुष की अपेक्षा अधिक दर्जना का परिचय नहीं दे पाई है। सम्भवतः इसका कारण यह नहीं है कि नारी की मानसिक शक्ति पुरुष से कम है, वरन् इसका यह कारण है कि नारी की अभिरुचि पुरुष से भिन्न है। नारी की प्रेरणा पुरुष की अपेक्षा भिन्न दिशा की ओर प्रवाहित होती है। साधारणतया नारी पुरुष की अपेक्षा अधिक दृढ रगनेवाली होती है। किन्तु उसकी जिद पुरुष की जिद से भिन्न प्रकार की होती है। नारी सुन्दरी एवं प्रिया होने की अभिलाषिणी होती है, पुरुष कर्त्ता होने का अभिमान करता है, उसके मन में शक्तिमान् होने की दुराशा रहती है। पुरुष दूमरों पर आक्रमण करने में जितने बहास का अनुभव करता है स्त्री कष्ट सहन करने में उतनी ही क्षमता रखती है। प्रकृति की अव्यर्थ प्रेरणा से नारी पुरुष को भुलावा देती रहती है, और उसी के अमोघ नियंत्रण से नारी सन्ततियों के जन्म देनेवाली बनती है। इसी कारण पुरुष एवं सन्तान सन्ततियों की रुचि अभिरुचियों पर स्त्री का ध्यान लगा रहता है। स्त्री की वासना-कामनाएँ पुरुष और सन्तान सन्ततियों पर अवलम्बित रहती हैं। पारिवारिक जीवन में स्त्री का एक विशेष स्थान होता है और उस अस्थिति के कारण पुरुष की अपेक्षा नारी अधिक महानुभूति-सम्पन्न होती है। पराई पीर की अनुभूति नारी में पुरुष की अपेक्षा कहीं अधिक रहती है। किन्तु उसकी महानुभूति गृह परिवार के सकीण घरे में ही अधिक स्फूर्ति पाती है। यदि ऐसा न होता तो नारी के पारिवारिक जीवन के केन्द्र से अलग निकल जाने की गम्भीर सम्भावना रहती। नारी का स्नेहाकर्षण पति और सन्तान की ओर सीमित रहता है। पति के

मन में माया मोह उत्पन्न करने में ही स्त्री का कृतित्व है। पुरुष स्त्री की अपेक्षा अधिक स्वार्थपर एव अपने में अधिक मग्न रहने का अभ्यस्त है। नि स्वार्थ बुद्धि से प्रेरित हो काम करना एव केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए ज्ञानावेपण करने का दृष्टान्त मनुष्यों में भी दुर्लभ है।

ऊपर का विवरण जर्मन वैज्ञानिकों के मतानुसार दिया गया है। उक्त विवरण से जर्मन पण्डितों की मानसिक गति का परिचय मिलता है। निस्सन्देह स्त्रियों और पुरुषों की प्रकृति में यथेष्ट अन्तर है। इसका यह अर्थ नहीं कि पुरुष नारी की अपेक्षा श्रेष्ठ है। इसका केवल इतना ही तात्पर्य है कि स्त्री एव पुरुष के क्षेत्र भिन्न हैं। अपने अपने क्षेत्र में पुरुष अथवा स्त्री प्रधान हैं। स्त्री की प्रवृत्तियाँ सीमित क्षेत्र में अत्यन्त गम्भीर हुआ करती हैं, पुरुष की प्रवृत्तियाँ व्यापक रूप से क्रियाशील रहती हैं, इस कारण साधारणतया पुरुष की भावना कामना स्त्री की अपेक्षा कम गम्भीर हुआ करती हैं। किन्तु किसी एक विषय पर मग्न हो जाने से स्त्रियों अथवा पुरुषों में कोई विशेष अन्तर नहीं रहता है। स्त्री भी जिस विषय पर मन से लग जायगी, उस विषय में वह पुरुष की अपेक्षा कम दक्षता नहीं दिखायेगी।

## पाँचवाँ परिच्छेद

### पुरुष और स्त्री का पारस्परिक आकर्षण

योन मोह और आकर्षण—योगसूत्रों में एक स्थान पर यह कहा गया है कि क्रुद्ध औषधियों के प्रयोग से भी समाधि की अवस्था प्राप्त की जा सकती है। अर्थात् मानसिक क्रियाओं के परिणाम में जिस अवस्था को हम प्राप्त कर सकते हैं, उसी अवस्था को हम औषधियों के प्रयोग से भी प्राप्त कर सकते हैं।

भारतीय अध्यात्मवाद, के दृष्टिकोण से मानसिक क्रिया भी जड़वाद के सिद्धान्त पर प्रतिष्ठित है, अर्थात् मानसिक सत्ता भी जड़ जगत् की ही पर्यायमुक्त है।

आधुनिक वैज्ञानिकों में तथा पाश्चात्य देशों के जनमाधारण में भी आजकल जड़वाद तथा अध्यात्मवाद को लेकर एक द्वन्द्व चल रहा है। कुछ वैज्ञानिक केवल जड़ विज्ञान के आवार पर ही समस्त समस्याओं की मीमांसा करना चाहते हैं। और दूसरे वैज्ञानिक जड़वाद के अतिरिक्त मानसिक सत्ता के आधार पर भी वैज्ञानिक प्रश्नों की आलोचना और मीमांसा करना चाहते हैं। इन दूसरी श्रेणी के वैज्ञानिकों के मतानुसार मानसिक सत्ता, जड़ सत्ता से एक अलग वस्तु है। इनकी राय में मानसिक सत्ता एवं चैतन्य एक ही हैं। जड़वादियों ने अनेक परीक्षाओं के आधार पर यह सिद्ध कर दिखाया है कि रासायनिक द्रव्यों के प्रभाव से मानसिक प्रकृति बनती बिगड़ती है। अतः उनका कहना है कि मानसिक सत्ता भी जड़ वस्तुओं का ही परिणाम है। स्त्री और पुरुष एक दूसरे के प्रति जैसे आचरण करते हैं, स्त्री पुरुष के प्रति और पुरुष स्त्री के प्रति जिस प्रकार आकर्षित होते रहते हैं, उनके मूल में भी देहस्थित ग्रन्थियां के रसप्रवाह का ही अव्यर्थ प्रभाव है।

मनुष्य तथा अन्य प्राणियों की देह में दो प्रकार की ग्रन्थियाँ रहती हैं, एक तो पुरुष के अण्डकोष और स्त्रियों के टिन्नाणु जैसी ग्रन्थियाँ, दूसरी प्रकार की ग्रन्थियां को अंगरेजी में 'टक्टलस् ग्लैण्डस्' (Ductless Glands) अर्थात् नल रिहीन ग्रन्थियाँ कहते हैं। स्त्रियों और पुरुषों की चारित्रिक तथा मानसिक प्रकृतियाँ इन ग्रन्थियों के विविध प्रकार के रस प्रवाह पर बहुत कुछ निर्भर हैं। यदि स्त्री की देह से अण्डाणु निकाल लिये जायें तो पुरुष के प्रति स्त्री का समस्त आकर्षण हवा हो जायगा।

जिस यौन आकर्षण के आधार पर ससार के श्रेष्ठ उपन्यास और काव्य रचे गये हैं, असाधारण प्रतिभावान् कलाकार के निपुण तूलिकाघात से जिस अद्भुत चित्रमाला का विकास हुआ है और मङ्गीत की अपूर्व मूर्च्छना की सृष्टि हुई है, वह आकर्षण तभी सम्भव हुआ है जब मनुष्य देह में प्रन्थियों से स्वाभाविक रूप में रस प्रवाह हुआ है। स्त्रियो और पुरुषों में परस्पर आकर्षण न रहस्य इन प्रन्थियों से रस निर्गमन में ही त्रिपा हुआ है।

चूहों पर परीक्षा कर देखा गया है कि जब चुहियों के पेट से अण्डाणु निकाल लिये जाते हैं तब वे चूहों को पास नही आने देती। किन्तु यदि फिर उनकी देह में अण्डाणु अथवा उसका रस प्रवेश कराया जाता है, तो वे फिर चुहियों का सा आचरण करने लगती हैं, चूहों को पास आने देती हैं और उनसे भोग करने को प्रस्तुत हो जाती हैं।

अण्डाणु और अण्डकोषों को छोड़कर जो दूसरी श्रेणी की प्रन्थियाँ हैं, उनका भी प्रभाव कुछ कम नहीं है। यदि किसी पुरुष की देह से मस्तिष्क के नीचे की 'पिटुइटोरी' प्रन्थि निकाल ली जाय तो पुरुष के अण्डकोष भी शुष्कप्राय हो जायेंगे, और इस कारण पुरुष में सब प्रकार के यौन लक्षण लुप्तप्राय हो जायेंगे। तब उसके मन में स्त्री के प्रति किसी प्रकार का आकर्षण नहीं रह जायगा। यदि फिर उसकी देह में 'पिटुइटोरी' प्रन्थि का रस प्रवेश कराया जाय तो पुनः वह व्यक्ति पुरुषोचित आचरण करने लगेगा। स्त्रियों के लिए भी ये ही बातें लागू हैं। अर्थात् "गोनाडस्" अथवा "सेक्स ग्लैण्डस्" का कार्य "डमटलेस् ग्लैण्डस्" के रस प्रवाह पर निर्भर रहता है। यदि किसी व्यक्ति में "पिटुइटोरी" प्रन्थि अपूर्ण रह गई हो, अथवा किसी कारण उससे रसप्रवाह न होता हो तो उस व्यक्ति के "सेक्स ग्लैण्डस्" भी क्रियाशील नहीं होंगे।

यदि यौवनावस्था के पूर्व ही किसी प्राणी की देह में 'पिटुइटोरी' ग्रन्थि का रस प्रवेश कराया जाय तो अपनी अवस्था के पूर्व ही उसकी देह में यौवनोचित लक्षण विकसित होने लगेंगे, स्त्री के अण्डाणु अपने समय के पूर्व ही पुष्ट हो जायेंगे, पुरुष का लिङ्ग भी यौवन के पूर्व ही अपनी पूर्ण अवस्था को प्राप्त हो जायगा।

इस विषय में एक और बात पर ध्यान रखना आवश्यक है। स्त्री और पुरुष, दोनों के ही 'पिटुइटोरी' ग्रन्थियों के रस एक ही प्रकार के होते हैं। केवल बात यह है कि 'पिटुइटोरी' ग्रन्थि से रस निर्गमन न होने पर मेकम ग्लैण्ड्स भी क्रियाशील नहीं होते हैं। इस कारण यौन आचरण एवं विविध प्रकार के यौन आकर्षण के मूल में दोनों प्रकार की ग्रन्थियों का समान प्रभाव रहता है।

वैज्ञानिकगण मनुष्य-देह की अनेक प्रकार की ग्रन्थियों से रस स्रवण करने में समर्थ हुए हैं, और उनके रासायनिक विश्लेषण करके परीक्षागारों में उक्त अनेक प्रकार के रस प्रस्तुत करने में भी समर्थ हुए हैं। जडवादियों का कहना है कि मानसिक सत्ता जड उपादान से कोई स्तत्र एव रहस्यमय वस्तु नहा है। मानसिक प्रवृत्ति देह का ही एक प्रकार अथवा विकास है। अर्थात् पिटुइटोरी ग्रन्थि के रस निर्गमन पर ही काम ऊला का भी विकास होता है। मनुष्य का मन अथवा उसकी मानसिक क्रिया भी ग्रन्थियों से रस निर्गमन पर अवलम्बित है—किन्तु पिटुइटोरी ग्लैण्ड का रस निर्गमन भी मानसिक इच्छा पर—मानसिक रुचि अभिरुचि पर—कम निरर नहीं रहता। जडवादी कहते हैं कि काम, मोघ, लोभ, मोह, भय मैथुनादि सभी मानसिक क्रियाएँ ग्रन्थियों से रस निर्गमन पर अवलम्बित हैं।\* उसी के साथ-साथ यह बात भी अत्यन्त सत्य

है कि उन ग्लैण्ड्स की क्रियाएँ भी व्यक्ति की इच्छा पर कम निर्भर नहीं करतीं। मैथुन के परिणाम में भी ग्रन्थियों की प्रवृत्ति घनती गिगडती रहती है। ग्रन्थियों के रस प्रवाह के साथ वंशानुक्रम विज्ञान का बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध है। नेचरल सिलेक्शन अथवा अन्य किसी प्रकार की व्याख्या से इस समस्या का कोई समाधान नहीं होता है कि सत्र प्रकार के प्राणियों में क्यों एक ही विशेष अवस्था में यौवनोचित लक्षण दिखाई देते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि मैथुन की अवस्था में देह की ग्रन्थियों में भी परिवर्तन होते हैं और उनके प्रभाव से जीव कोष तथा यीज-कोष दोनों में ही परिवर्तन हो जाते हैं। इसी कारण मनुष्यों की एक विशेष अवस्था में ही यौन लक्षण विकसित होने लगते हैं। इस बात में अभी वैज्ञानिकों में यथेष्ट मतभेद है। इस विषय की आलोचना दूसरे परिच्छेद में विस्तृत रूप से की जायगी। मैथुन के समय मैथुन के कारण जीव देह में विशेष परिवर्तन होते हैं, इसमें सन्देह नहीं और इस बात में मतभेद भी नहीं है। मतभेद इस बात में है कि उन परिवर्तनों के कारण यीज कोषा में भी परिवर्तन होते हैं अथवा नहीं।

यथार्थ बात यह है कि व्यक्ति का आचरण, उसका व्यक्तित्व, आदि केवल एक ही तत्त्व पर अवलम्बित नहीं हैं। व्यक्ति के सस्कार, उसकी कामना वासना, इच्छा अभिरुचि, सहजात सस्कार आदि का निर्माण न केवल जेनि पर निर्भर है, न ग्रन्थियों के रस प्रवाह पर। इस सस्कार में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो केवल जड हो अथवा केवल चेतन हो। यह निश्च जड चेतनात्मक है। मनुष्य के आचरण सर्वोपरि सहजात सस्कारों पर निर्भर हैं। ये सहजात सस्कार कहीं से आते हैं, कैसे उत्पन्न होते हैं, इनका यथार्थ उत्तर विज्ञान आज भी नहीं दे पाया है। वंशानुक्रम विज्ञान से इन प्रश्नों पर कुछ प्रकाश अवश्य पड़ता है, किन्तु पूरे



का रहस्य रहस्यावृत ही रह जाता है। विभिन्न प्रकार की ग्रन्थियों में नाना प्रकार के रस निर्गत होते रहते हैं। उनके प्रभाव से मानसिक क्रियाएँ एव विकास होते रहते हैं। इसी प्रकार मानसिक चेष्टाओं के परिणाम में भी ग्रन्थियों से रस निर्गमन होता है। विशेष विशेष जेनि के कारण मनुष्य में विशेष विशेष गुण विकसित होते हैं। उनके ही कारण देह में नाना प्रकार की ग्रन्थियाँ भी उत्पन्न होती हैं। फिर केवल एक एक जेनि के ही आधार पर वश-लक्षण नहीं उत्पन्न होते। सम्पूर्ण जेनि के सम्मिलित प्रभाव से ही जीव देह बनती है। 'पिटुइटॉरी' आदि ग्रन्थियों के प्रभाव से शारीरिक और मानसिक प्रकृति का विकास होता है और मानसिक और शारीरिक क्रियाओं के परिणाम में ग्रन्थियों में भी परिवर्तन होते रहते हैं। अध्यात्मवाद के अनुसार एक ही तत्त्व के दो विभिन्न प्रकार के विकास होते हैं, एक विकास में जड का प्राधान्य रहता है, दूसरे प्रकार के विकास में चैतन्य का प्राधान्य रहता है। इस सिद्धान्त के अनुसार यदि वैज्ञानिक प्रश्नों की मीमांसा एव खोज की जाय तभी यथार्थ ज्ञान का उदय होगा एव सब प्रकार के विरुद्ध अविरुद्ध प्रश्नों का समाधान सम्भव होगा।

## छठा परिच्छेद

सन्तान का पितृत्व कैसे निर्धारित हो ?

विगत महायुद्ध के अजसर पर नाना देशों के सैनिकों की देहों से रक्त लेकर परीक्षाएँ की गई थीं। उन परीक्षाओं के परिणाम में यह ज्ञात हुआ था कि साधारणतः सस्यार के मनुष्यों में चार प्रकार के रक्त हैं। गहरी चोट पहुँचने के कारण अथवा अधिक कट जाने के कारण या अन्य किसी कारण यदि

रोगी की देह से अधिक मात्रा में रक्तस्राव हो जाय तो दूसरी देह से उस रोगी की देह में रक्त पहुँचाया जाता है। पहले पहल इस प्रकार रक्त के लेन देन के कारण कभी तो रोगी बच गया है और कभी उसकी मृत्यु भी हो गई है। ऐसे दो विपरीत परिणामों के कारण अनुसंधान करते समय इस बात का पता चला कि मनुष्यों की धमनियों में प्रधानतः चार प्रकार के रक्त प्रवाहित होते हैं। यदि दो व्यक्तियों के रक्त एक ही प्रकार के हों तो एक का रक्त दूसरे की देह में अन्तःस्थान ही प्रवाहित कराया जा सकता है। इसमें कोई शका की बात नहीं है। इस प्रकार के रक्त प्रवाह से रोगी की उन्नति ही होती है, हानि नहीं होती। किन्तु यदि दो व्यक्तियों के रक्त दो भिन्न प्रकार के होते हैं, तो एक का रक्त दूसरे की देह में सञ्चालित कराने से रोगी की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उक्त दो प्रकार के रक्त एकत्र सम्मिश्रित होने से जम जाते हैं, रक्त का प्रवाह रुक जाता है और रोगी की मृत्यु हो जाती है।

वशातुक्रम के नियमानुसार उक्त चार प्रकार के मनुष्यों के वंशजों में भी चार प्रकार के रक्त पाये जाते हैं। पिता और सन्तान में एक ही प्रकार के रक्त का होना आवश्यक है। माता और पिता के दोना प्रकार के रक्तों का सन्तानों में सत्रपण में देन के नियमानुसार होगा। वैज्ञानिक खोज के परिणाम में यह जाना गया है कि केवल तीन प्रकार के जेनि के प्रभाव से चार प्रकार के रक्त उत्पन्न होते हैं। इन तीन जेनियों के नाम ए, बी और ओ रूपाये गये हैं। साधारण व्यक्ति के सम्भवे के लिए इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि उक्त तीन प्रकार के जेनियों से रक्त में प्रधानतः तीन प्रकार की वस्तुएँ उत्पन्न होती हैं। ए जेनि से एक प्रकार का पदार्थ उत्पन्न होता है, जिसका नाम "एन्टिजेन ए" (Antigen A) रखा जा सकता है।

का रहस्य रहस्यावृत ही रह जाता है। विभिन्न प्रकार की प्रथियों से नाना प्रकार के रस निर्गत होते रहते हैं। उनके प्रभाव से मानसिक क्रियाएँ एव विकास होते रहते हैं। इसी प्रकार मानसिक चेष्टाओं के परिणाम में भी प्रथियों से रस निर्गमन होता है। विशेष विशेष जेनि के कारण मनुष्य में विशेष विशेष गुण विकसित होते हैं। उनके ही कारण देह में नाना प्रकार की प्रथियाँ भी उत्पन्न होती हैं। फिर केवल एक एक जेनि के ही आधार पर वश-लक्षण नहीं उत्पन्न होते। सम्पूर्ण जेनि के सम्मिलित प्रभाव से ही जीव-देह बनती है। 'पिट्टुइटोरी' आदि प्रथियों के प्रभाव से शारीरिक और मानसिक प्रकृति का विकास होता है और मानसिक और शारीरिक क्रियाओं के परिणाम में प्रथियों में भी परिवर्तन होते रहते हैं। अध्यात्मवाद के अनुसार एक ही तत्त्व के दो विभिन्न प्रकार के विकास होते हैं, एक विकास में जड का प्राधान्य रहता है, दूसरे प्रकार के विकास में चैतन्य का प्राधान्य रहता है। इस सिद्धान्त के अनुसार यदि वैज्ञानिक प्रभों की मीमांसा एव खोज की जाय तभी यथार्थ ज्ञान का उदय होगा एवं सब प्रकार के विरुद्ध अजिह्व प्रभों का समाधान सम्भव होगा।

## छठा परिच्छेद

सन्तान का पितृत्व कैसे निर्धारित हो ?

विगत महायुद्ध के अवसर पर नाना देशों के सैनिकों की दहा से रक्त लेकर परीक्षाएँ की गई थीं। उन परीक्षाओं के परिणाम में यह ज्ञात हुआ था कि साधारणतः सस्यार के मनुष्यों में चार प्रकार के रक्त हैं। गहरी चोट पहुँचने के कारण अथवा अधिक कट जाने के कारण या अन्य किसी कारण यदि

रोगी की देह से अधिक मात्रा में रक्तस्राव हो जाय तो दूसरी देह से उस रोगी की देह में रक्त पहुँचाया जाता है। पहले पहले इस प्रकार रक्त के लेन देन के कारण कभी तो रोगी घब गया है और कभी उसकी मृत्यु भी हो गई है। ऐसे दो विपरीत परिणामों के कारण अनुसन्धान करते समय इस घात का पता चला कि मनुष्यों की धमनियों में प्रवाहित चार प्रकार के रक्त प्रवाहित होते हैं। यदि दो व्यक्तियों के रक्त एक ही प्रकार के हों तो एक का रक्त दूसरे की देह में अनायास ही प्रवाहित कराया जा सकता है। इसमें कोई शका की घात नहीं है। इस प्रकार के रक्त प्रवाह से रोगी की उन्नति ही होती है, हानि नहीं होती। किन्तु यदि दो व्यक्तियों के रक्त दो भिन्न प्रकार के होते हैं, तो एक का रक्त दूसरे की देह में सञ्चालित कराने से रोगी की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उक्त दो प्रकार के रक्त एकत्र सम्मिश्रित होने से जम जाते हैं, रक्त का प्रवाह रुक जाता है और रोगी की मृत्यु हो जाती है।

वशानुक्रम के नियमानुसार उक्त चार प्रकार के मनुष्यों के शरीरों में भी चार प्रकार के रक्त पाये जाते हैं। पिता और सन्तान में एक ही प्रकार के रक्त का होना आवश्यक है। माता और पिता के दोनों प्रकार के रक्तों का सन्तानों में सम्मेलन मण्डेल के नियमानुसार होगा। वैज्ञानिक खोज के परिणाम में यह जाना गया है कि केवल तीन प्रकार के जेनि के प्रभाव से चार प्रकार के रक्त उत्पन्न होते हैं। इन तीन जेनियों के अ, बी और ओ रक्ते गये हैं। साधारण व्यक्ति के लिए इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि उक्त तीन जेनियों से रक्त में प्रयुक्त तीन प्रकार की वस्तुएँ उत्पन्न होती हैं जेनि में एक प्रकार का पदार्थ उत्पन्न होता है (Antigen A) रक्त

जेनि से "एन्टिजेन बी" (Antigen B) उत्पन्न होता है। ओ जेनि से किसी प्रकार का "एन्टिजेन" उत्पन्न नहीं होता है ओ जेनि से जो पदार्थ उत्पन्न होते हैं वे अधिक तीव्र नहीं होते हम अपने माता-पिता से अपने अपने रक्त के लिए दो-दो जेनि प्राप्त करते हैं, "प्रथात् एक माता से और दूसरा पिता से। इसलि हमारी देह में जेनि निम्न प्रकार के जोड़े में प्राप्त होंगे—AA, BB, अथवा OO, अन्यथा मिश्रित जोड़े, जैसे—AB, AO अथवा BO। जब A और B दोनो जेनि एकत्र रहते हैं, तब दोना के गुण समान रूप से प्रबल रहते हैं। किन्तु O जेनि का प्रभाव A अथवा B के साथ रहने से स्पष्ट नहीं होता है, AO में A का और BO में B का प्रभाव प्रबल रहता है। इस प्रकार पिता-माता से प्राप्त जेनि के आधार पर मनुष्य के रक्त चार प्रकार के बन जाते हैं,—सांकेतिक चिह्नों में इसी सिद्धान्त को व्यक्त करने पर इसका समझना सहज हो जायगा। A + A अथवा A + O से जो रक्त बनेगा, उसमें केवल 'एन्टिजेन ए' नामक पदार्थ ही प्रधानता को प्राप्त होगा। इसी प्रकार B + B अथवा B + O जेनि के मिश्रित होने पर जो रक्त बनेगा उसमें केवल "एन्टिजेन बी" पदार्थ ही प्रधानत रहेगा। AB में दोनों पदार्थ समान रूप से रहेंगे। O + O में केवल O प्रकार की वस्तुएँ रहेंगी। "प्रथात्—

A + A या A + O = A प्रकार का रक्त, B + B या B + O = B प्रकार का रक्त, A + B = AB प्रकार का रक्त एवं O + O = O प्रकार का रक्त। 'AB' रक्त में यदि A प्रकार का अथवा B प्रकार का अथवा O प्रकार का रक्त सञ्चालित किया जाय तो कोई हानि नहीं होगी। किन्तु O, A अथवा B प्रकार के रक्त में 'AB' रक्त मिश्रित करने पर हानि होगी। क्योंकि 'AB' और O में, 'AB' और A में एवं 'AB'

और B में विभिन्नताएँ हैं। इसी प्रकार O प्रकार के रक्त में केवल 'A' अथवा केवल B अथवा 'AB' प्रकार के रक्त मिश्रित होने पर भी रक्त जम जायगा। किन्तु O प्रकार का रक्त अन्य प्रकार के रक्तों में अनायास ही मिश्रित किया जा सकता है। अर्थात्—

'AB' में A अथवा B अथवा O प्रकार के रक्त मिश्रित किये जा सकते हैं,—इसमें कोई हानि नहीं होगी।

किन्तु O, A अथवा B प्रकार के रक्त में 'AB' रक्त नहीं मिलाया जा सकता है।

O रक्त में भी अन्य प्रकार के रक्त नहीं मिलाये जा सकते किन्तु O रक्त—अन्य प्रकार के रक्त में अनायास मिश्रित किया जा सकता है।

मनुष्यों में चार प्रकार के रक्त होने के कारण साधारणतया एक के साथ दूसरे के मिश्रित होने पर हानि की सम्भावना रहती है। एक की देह से अन्य की देह में रक्त सञ्चालित करते समय इन सब बातों पर ध्यान रखना आवश्यक है। मनुष्यों में चार प्रकार के रक्त होते हैं, इसके अनुसन्धान के पूर्व यह एक विस्मय की बात थी कि कभी तो रक्त-सञ्चालन से लाभ हुआ और कभी हानि हुई। आज इस समस्या का हल हो गया है। जैसे काली आँखवाली माता के गर्भ से विडालाली कन्या का जन्म सम्भव होता है, वैसे ही माता पिता अथवा सन्तान के रक्तों में भी अन्तर होना सम्भव है।

किसी सन्तान के पितृत्व का निर्णय करते समय ऊपर बताये गये सिद्धान्तों का प्रयोग किया जाता है। अमेरिका के संयुक्त राष्ट्र के न्यायालयों में रक्त परीक्षा के उपर्युक्त सिद्धान्तों को स्वीकार किया गया है। "थू एण्ड हेरेडिटी" नामक पुस्तक

मे अमेरिका के न्यायाचया के कुछ दृष्टान्त दिये गये हैं। उनमें से एक दृष्टान्त का उल्लेख इस स्थान पर किया जाता है।

अमेरिका की एक युवती वहाँ के एक गण्य-मान्य व्यक्ति के विरुद्ध अदालत में यह अभियोग लाई थी कि उक्त व्यक्ति ने मेरे साथ विवाह करने का वादा किया था एवं उसके औरस से मेरे सन्तान उत्पन्न हुई है। इस कारण मुझे क्षतिपूर्ति स्वरूप इतने रुपये दिये जायें। न्यायाधीश ने अमेरिका के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डा० रूफ्स ई० स्टेट्सन् को उक्त युवती और उसकी सन्तान के रक्तों की परीक्षा करने को कहा। परीक्षा के परिणाम में पता चला कि युवती का रक्त O प्रकार का था और उसके सन्तान का रक्त A प्रकार का था। इसका तात्पर्य यह था कि माता की ओर से सन्तान को केवल O प्रकार का जेनि प्राप्त हो सकता था। इस कारण उक्त सन्तान को पिता की ओर से ही A प्रकार का जेनि प्राप्त होना सम्भव था। इस प्रकार पिता का जेनि (जिन जेनियों से रक्त की प्रकृति बनी है) B प्रकार का नहीं हो सकता था, क्योंकि सन्तान को 'A' जेनि प्राप्त हुआ था। इस युक्ति के अनुसार पिता का रक्त 'A' अथवा 'AB' प्रकार का ही हो सकता था। डा० स्टेट्सन् साहय ने उक्त पिता के रक्त की परीक्षा करके देखा कि उसका रक्त 'O' प्रकार का था।— अत्र इसमें कोई सन्देह नहीं रहा कि उक्त सन्तान का वह पिता नहीं था। अदालत ने भी डाक्टर के मतानुसार यही राय दी।

A, B और O जेनियों के अतिरिक्त रक्त की प्रकृति दो और गौण जेनियों से भी बनती है। उन दो जेनियों के नाम 'M' और 'N' जेनि रखे गये हैं। अर्थात् A, B, AB, और O प्रकार के रक्त के अतिरिक्त MM अथवा NN अथवा MN गुण भी रक्त में मिलते हैं। एक देह से दूसरी देह में रक्त-सञ्चालन के लिए M और N का किसी प्रकार का प्रभाव परलक्षित होता है, किन्तु

सन्तान के पितृत्व निर्णय करने के लिए M और N के होने का महत्त्व है।

इन परीक्षाओं के परिणाम में वैज्ञानिक केवल इतना ही कह सकता है कि अमुक व्यक्ति अमुक सन्तान का पिता नहीं हो सकता, किन्तु इसके विपरीत यह बात निश्चयात्मक रूप से कभी कही नहीं जा सकती कि अमुक व्यक्ति अमुक सन्तान का पिता अवश्य है। विज्ञान इतना ही कह सकता है कि अमुक व्यक्ति अमुक सन्तान का पिता हो सकता है। अर्थात् पिता में जिस श्रेणी का रक्त है, उस श्रेणी के रक्तवाले और भी सैन्डो व्यक्ति संसार में हैं। आधुनिक विज्ञान के अनुसार पितृत्व के विरोध में ही प्रमाण उपस्थित किये जा सकते हैं, उसके पक्ष में निश्चयात्मक प्रमाण नहीं दिये जा सकते।

M और N प्रमाण के अनुसार एक और दृष्टान्त "You and Heredity" ग्रन्थ में दिया गया है।

एक विवाहित स्त्री ने अदालत में यह दावा किया कि मेरी सन्तान मेरे प्रेमी की है, मेरे पति की नहीं है। उसके पति ने दावा किया कि सन्तान मेरी है। A, B, AB और O श्रेणियों के रक्त के प्रमाणानुसार यह देखा गया था कि पति उक्त सन्तान का पिता हो सकता है। किन्तु पति के और सन्तान के दुर्भाग्यवश M और N प्रमाणानुसार यह सिद्ध हुआ कि पति उक्त सन्तान का पिता नहीं हो सकता था।

पितृत्व निर्धारण की परीक्षाओं में एक और कठिनाई या पड़ती है, सन्तान का रक्त परीक्षा के लिए परिपुष्ट होने में एक पूरा वर्ष अथवा उससे भी अधिक समय लगता है। किन्तु जन्म के थोड़े दिनों के अन्दर ही पितृत्व निर्धारण के लिए बच्चों के रक्त की परीक्षा की आवश्यकता होती है।



उपर दिये गये सिद्धान्ता की संक्षिप्त, स्पष्ट और सरल व्याख्या नीचे दी जाती है,—

पति बच्चे का पिता नहीं है।

यदि बच्चे के रक्त की श्रेणी निम्न प्रकार की हो	और स्त्री के रक्त की श्रेणी निम्न प्रकार की हो—	पति के रक्त की श्रेणी निम्न प्रकार की हो
O श्रेणी	चाहे किसी भी श्रेणी का हो	AB श्रेणी
AB श्रेणी	चाहे किसी भी श्रेणी का हो	O श्रेणी
A श्रेणी	O अथवा B श्रेणी	O अथवा B श्रेणी
B श्रेणी	O अथवा A श्रेणी	O अथवा A श्रेणी

एक और प्रकार के प्रमाणानुसार  
पति बच्चे का पिता नहीं हो सकता है।

यदि बच्चे के रक्त में गौण लक्षण निम्न प्रकार का हो	और स्त्री के रक्त में गौण लक्षण निम्न प्रकार का हो	पति के रक्त में गौण लक्षण निम्न प्रकार का हो
M	चाहे जिस प्रकार का हो	N
N	चाहे जिस प्रकार का हो	M
MN	N	N
MN	M	M

## सातवाँ परिच्छेद

### वीर्य-उत्पादन की शक्ति—सनातन बीज-कोष

स्त्री के अण्डाणु में पुरुष के वीर्य से केवल एक बीज कोष के प्रवेश करने पर जीव की देह बनती है। भ्रूण रूपी एक जीव कोष के क्रमशः विभाजित होने पर जीव देह का विकास होता है। इसका परिचय हमें प्राप्त हो चुका है।

एक भ्रूण कोष से महस्र कोषों की उत्पत्ति होती है। ये सत्र कोष अथवा जीव कोष, धीरे धीरे, एक-एक, विशेष कार्योंपयोगी, मास-पेशी, अस्थि, मज्जा आदि विभिन्न अङ्गों के रूप में बनते जाते हैं। किन्तु कुछ कोष अलग रह जाते हैं। देह के बनने प्राने में ये कोई कार्य नहीं करते। देह के विनष्ट होने पर भले ही ये नष्ट हो जायें, अन्यथा इनका नाश नहीं होता। इन्हीं कोषों से वीर्य अथवा बीज-कोष बनते हैं और ये पुनः सन्ततियों में पहुँच जाते हैं। इस प्रकार इन बीज कोषों का कभी भी नाश नहीं होता। एक हिमाय से ये अविनाशी हैं।

जन्म के समय से ही बालक के अण्डकोषों में ये विशेष कोष रहते हैं, जिनसे केशोरावस्था के बाद यौवनावस्था में वीर्य उत्पन्न होता है। जिस प्रकार केवल एक कोष से ही लाखों कोष उत्पन्न होते हैं उसी प्रकार कुछ बीज कोषों से ही लाखों बीज-कोष उत्पन्न होते हैं।

यह प्रश्न उठ सकता है कि क्या मनुष्य देह में वीर्य उत्पादन की शक्ति सीमित है अथवा नहीं? साधारण रीति से यह कहा जा सकता है कि मनुष्य में वीर्य उत्पादन की शक्ति सीमित नहीं है। केवल एक घार के वीर्यपात से बीस करोड़ से लेकर पचास करोड़ बीज कोष निकलते हैं। फिर भी जिन कोषों से ये उत्पन्न होते हैं, वे पूर्ववत् ही क्रियाशील एवं शक्तिशाली रह जाते हैं। जन वरु

दह नोरोग एवं स्वस्थ बनी रहती है, उम समय तक वीर्य उत्पादन की शक्ति मनुष्य में रहती है।

किन्तु स्त्री के अण्डाणुओं की संख्या सीमित है। जन्म से ही कन्या की देह में एक सीमित संख्या के अपरिपक्व अण्डाणु रहते हैं। स्त्री के बीज कोष अण्डाणुओं में परिवर्तित हो जाते हैं। यौवनावस्था में प्रायः २८ दिन में केवल एक अण्डाणु ऋतु के समय निकलता है। प्रायः ३५ वर्ष तक स्त्री के अण्डाणु निरुत्पन्न रहते हैं। उसके पश्चात् स्त्री के लिए ऋतुमाल बन्द हो जाता है। अण्डाणु यौवनावस्था में ही परिपक्व होते हैं किन्तु अण्डाणु के भीतर के वंश सूत्रों में (Chromosomes) कॉमोसोम में कोई परिवर्तन नहीं होता।

सन्तान के वीर्य अथवा अण्डाणु में जो वंश-सूत्र (Chromosomes) रहते हैं वे पिता माता के वंश सूत्रों के ही जीवित अंश हैं। बृहदारण्यक उपनिषद् में कहा गया है कि पति स्वयं स्त्री के गर्भ में प्रवेश करता है और तत्र सन्तान की उत्पत्ति होती है। पिता और माता अपने अपने पिता माताओं से जो वंश सूत्र प्राप्त करते हैं, उन्हीं के अंशों को वे अपनी सन्तानों को देते हैं। इस प्रकार जीवनी शक्ति का प्रवाह न जाने किस अतीत युग से चला आ रहा है।

## आठवाँ परिच्छेद

### आयु और वंश

साधारण रीति से यह कहा जा सकता है कि किसी किसी वंश में मनुष्य अधिक दिन जीवित रहते हैं और किसी किसी वंश में मनुष्य की आयु थोड़ी होती है। साधारण व्यक्ति की यह धारणा कुछ सीमा तक सत्य है।

कुछ डाक्टरों की राय तो यह है कि मनुष्य की आयु जन्म के समय ही निर्दिष्ट हो जाती है। भविष्य में, यदि अपस्मात् किसी दुर्घटना के कारण, गाड़ी के नीचे दबकर अथवा छत से नीचे गिरकर, अथवा साँप के काट लेने से मृत्यु नहीं होती है तो किसी बीमारी के कारण अथवा साधारणतया व्यक्ति की मृत्यु एक निर्दिष्ट समय पर ही होगी। किसी भी उपाय से न तो किसी की आयु बढ़ाई जा सकती है और न घटाई जा सकती है।

जन्म के समय पिता, पितामह, माता, मातामह, पितामही, मातामही आदि से वंश-सूत्रों के द्वारा वंश के जो गुण अवगुण प्राप्त होते हैं, उन्हीं के आधार पर आयु घनती है। परिमित आहार और विहार के कारण स्वास्थ्य सुंदर बन सकता है, नाना प्रकार के रोगों से बच सकते हैं, किन्तु आयु नहीं बढ़ सकती। इन्हीं प्रकार दुराचरण से स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, रोगी बन सकते हैं, तथापि आयु नहीं घट जायगी। इसका कारण यह है कि वंशगत गुण अवगुणों के कारण हम जिस जीवनी-शक्ति के उत्तराधिकारी बनते हैं, उसी के आधार पर हमारी आयु भी घनती है। बाहरी कारणों से उसमें कोई अन्तर नहीं पड़ सकता।

इस ससार में, जीवित वस्तुओं में, वृक्षों से अधिक और किसी की भी आयु नहीं होती। वृक्षों में भी अलग अलग वंश-लक्षण होते हैं। पेड़ पौधों की आयु में भी नाना प्रकार के तारतम्य होते हैं। कोई पौधा केवल एक वर्ष में ही मर जाता है, कोई एक ऋतु में समाप्त हो जाता है और कोई वृक्ष बहुत वर्षों तक जीवित रहता है। आस्ट्रेलिया में एक प्रकार का वृक्ष है, जिसकी आयु वर्तमान समय में १५,००० वर्ष हो चुकी है। इस वृक्ष के वृक्षों का नाम 'मैक्रोजामिया' है। भूमि और जल-वायु आदि विविध कारणों से भी वृक्षों की आयु कुछ सीमा तक घटती-बढ़ती है, वृक्षों पर उन सबों का प्रभाव भी कुछ कम नहीं है, किन्तु वृक्षों की प्रकृति में भी कुछ

तत्त्व है, जिसके कारण कुछ वृक्षा की आयु अधिक होती है और कुछ की कम। एक ही जल-वायु और एक ही भूमि में विभिन्न जाति के वृक्ष विभिन्न समय तक जीवित रहते हैं। अर्थात् वृक्षों में भी वशगत धारा वर्तमान है।

वन्य जन्तुओं में भी वशगत धारा के हिसाब से कोई तो अधिक दिन तक जीवित रहता है और कोई थोड़े दिनों तक। वन्य जन्तुओं को हर घड़ी नाना प्रकार के सफ़टों का सामना करना पड़ता है, तथापि साधारणतया विभिन्न श्रेणी के जीवों की आयु कम अधिक होती है। यदि हाथिया की ठोक-ठीक सेवा की जाय और उहे यत्न पूर्वक रक्खा जाय तो वे नये से सौ वर्ष तक जीवित रह सकते हैं। अश्व की आयु साधारणतया ४५ वर्ष तक की होती है, कुत्ते और बिल्ली बीस वर्ष तक जीवित रहते हैं, बैल तीस वर्ष तक जीवित रहते हैं।

उपनिषदों में मनुष्य की आयु का प्रमाण १०० वर्ष तक कहा गया है। किन्तु महाभारत और पुराणों में मनुष्यों की आयु सहस्र वर्ष तक बताई गई है। ईसाइयों की धर्मपुस्तक 'बाइबल' में भी प्राचीन काल के मनुष्यों की आयु प्रायः सहस्र वर्ष ही बताई गई है। किन्तु किसी किसी का कहना है कि विश्वव्यापी महाप्लावन के पूर्व वर्ष की गणना प्लावन के बाद की गणना से भिन्न थी। 'बाइबल' में ही मूसा आदि कुछ व्यक्तियों की आयु १२० से १८० वर्ष तक बताई गई है।

प्राधुनिक समय में कभी कभी ऐसा सुनने में आया है कि अमुक व्यक्ति की आयु १०५ वर्ष की अथवा १८० वर्ष की है।— ऐसे दृष्टान्तों को छोड़कर वैज्ञानिक रीति से बीमा कम्पनियों में जो गणनाएँ होती हैं, उनसे यह ज्ञात हुआ है कि वर्तमान समय में अमेरिका के संयुक्त राष्ट्र में प्रतिलक्ष व्यक्तियों में केवल एक व्यक्ति १०० वर्ष जीवित रहता है। किन्तु औसतन अमेरिका के

मनुष्यों की आयु पुरुष के लिए ६० वर्ष एवं स्त्री के लिए ६४ वर्ष की है। इसके अतिरिक्त विशेष विशेष वंशों में मनुष्यों की आयु भिन्न भिन्न प्रकार की है। इस बात को देखकर यह धारणा उत्पन्न हुई है कि मनुष्यों की आयु भी वंश परम्परा से प्राप्त जेनि के आधार पर कम या अधिक होती है।

इस नित्य परिवर्तनशील संसार में कोई भी वस्तु अपरिवर्तित अवस्था में नहीं रह सकती। त्रिष्व प्रकृति की भाँति, मनुष्य समाज में और संसार की विभिन्न जातियों में भी धीरे धीरे नाना प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं। १०० वर्ष पूर्व जापान की विशेषता के बारे में किसको क्या पता था। इसी प्रकार आज से १०० वर्ष बाद भी न जाने कौन अज्ञात अथवा ज्ञात जाति समाज के रङ्गमध्य पर अपनी अभावनीय विशेषता का परिचय दे सकेगी।

मनुष्य-समाज में नाना प्रकार के परिवर्तन के साथ-साथ मनुष्यों के आयुकाल में भी परिवर्तन दिखाई देते हैं। विगत १८वीं शताब्दी में, यूरोप में, मनुष्य की आयु औसतन ३५ वर्ष तक की होती थी। ई० सन् १६०१ में यह ५० वर्ष तक पहुँच गई थी। आज, औसतन, मनुष्य की आयु अमेरिका में ६० वर्ष की होती है।

चिकित्साविज्ञान की उन्नति के कारण डिप्थिरिया और कुकुर-खाँसी आदि रोगों से अब १०० में ८० बच्चे बच जाते हैं। ताऊन, हैजा आदि बीमारियों से भी पहले की अपेक्षा आजकल कम आदमी मरते हैं। इस प्रकार पूर्वापेक्षा आजकल अधिक मनुष्य जीवित रहते हैं, किन्तु व्यक्तियों की आयु इन सब बातों से अधिक बढ़ी नहीं। केवल बच्चों के लिए ही यह कहा जा सकता है कि आधुनिक युग में उनके बचने रहने की आशा पहले से बढ़ गई है।

मनुष्यों की मृत्यु कैसे और क्यों होती है, इसका ज्ञान अभी तक विज्ञान को प्राप्त नहीं है। किसी वैज्ञानिक का कहना है

कि मनुष्य-देह में कोई-कोई अंग सड़ने लगता है। दूसरे वैज्ञानिकों का कहना है कि हमारी घमनियों में रक्त प्रवाह की शक्ति कम हो जाती है और उनमें दूसरे प्रकार के भी परिवर्तन हो जाते हैं इसी से मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। ऐसे भी वैज्ञानिक हैं जो कहते हैं कि देह की प्रथियों की शक्ति लुप्त हो जाने के कारण मनुष्यों की मृत्यु हो जाती है। किन्तु वशानुक्रम विज्ञान के अनुसार यह मत सत्रसे प्रयत्न माना जाता है कि वश परम्परा से प्राप्त जेनि के कारण ही मनुष्यों की आयु जन्म के समय से ही निर्दिष्ट हो जाती है। सम्भव है, विशेष विशेष जेनि के कारण, देह के विशेष-विशेष अंग एक नियत समय पर क्षय को प्राप्त होते हों। हृदय यन्त्र का नियन्त्रण, सम्भव है, किसी एक जेनि द्वारा होता हो, अथवा कई एक जेनि के सम्मिलित प्रभाव से देह रूपी यन्त्र के विशेष-विशेष अंग एक साथ नियन्त्रित होते हों।

वैज्ञानिकों ने मनुष्यदेहाश्रित कुछ विशेष-विशेष जेनि की पहचान कर ली है। उनमें ऐसे भी जेनि हैं, जिनके कारण मनुष्यों की मृत्यु हो सकती है। पेड-पौधों और जन्तुओं में भी ऐसे जेनि प्राप्त हुए हैं। ऐसे भी जेनि हैं, जिनके कारण गर्भावस्था में ही अथवा जन्म के थोड़े दिनों के अन्दर ही, जीव की मृत्यु हो जाती है। हमें ऐसे परिवार मालूम हैं, जिनमें बच्चे अत्यल्प समय के अन्दर ही मर जाते हैं। जिन किम्ब श्रेणी के प्राणियों को लेकर वशानुक्रम के सम्बन्ध में परीक्षाएँ की जाती हैं, उनमें ऐसे मृत्युवाही अनेक जेनि का पता चला है। किन्तु मनुष्यों में इस प्रकार के प्राण नाशक थोड़े जेनि का ही पता चला है। इस प्रकार के और भी जेनि की खोज आज तक हो रही है। कभी-कभी ऐसा देखा गया है कि स्त्री गर्भधारण का अनुभव करती है, किन्तु थोड़े ही दिनों में मालूम होता है कि वह गर्भवती नहीं हुई थी।

ऐसे असरों पर वैज्ञानिकगण अनुमान करते हैं कि न्नी यथार्थ में गर्भवती हुई थी, किन्तु मृत्यु-वहनकारी जेनि के कारण उस गर्भ का नाश हो गया। जेनि के कारण ही कभी कभी गर्भ-पात भी हो जाता है।

जिस जेनि के कारण मृत्यु हो सकती है वह जेनि किसी भी देह में अकेले नहीं रह सकती। अथवा यो कहना और भी उचित होगा कि किसी एक जेनि के कारण प्राणी की मृत्यु नहीं हो सकती। ऐसा होना सम्भव ही नहीं, क्योंकि जिस जेनि के कारण मृत्यु हो सकती है, वह जेनि उत्तराधिकार के मूल से घन्चे में आ ही नहीं सकता। भ्रूण में आते ही तो वह भ्रूण को नष्ट कर देगा। इस कारण यह अनुमान किया जाता है कि मृत्यु-वहनकारी जेनि अकेले कार्यकारी नहीं होते। दो अथवा उससे अधिक जेनि सामूहिक रूप में कार्यकारी हो सकते हैं। ऐसे विपाक्त जेनि में से एक को तो पिता की ओर से और दूसरे को माता की ओर से सन्तान प्राप्त कर सकती है। एक प्रकार के रोग में बच्चों की अंगुलियाँ नहीं के बराबर रहती हैं। अनुमान किया जाता है कि वश परम्परा से प्राप्त जेनि के प्रभाव से ही ऐसा होता है। वैज्ञानिकों के निकट एक ऐसा दृष्टान्त उपस्थित है, दो निकट आत्मीय, बच्चेरे भाई-बहनो के सम्मिलन से एक ऐसी कन्या का जन्म हुआ था, जिसके न पैर की एक भी डँगली थी और न हाथ की। दो वर्ष की आयु में इस लडकी की मृत्यु हो गई थी। हीमोफिलिया एक और प्रकार की बीमारी है। इस रोग में एक बार रक्त स्राव आरम्भ हो जाने से फिर रक्त का निकलना बन्द नहीं हो सकता, और रोगी की मृत्यु अनिवार्य हो जाती है। इस रोग की भी उत्पत्ति वश परम्परा से प्राप्त जेनि के कारण ही होती है। इस रोग के मूल में भी दो जेनि ही क्रियाशील रहते हैं। "हीमोफिलिया" रोग युक्त कोई भी व्यक्ति अधिक दिन जीवित नहीं रह सकता।



यदि कुछ जेनि के कारण गर्भावस्था में, अथवा शिशु अवस्था में या बाल्यावस्था में जीव की मृत्यु हो सकती है, तो ऐसे भी जेनि हो सकते हैं जिनके कारण किसी दूसरे नियत समय पर, अधिक अवस्था में मनुष्य की मृत्यु होती हो। अभी तक वैज्ञानिक रीति से इस सिद्धान्त की पुष्टि नहीं हुई है। किन्तु वंश के हिसाब से यह देखा गया है कि किसी किसी घर में लोगों की आयु कम होती है और किसी किसी में अधिक। उत्तराधिकार-सूत्र से जेनि को पाना ही इसका कारण है।

अमेरिका और यूरोप आदि देशों में बीमा-कम्पनियों ने सैकड़ों परिवारों की परीक्षाएँ की हैं। उन परीक्षाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि मनुष्यों की आयु दीर्घ और अल्प होना वंशगत है। बीमा-कम्पनियों का कहना है कि जिस व्यक्ति के माता पिता अधिक दिन जीवित रहें, उस व्यक्ति की आयु अधिक होने की सम्भावना है। जिस वंश में माता पिता अधिक दिन जीवित रहते हैं उस वंश में बीस वर्षवाले व्यक्ति के जीवित रहने की आशा अन्य वंश की अपेक्षा कम से कम ढाई वर्ष अधिक की जा सकती है। जिस वंश में माता पिता ७५ वर्ष तक जीवित रहें उस वंश के ३० वर्ष के व्यक्तियों में से प्रतिशत २६ ६, ८० वर्ष तक जीवित रह सकते हैं। और जिस वंश में माता पिता ६० वर्ष तक जीवित रहें, उस वंश में, प्रतिशत २० ३ व्यक्तियों की ३० वर्ष की अवस्था में यह आशा की जा सकती है कि वे ८० वर्ष तक जीवित रहेंगे।

डाक्टर रेमण्ड पर्ल महोदय ने बहुत-सी परीक्षाएँ की हैं। उनकी दृढ़ राय यह है कि वंश परम्परा से प्राप्त जेनि के आधार पर ही मनुष्यों की आयु कहीं दीर्घ होती है और कहीं अल्प। डा० पर्ल ने यह देखा है कि जो लोग ६० अथवा १०० वर्ष तक जीवित रहे, ऐसे १०० व्यक्तियों में से ८७ के माता अथवा माता-

पिता, दोनों की आयु दीर्घ थी। उनमें से ऐसे बहुत से व्यक्ति थे, जिनकी मातामही, पितामह आदि पूर्वजगण अधिक आयु-वाले व्यक्ति थे।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि पारिपार्थिक वातावरण का प्रभाव भी मनुष्यों पर कम नहीं है। गरीब घरों में बच्चों की मृत्यु बनिश्चय अमीर घरों के अधिक होती है।

इस स्थान पर एक और रहस्यपूर्ण बात का स्मरण रखना अच्छा होगा। साधारणतया लोग यह समझते हैं कि स्त्री की अपेक्षा पुरुष अधिक शक्तिशाली है। किन्तु वास्तविक क्षेत्र में स्त्री पुरुष की अपेक्षा अधिक जीवित रहती है। ई० सन् १९३५ की गणना के हिसाब से अमेरिका की Metropolitan Life Insurance Co ने निम्नलिखित हिसाब लगाया था—

### जीवन की आशा

(यूरोपियनों के लिए)

किस आयु में	पुरुष जीने की आशा कर सकता है	स्त्री जीने की आशा कर सकती है
३० वर्ष	और भी ३८ वर्ष	और भी ४१ वर्ष
४० वर्ष	" २९ वर्ष	" ३२ वर्ष
५० वर्ष	" २० वर्ष	" २४ वर्ष
६० वर्ष	" १५ वर्ष	" १६ वर्ष
७० वर्ष	" ९ वर्ष	" १० वर्ष
८० वर्ष	" ५ वर्ष	" ५६ वर्ष

वैज्ञानिकगण इस खोज में लगे हुए हैं कि हम मृत्यु से कैसे बच सकते हैं। इसी सम्पर्क में आयु के सम्यन्ध में भी खोज हो रही है। बहुत से वैज्ञानिक यह आशा कर रहे हैं कि मनुष्यों की आयु १२० वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। मेचरि

काफ नामक एक रूस के वैज्ञानिक आशा करते हैं कि मनुष्यों की आयु १८५ वर्ष तक पहुँच सकती है।

डा० एलेकमिस फ़ैरेल अमेरिका के एक बड़े भारी वैज्ञानिक हैं। इन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। विज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने अति आश्चर्य-जनक कार्य किये हैं। प्राणि-वेद से इन्होंने मांसपेशी और दूसरे अंग प्रयोगों को काटकर निकाल लिया है और उन्हें घातों में रखकर अपने इच्छानुसार जितने दिन चाहा जीवित रखा, किन्तु जब ये मांसपेशी अथवा जीव-वेद के अंग प्रयोग मनुष्य-वेद के अंग के रूप में रहते हैं, तब इनका स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं रहता है। जीवित वेद में ये अंग किसी एक मूल तत्त्व के नियन्त्रण में रहते हैं, इस कारण उनका जीवित रहना और वृद्धिप्राप्त होना समय और प्रयोजनानुसार होता है। इस दृष्टि से विचार करने पर यह आशा की जा सकती है कि मनुष्य में विज्ञान की सहायता से हमारी आयु अपनी इच्छा पर बहुत कुछ प्रयत्नित रहेगी।

एक और आश्चर्य की बात का उल्लेख करके हम इस अध्याय को समाप्त करेंगे। कुछ ऐसे कीट पतंग हैं, जो कुछ कारणों से मृतवत् हो जाते हैं, किन्तु अनुकूल वातावरण में जन प्रायः क सप्तर्षि में आकर वे पुनः जीवित हो जाते हैं। मृतवत् अवस्था में वे पत्ता की तरह झुंझ-उधर लड्डे रहते हैं, किन्तु जीवित होने पर वे फिर जीवित प्राणियों की तरह आचरण करते हैं। उत्तर अमेरिका में रूस के वैज्ञानिकों ने बर्फ में जमे हुए पेड़-पौधों को पुनः सजीवित कर पाया है। यूरोप में भी कुछ जीवों को बर्फ में रगड़कर यह देखा है कि कुछ समय के लिए वे मृतवत् हो जाते हैं, किन्तु उन्हें पुनः जीवित किया जा सकता है। अर्थात् यदि मनुष्यों को भी बर्फ में डुबकर सौ वर्ष तक मृतवत् रखा जाय, तो सौ वर्ष के बाद उनके जीवन का पुनरागम हो सकेगा।

यहाँ पर अपने देश के दृष्टयोगियों का भी उल्लेख कर देना आवश्यक है। दृष्टयोगियों का दावा है कि उनकी रियाजों के अनुसार मनुष्य अपने इच्छानुसार स्वस्थ एवं जीवित रह सकते हैं। आधुनिक विज्ञान को अभी इस बात का पता नहीं है।

## नवाँ परिच्छेद

### वंश और वातावरण

सोमाटोसाज्म् और जर्मेलादम् अर्थात् जीव-जैद के कोष अथवा जीव-कोष और वीर्य अथवा धीज-कोष—आधुनिक विज्ञान के मतानुसार जीव से ही जीव की उत्पत्ति होती है। जिस अतीत युग में, किस मुहूर्त में सर्वप्रथम प्राण की उत्पत्ति हुई थी, इसका निर्णय आज भी नहीं हो पाया है। किन्तु अनेक परीक्षाओं के परिणाम में यह ज्ञात हुआ है कि प्राणदीन वस्तु में प्राण की उत्पत्ति नहीं हो सकती। प्राण से ही प्राण की उत्पत्ति होनी आ रही है। अति आदिम अवस्था में एक-कोष जीव द्विपरिणत होकर दो कोषों में, अर्थात् दो जीवों में, परिणत हो जाता है। इन दो जीवों की न माता है न पिता, क्योंकि एक कोष से दो कोषों के हो जाने पर प्रथम कोष का अस्तित्व ही नहीं रह जाता है। प्रथम कोष का समस्त पदार्थ इन दोनों नवीन कोषों में आ जाता है। पुनः इन नवीन कोषों का प्रत्येक कोष फिर द्विपरिणत होता है। इस प्रकार अतीत काल से लेकर आज तक जीवनी-शक्ति का अन्वण्ड स्रोत नित्य प्रवाहित होता आया है। इस प्रकार एक हिसाब से जीवनी शक्ति अविनाशी है। प्राथमिक अवस्था में जीव के लिए मृत्यु नहीं थी।

मेघावी नहीं होते। किन्तु यह कैसे कहा जाय कि वश के कारण ही ऐसा होता है, दरिद्रता एवं पारिपार्श्विक वातावरण के कारण नहीं? इसी प्रकार भारतीय वर्णव्यवस्था भी वश के आधार पर अवलम्बित है। यह व्यवस्था भी आधुनिक विज्ञान के अनुसार समर्थन योग्य है अथवा नहीं, आदि आदि प्रश्नों की सीमासा वशानुक्रम-विज्ञान से प्राप्त हो सकती है। इसलिए यह प्रश्न बहुत महत्त्व का है कि वातावरण अथवा वश के प्रभाव में से कौन अधिक महत्त्व रखता है।

कुछ बातों में तो यह अत्यन्त स्पष्ट है कि वश-परम्परा से प्राप्त गुण अगुणों का प्रभाव अर्थात् धीज-कोषों का प्रभाव वातावरण से अधिक महत्त्व रखता है। एक दृष्टान्त लीजिए,—सफेद चुहियों के पेट से यदि सब अण्डाणु निकाल लिये जायें और उसमें काली चुहियों के अण्डाणु रख दिये जायें तो सफेद चुहियों के बच्चे सब के सब काले ही होंगे, सफेद नहीं। बच्चे पैदा हो जाने के बाद ही, दूसरे के अण्डाणु चुहियों के पेट में रख दिये जाते हैं और वे अण्डाणु दूसरे के पेट में रहते हुए भी पूर्ववत् क्रियाशील रहते हैं। इतने भिन्न वातावरण में रहते हुए भी धीजकोष अर्थात् अण्डाणु अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते। इसी प्रकार यदि सफेद गुलाब के फूल की डाल लाल गुलाब के पौधों में लगा दी जाती है तो उस लाल गुलाब के पौधे से सफेद गुलाब के फूल ही निकलेंगे, लाल नहीं। चूहों की भाँति दूसरे प्राणियों के पेट से भी अण्डाणु निकालकर परीक्षा की गई है। इन सब परीक्षाओं के परिणाम में यह निश्चयात्मक रूप से निर्धारित हो जाता है कि धीजकोषों पर पारिपार्श्विक वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। निम्न श्रेणी के जीवों एवं पेड़-पौधों पर और भी अनेक प्रकार की परीक्षाएँ हुई हैं, और उन सब परीक्षाओं के परिणाम में यह प्रमाणित हुआ है कि साधारणतया

धीजकोषों पर वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ता।\* निम्न श्रेणी के जीवों और पौधों को लेकर जैसी परीक्षाएँ हुई हैं, वैसी परीक्षा मनुष्यों पर करना सम्भव नहीं है। किन्तु जो नियम पेड़-पौधों के लिए एवं निम्न श्रेणी के जीवों के लिए लागू हैं, वे नियम मनुष्यों के लिए भी लागू होंगे ऐसा समझना युक्ति-संगत एवं स्वाभाविक है।

प्राणियों पर वातावरण का भी यथेष्ट प्रभाव पड़ता है, इसमें कोई सन्देह नहीं। यदि सगठित एवं व्यापक रूप में शिवा की व्यवस्था की जाय एवं दृष्टि तथा अर्थशाली घरों के लड़कों तथा लड़कियों के लिए समान रूप से रहने और खाने पीने की व्यवस्था की जाय, तब यह पता चलेगा कि वंश के हिसाब से कितने बालक प्रगट बुद्धिवाले निकलते हैं और कितने नहीं। सोवियट रूस में इसकी परीक्षा हुई है और यह ज्ञात हुआ है कि प्राकृतिक कारणों से वंशगत गुण-अवगुणों के उत्तराधिकारी होने के कारण व्यक्ति-व्यक्ति में बहुत अन्तर है। किन्तु सामाजिक क्षेत्र में इस सिद्धान्त का प्रयोग करते समय बहुत सावधान होने की आवश्यकता है। वंशगत गुण-अवगुणों के हिसाब से कहीं भी समाज की व्यवस्था नहीं हुई है। भारतीय वर्णन्यवस्था के आधुनिक रूप में न जाने कितनी त्रुटियाँ आ गई हैं। हमारे समाज में भी आज गुणी व्यक्तियों के लिए उपयुक्त स्थान नहीं है।

बहुत से वैज्ञानिक इस मत के अधिक पक्षपाती हैं कि वंश की अपेक्षा शिवा-दीक्षा और पारिपार्थिक वातावरण का अधिक महत्त्व है। उनका कहना है कि सामाजिक वातावरण और शिवा-दीक्षा के कारण सभी मनुष्य उपयुक्त रूप से शिक्षित किये जा सकते हैं।

\* देखिए—Human Heredity by Baur Fischer & Lewis

वे वंश के फेर में पड़ना नहीं चाहते। वे लोग वैज्ञानिक दृष्टि से इस बात की खोज कर रहे हैं कि वंश के हिसाब से, समान रूप से मानसिक शक्ति आदि के उत्तराधिकारी होने पर भी, पारिपार्श्विक वातावरण के कारण मनुष्यों में विभिन्न शक्तियों का स्फुरण सम्भव होता है। यमज सन्तान को लेकर आज भी परीक्षाएँ हो रही हैं।

यमज सन्तान दो प्रकार की होती हैं। जब एक ही स्त्री अण्डाणु में एक पु-बीजकोप प्रवेश करता है तो कभी-कभी एक ही भ्रूण दो भ्रूणों में परिणत हो जाता है और तब दो बच्चे एक साथ जन्म लेते हैं। ऐसे बच्चों को 'मनोवल ट्विन्स' (Monoval Twins) कहते हैं। एक दूसरे प्रकार के यमज सन्तान होते हैं,—जब दो अण्डाणुओं में दो पु-बीज-कोप अलग अलग प्रवेश करते हैं तब दो बच्चे एक ही पेट में तो जन्म लेते हैं, किन्तु उनका विकास दो भाइयों की तरह होता है। ऐसी यमज सन्तानों को फ्रेटर्नल ट्विन्स (Fraternal Twins) कहते हैं।

'मनोवल' अथवा 'आइडेण्टिकल' (Identical) ट्विन्स एक ही लक्षणवाले होते हैं, फ्रेटर्नल ट्विन्स एक ही लिंग-विशिष्ट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। वे, दोनो लड़के अथवा दोनो लड़कियाँ या एक लड़का और उसकी साथी एक लड़की भी हो सकती है।

वंशानुक्रम की दृष्टि से अर्थात् वंशगत गुण अवगुणा के उत्तराधिकारी होने की दृष्टि से मनोवल ट्विन्स मानों एक ही व्यक्ति के दो शरीर हों। फ्रेटर्नल ट्विन्स मानों दो भाइयों अथवा दो बहनों अथवा एक भाई और एक बहन ने अचानक, एक ही साथ माँ के पेट में जन्म लिया हो। भाई भाई अथवा भाई बहनों में जो अन्तर रहता है, ठीक वैसा ही अन्तर फ्रेटर्नल ट्विन्स में भी रहता है।

मनोरता टिवन्स के विभिन्न अन्न-प्रत्यङ्गों में अत्यन्त आरच्य जनक सादृश्य रहता है। फ्रेटर्नल टिवन्स में उतना सादृश्य नहीं रहता। मनोरल टिवन्स में निम्नलिखित विषयों पर अत्यन्त सादृश्य रहता है—(१) लिङ्ग एक ही प्रकार का होगा, (२) रक्त भी एक प्रकार का ही होगा, (३) रक्त का दबाव (Blood Pressure) एक होगा, (४) नाड़ी की गति एवं श्वास प्रश्वास की गति भी एक प्रकार की होगी, (५) श्रोत्र का रङ्ग एवं दृष्टि-शक्ति एक प्रकार की होगी, (६) देह का रङ्ग, बालों का रङ्ग एवं धारों में यदि कोई चक्र हो तो वे सब एक प्रकार के होंगे, (७) हथेली, पैर के तलवे एवं उँगलियों का ढाँचा एक सा होगा। (८) उनकी लम्बाई, वजन, मस्तक का ढाँचा, एवं मुँह की बनावट एक सी होती हैं। फ्रेटर्नल टिवन्स में एक प्रकार का कोई सादृश्य नहीं होता।

वैज्ञानिकगण, 'मनोरल' एवं फ्रेटर्नल' टिवन्स के धारे में रत्ती रत्ती धारों पर ध्यान देते हैं। वे जानना चाहते हैं कि यदि 'मनोरल' टिवन्स यक्षपन से ही अलग अलग रख दिये जाते हैं, तो उनमें किसी प्रकार की चरित्रगत विभिन्नता उत्पन्न होती है अथवा नहीं। यदि मनोरल टिवन्स के चरित्र अलग अलग रखे जाते पर अलग अलग रूप से विकसित होते हैं, तो यह समझा जायगा कि वंश से वातावरण का प्रभाव प्रबल है। और यदि उनके अलग अलग रखे जाने पर भी उनके चरित्र का विकास एक प्रकार में ही होता है तो यह मानना पड़ेगा कि पारिपार्श्विक वातावरण की अपेक्षा वंश का प्रभाव ही प्रबल होता है। इसी प्रकार फ्रेटर्नल टिवन्स के एक साथ लालित पालित होने पर यदि उनके चरित्र का विकास एक सा ही होता है, तो वंश की अपेक्षा वातावरण का ही प्राधान्य माना जायगा।



यह देखा गया है कि एक ही परिवार में लालित-पालित होने पर भी भाई भाई के चरित्र में जितना सादृश्य रहता है, फ्रेटर्नल ट्विन्स के परस्पर के चरित्र में उनसे अधिक सादृश्य होता है। किन्तु मनोबल ट्विन्स में यह सादृश्य फ्रेटर्नल ट्विन्स की अपेक्षा वहाँ अधिक रहता है।

कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि जन्म के समय मनोबल ट्विन्स में से एक मृत अवस्था में माँ के पेट से निकलता है। यदि मनोबल अर्थात् आइडेण्टिकल ट्विन्स यथार्थ में सर्वोद्भूत रूप से एक ही होते तो जन्म के समय दोनों ही मृत अवस्था में जन्म लेते अथवा दोनों ही स्वस्थ अवस्था में। इस कारण यह अनुमान किया जाता है कि मनाल ट्विन्स भी सर्वोद्भूत रूप से एक प्रकार के नहीं होते एव माँ के पेट में भी वे सर्वोद्भूतरूप, एक ही वातावरण में, नहीं वृद्धि प्राप्त करते हैं।

मनोबल ट्विन्स अर्थात् आइडेण्टिकल ट्विन्स में परस्पर जो अन्तर रहता है उसके भी कारण हैं। भ्रूण कोष के द्विगुणित होने के समय पर भी यह विभिन्नता निर्भर करती है। यदि भ्रूण कोष के वनते ही कोष का विभाजन हो जाता है, तब दोनों यमज सन्तानों में यथार्थ में बहुत बड़ी समता रहती है, माना एक ही जीव दोना देहां में जीवन धारण करता हो। किन्तु यदि भ्रूण की देह बनने में कुछ समय बीत गया हो एव देह के दक्षिण और वाम अङ्गों का बनना प्रारम्भ हो गया हो, तब उस अवस्था में भ्रूण का द्विगुणित होने पर दक्षिण भाग से उत्पन्न बच्चा दूसरे बच्चे से कुछ अधिक पुष्ट होगा एव वह दूसरे बच्चे से कुछ पहले ही जन्म ले सकता है, इस प्रकार यमज सन्तानों में से प्रथम बच्चा दूसरे से वजन में भी कुछ अधिक भारी होगा। इसी कारण यमज सन्तानों में जो बच्चा प्रथम जन्म लगा, वह परवर्ती जीवन में दूसरे से शारीरिक और मानसिक गुणों में भी अधिक परिपुष्ट होगा।

दर्पण में अपने मुख को देखते समय हम अपने मुख के विशेष विशेष लक्षणों को अपने प्रतिबिम्ब में जिस प्रकार देख पाते हैं, उसी प्रकार कभी कभी मनोउल यमज सन्तानों में समान-समान लक्षण दर्पण के प्रतिबिम्ब जैसे बन जाते हैं। अर्थात् जो लक्षण एक के दक्षिण अङ्ग में दिखाई देगा, वही लक्षण दूसरे के वाम अङ्ग में दिखाई देगा।

अति प्राथमिक अवस्था में भ्रूण के विभाजित होते समय यदि विभाजन अपूर्ण रह जाता है तो नाना प्रकार के विचित्र रीति से जुड़े हुए यमज सन्तान जन्म लेते हैं। कभी एक ही देह में दो मस्तिष्क बन जाते हैं, अथवा एक देह में चार हाथ चार पैर निकल आते हैं।

साधारणतया किसी वश में यमज सन्तान अतिक्रम जन्म लेते हैं, अर्थात् यमज सन्तान का होना वंशगत लक्षण है। यूरोप में और अमेरिका के युक्त राष्ट्रों में प्रति ९० में एक यमज सन्तान जन्म लेती है और जापान में प्रति १६० में १ यमज सन्तान होती है। माता की आयु अधिक होने पर ही फ्रैटर्नल ट्विन्स का जन्म सम्भव होता है। कभी कभी किसी किसी माता के एक साथ तीन-तीन बच्चे भी जन्म लेते हैं। कभी तो एक ही अण्डाणु से तीनों जन्म लेते हैं, और कभी कभी दो अण्डाणुओं से तीन के जन्म होते हैं, जिनमें दो तो मनोउल अर्थात् आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं और तीसरा 'फ्रैटर्नल ट्विन' होता है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि प्रति ८,००० जन्म में एक बार तीन यमज सन्तानों का जन्म होता है। कदाचित् एक साथ चार सन्तानों का भी जन्म होता देखा गया है। प्राय ७००,००० जन्म में एक बार चार सन्तानों का एक साथ जन्म होता है। ये सब आँकड़े यूरोप के ही हैं।

सन् १९३४ की मई में अमेरिका में ५ बहनों एक साथ उत्पन्न हुई थीं। लेकर वैज्ञानिक रीति से अत्यन्त सावधानी

के साथ परीक्षाएँ की गई हैं, उनके परस्पर के व्यवहार के प्रति अत्यन्त ध्यान रक्खा गया है और उनके प्रत्येक आचरण का निरीक्षण किया गया है।

उन पाँच यमज लड़कियों में जो सबसे बड़ी थी वह और मधु बहनों के साथ बहुत ही प्रेम से मिलती-जुलती थी। पढन रिताने में, बुद्धि विवेचना में वह सबसे होशियार थी, किन्तु खेल कूद के समय वह दूसरी बहनों को सबसे अधिक मौका देती थी। दूसरी बहन हर बात में अपने को ही आगे रखती थी। वह चाहती थी कि सब बहनों मेरी ओर तावती रहें। तीसरी बहन भोली भाली अपन में मस्त लड़की थी। उसे यह परवा नहीं थी कि कौन खेल-कूद में सबसे आगे बढ आती है, और मुझे अधिक मौका मिलाता है अथवा नहीं। चौथी बहन के बारे में कुछ कहना कठिन था, क्योंकि वह कभी कुछ और कभी कुछ करती थी। पाँचवीं बहन सबसे कमजोर एवं अपटु थी। हर बात में उसे सहायता की आवश्यकता थी। उमरी बड़ी बहन हर बड़ी उसकी सहायता के लिए उसके पास दौड रोड आती थी। जेनि के हिसाब से इन पाँचों लड़कियों की देह में एक ही प्रकार के जेनि थे, किन्तु वास्तविक जगत् में ये पाँचों एक दूसरी से कितनी भिन्न थीं। इस दृष्टान्त से यह भी अनुमान करना अस्वाभाविक नहीं है कि जेनि का आधार पर ही व्यक्तित्व का विकास का समस्त रहस्य उद्घाटित नहीं होता है। आधुनिक विज्ञान पूर्वजन्म को मानता नहीं। सम्भव है, भविष्य में मानना पडे।

पूर्वोक्त पाँच बहनों के सिवा दूसरी यमज सतानो को लेकर भी दूसरी प्रकार की परीक्षाएँ हुई हैं। एक मनोरम यमज सतानो के जन्म के थोडे ही दिनों के अन्दर उनके माता पिता की मृत्यु हो गई। उनके निकट आत्मीयो में से एक ने उन यमज लड़कियो में से एक को पाला, दूसरी को दूसरे ने

पाला। सत्रसे पहले तो परीक्षा करके यह देखा गया कि ये यमज लड़कियाँ मनोमल टिन्स हैं अथवा नहीं। फिर कुछ वर्षों के पश्चात् वे लड़कियाँ एकत्र हुईं तब उनकी बुद्धि की परीक्षा की गई। उनके स्कूल और कालेज की परीक्षाओं के फलों की तुलना की गई। इस प्रकार यह देखा गया कि विभिन्न वातावरण के कारण दोनों बहनों में कुछ कुछ अन्तर हो गया है। अर्थात् वैज्ञानिकों के मतानुसार उपर्युक्त दृष्टान्त से यह सिद्ध हुआ कि वंशगत जेनि की अपेक्षा वातावरण अधिक प्रबल है। किन्तु इन दोनों लड़कियों के चरित्रों में जो अन्तर पाया गया वह बहुत अधिक न था। यह बात सत्य है कि दोनों लड़कियाँ दो प्रकार के वातावरणों में लालित पालित हुई थीं, एक दूसरी में अधिक पीड़ित हो गई थीं एक राइकी के साथ एक परिवार का व्यवहार अच्छा नहीं हुआ था, आदि, आदि कारणों से उनकी प्रकृतियों में अवश्य कुछ अन्तर हो गया था।— इस दृष्टान्त से एक और प्रश्न उदित होता है। ऊपर के दृष्टान्त से हमने केवल इतना ही जान पाया कि दो लड़कियों, वंशपरम्परा से प्राप्त गुण-ध्वगुणों की उत्तराधिकारी समान रूप से होने पर भी, विभिन्न वातावरण में उनके परस्पर के चरित्र और स्वभाव कुछ भिन्न भिन्न हो गये। यह भिन्नता भी अधिक नहीं थी। किन्तु हमारे सम्मुख सत्रसे महत्त्व का प्रश्न तो यह है कि यदि वश के हिसाब से दो व्यक्ति समान रूप से बुद्धिमान् एवं मानसिक तथा प्याग्निक स्वभाव में भी समान न हों तो क्या उनमें स मन्द बुद्धिवाला व्यक्ति, शिक्षा-दीक्षा और पारिपार्थिक वातावरण के प्रभाव से, दूसरे व्यक्ति के, जो दाम्भारिक रूप से अधिक बुद्धिमान् था, बराबर हो सकता है? अर्थात् वंशगत विभिन्नताएँ रहते हुए भी क्या पारिपार्थिक वातावरण के कारण, उपर्युक्त शिक्षा-दीक्षा के कारण, मन्द बुद्धिवाला, क्रूर स्वभाव विशिष्ट व्यक्ति

बुद्धिमान् एव दयालु-स्वभाव-विशिष्ट धन जायगा ? यह बात सत्य है कि यमज सन्तानों को लक्ष्य परीक्षा करने से एक बड़ी सुविधा यह होती है कि ये दोनों वंश के विभाव से तो एक प्रकार के ही गुण-सम्पन्न होंगे, किन्तु इस बात में तो कोई संदेह ही नहीं कि वंशगत उत्तराधिकार-सूत्र में हम तीन गुण अथवा गुणों को, जिसे स्वभाव को प्राप्त करते हैं वे एक विशिष्ट वातावरण के लिए ही सत्य एवं कार्यकारी हैं, सर्वोत्था में वे समान रूप में सत्य नहीं हो सकते।

अध्यापक न्यूमैन (Professor Newman) महोदय बहुत सी यमज सन्तानों की परीक्षा करके इन निष्कर्षों पर पहुँचे हैं—

आइन्स्टीटुटल ट्रिन्स के चरित्र में अर्थात् उनके स्वभाव, उनकी बुद्धि उनके शारीरिक गठन आदि आदि विषयों में इतनी अधिक समानता होती है कि फल वातावरण के आधार पर यह सम्भव नहीं। मरीना ट्रिन्स, अर्थात् एक प्रयोग में उत्पन्न दो यमज सन्तान यदि अलग अलग रहकर भिन्न भिन्न वातावरण में लातिन पालित होते हैं, तो भी उनका पारस्परिक मेल जैसे प्रोटेर्नल टिग के पारस्परिक पारिवाहिक मेल की अपेक्षा एक अधिक होता है जो एक ही परिवार में, एक ही वातावरण में लातिन पालित होते हैं। इस कारण यह अनुमान किया जा सकता है कि वंश परम्परा से प्राप्त गुण अरुण के कारण मनुष्य का चरित्र बहुत शुद्ध बनता है। इसके साथ-साथ यह भी स्मरण करना आवश्यक है कि आइन्स्टीटुटल ट्रिन्स में नितनी शारीरिक समता है, उनकी समता मानसिक अथवा साधारण व्यक्तित्व के दार में नहीं है। सत्तेप में अध्यापक न्यूमैन का कहना है—शारीरिक लक्षणा के सम्बन्ध में वातावरण की अपेक्षा वंश का प्रभाव अधिक होता है, किन्तु व्यक्ति की बुद्धि के विकसित होने में वंश की अपेक्षा वातावरण का प्रभाव अधिक प्रबल होगा है। शिक्षा

दीक्षा के बारे में वातावरण का प्रभाव और भी प्रभावशाली होता है, और व्यक्तित्व एवं साधारण स्वभाव के विकसित होने में पारिपार्श्विक वातावरण का प्रभाव सर्वापेक्षा प्रबल प्रमाणित हुआ है।

अध्यापक जे० लैंग ने भी यमज सत्तानो को लेकर परीक्षाएँ की हैं। उनकी परीक्षा का फल दूसरों से कहीं भिन्न है। अध्यापक लैंग ने ऐसे दृष्टान्त उपस्थित किये हैं, जिनसे यह अव्यर्थ रूप से प्रमाणित होता है कि वश के आधार पर हम जिन प्रवृत्तियों के उत्तराधिकारी होते हैं, उनके कारण हमारा जीवन माना पहले से ही एक बँधे हुए रास्ते पर चलने के लिए निश्चय रहता है। अध्यापक लैंग ने अपनी परीक्षाओं के फल 'क्राइम एंड डेस्टिनी' (Crimes Destiny) नामक पुस्तक में लिखे हैं। उक्त पुस्तक में स एक दृष्टान्त का उल्लेख यहाँ पर किया जाता है। एक परिवार में दो यमज लड़कियों का जन्म हुआ। किंतु घटनाचक्र के फेर में पड़कर उन दोनों लड़कियों में से एक ने स्कूल और कालेज की शिक्षा पाई, एवं बाद को उसे स्कूल में पढ़ाने का काम मिल गया। दूसरी लड़की का उपयुक्त शिक्षा नहीं प्राप्त हुई, एवं अल्पशिक्षित होकर वह किसी कारखाने में काम करने लग गई। कुछ दिनों के पश्चात् सहसा एक दिन दोनों लड़कियाँ दोनों अलग अलग जगहों से अपना अपना काम छोड़कर चली आईं। दोनों ने ही अपने अपने ऊपरवाले अफसरों से झगडा करके नौकरियाँ छोड़ दी थीं। इससे भी आश्चर्य की बात यह थी कि दोनों ने ही ठीक एक ही समय में नौकरियाँ छोड़ी थीं। उन दोनों लड़कियों के जीवन में इसी प्रकार और भी घटनाएँ हुईं, जिनके कारण हमें यह स्वीकार करना ही पड़ेगा कि वशागत गुण अवगुणों के कारण हमारा जीवन पहले से ही एक निर्धारित रास्ते पर चलने के लिए थोडा-बहुत विवश रहता है। पारिपार्श्विक वातावरण एवं शिक्षा दीक्षा

के कारण जीवन में अवश्य कुछ परिवर्तन हो जाते हैं, किन्तु साधारण रीति से हमारा जीवन एक निर्धारित गति पर चलने के लिए थोड़ा बहुत बाध्य रहता है। भारतीय फलित ज्योतिष के अनुसार यह कहा जाता है कि समस्त जीवन की होनेवाली घटनाएँ प्रकृत सम्भावना के रूप में पहले से ही वर्तमान रहती हैं। किन्तु पारिपार्श्विक घातावरण के कारण व्यक्तिगत उद्यम उद्योग के परिणाम में उक्त सम्भावनाओं में कुछ कुछ परिवर्तन हो जाता सम्भव है। किन्तु साधारणतया ऐसे दृढ़चित्त कर्मशील व्यक्ति संसार में दुर्लभ हैं। आधुनिक वैज्ञानिकगण प्रख्यापक लैंग के प्रमाणों को स्वीकार करने में कुछ हिचकते हैं, किन्तु लैंग के मत को वे लोग एकदम अस्वीकार नहीं कर पाते। उन लोगों का केवल इतना ही कहना है कि लैंग ने थोड़े दृष्टान्तों को लेकर एक व्यापक परिणाम निकाला है। वे दूसरे दृष्टान्तों के आधार पर लैंग के मत में कुछ सुधार की आवश्यकता अनुभव करते हैं। इस स्थान पर हम एक और घात का उल्लेख करना आवश्यक समझते हैं। भारत में एक संन्यासी हो चुके हैं जो सोऽह स्वामी के नाम से प्रसिद्ध थे। अपनी जपानी में वे सरक्स के खिलाड़ी थे। सरक्स में रहते समय शेर के साथ खेला करते थे और कभी-कभी खेलत समय वे अपने मुख को शेर के मुख में अनायाम रख देते थे। उनके एक पड़े भाई थे। वे संन्यासी हो गये थे। अब साधारण दृष्टि से तो लोग यही कहेंगे कि एक भाई संन्यासी हुए और एक भाई खिलाड़ी। किन्तु सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर यह जान पड़ता है, कि जो भाई संन्यासी नहीं हुए, उन्हें भी जीवन की माया न थी। देखने में तो वे सरक्स के खिलाड़ी थे किन्तु अन्तःप्रकृति में वे भी निर्माही थे एवं उत्तर काल में वे भी संन्यासी ही हो गये। इस प्रकार ऊपर से देखने में दो व्यक्तियों के चरित्र भिन्न जान पड़ सकते हैं किन्तु सूक्ष्म दृष्टि से

दखने पर उन प्रतीयमान दोनों विभिन्न चरित्रों में युनियादी रीति से कुछ समताएँ भी दीख पड़ेंगी। इस प्रकार सूत्र रीति में विचार करने की आवश्यकता है।

यमज सन्तानों का एक और दृष्टान्त यहाँ दे देना आवश्यक है। वार्टटज नामक एक वैज्ञानिक ने भी यमज सन्तानों का लक्ष्य परीक्षाएँ की हैं। उनकी परीक्षित दो घटनाओं का कान की बीमारी हो गई थी। उन दोनों यमज घटने का एक ही आयु में यह बीमारी हो गई थी, अच्छी हो जान के बाद फिर उन्हें एक ही आयु में कान का रोग उत्पन्न हो गया। दोनों के कान एक ही प्रकार से घटने लगे थे। इसका तात्पर्य यह है कि दो व्यक्तियों के स्वतन्त्र जीवन एक ही सूत्र से घँधे हुए थे एवं हम मनुष्य, अपने को अतिना भ्रष्ट समझते हैं, वास्तव में उतने स्वतन्त्र नहीं हैं। वैज्ञानिक लोग के सिद्धांत के साथ वैज्ञानिक वाद्यों का दृष्टान्त मिलता-जुलता है।\*

## दसवाँ परिच्छेद

### अदृष्टवाद और पुरुषकार

यदि जन्मगत सत्कारों के आधार पर ही हमारा जीवन बनता सिगडता है, तो क्या एक मूठे अदृष्टवाद के मोह में हमें निश्चिष्ट रह जाना पड़ेगा? अपने पद्यम के सहारे क्या हम अपना जीवन बना नष्ट करके ?

इस सम्बन्ध में हजारों बातों की एक बात यह है कि समाज में सत्र प्रकार की उन्नति के रास्ते सब के लिए समान रूप से खुले रहने चाहिए। जन्म के कारण किसी के लिए भी उन्नति का मार्ग



बन्द नहीं रहना चाहिए। किन्तु विज्ञान की दृष्टि से इस बात की स्वीकार होनी नितांत आवश्यक है कि जन्म से ही मनुष्य विशेष विशेष गुणों अथवा गुणों और संस्कारों को लेकर ही जीवन प्रारम्भ करता है। जन्म से ही एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से अधिक बुद्धिमान्, अधिक स्मृति-शक्ति-सम्पन्न, अधिक मेधावी हो सकता है। इसके अनेक दृष्टान्त प्राप्त हैं।

कुछ दिन पूर पोलैण्ड में एक दम्पती अमेरिका गयी थी। उस दम्पती के लड़के साम्यूल रेशेस्वी, की आयु उस समय, केवल आठ वर्ष की थी। दूसरे समवयस्क बालकों से रेशेस्वी कुछ अधिक दुर्बल एवं छोटा जँचता था। किन्तु यही छोटा सा बालक एक रात, करीब बीस या तीस बड़ी आयु के शतरंज के खिलाड़ियों से अकेला, एक ही समय खेला था। उन सब खिलाड़ियों को उस बालक ने परास्त किया था, केवल दो व्यक्तियों के साथ उसकी याजी बराबर रही।\*

इसी प्रकार एक बालक गणितशास्त्र में अत्यन्त पारदर्शी था। वह बड़े बड़े प्रश्न यों ही खजानी बिना श्रम के मेरेएज में हल कर देता था।

ऐसे भी बालकों और बालिकाओं ने जन्म निये हैं जिन्होंने सद्गीत-शास्त्र में असाधारण दक्षता दिखाई है।

इन सब दृष्टान्तों से यह मानना ही पड़ेगा कि जन्म के साथ ही मनुष्य अपने अपने विशेष विशेष संस्कारों को लेकर ही आते हैं। पारिपात्रिक वातावरण के कारण वे संस्कार कहीं तो विकसित हो जाते हैं और कहीं विकसित नहीं हो पाते। हमारी सामाजिक व्यवस्था ऐसी नहीं है, जिसमें उपयुक्त व्यक्ति को योग्य अवसर प्राप्त हो सके।

इतिहास में यह भी देखा गया है कि अत्यन्त प्रतिकूल वातावरण के बीच नडे नडे प्रतिभावान् व्यक्ति अपनी अतर्निहित जन्मत शक्ति के आधार पर जीवन को सफल बना गये हैं। उनका व्यक्तित्व वातावरण का परिणाम नहीं था। वशानुक्रम विज्ञान के अध्यापकगण कहते हैं कि जेनि के विभिन्न रीति से सम्मिश्रित होने से ऐसे असाधारण प्रतिभावान् व्यक्तियों का जन्म होता है। वे पूर्व जन्म को स्वीकार नहीं करते। सम्भव है, कुछ दिनों के पश्चान् पूर्व जन्म के धारे में भी वैज्ञानिकों को कुछ तथ्य मिल जायें।

## ग्यारहवाँ परिच्छेद

### विकासवाद में इच्छा-शक्ति का प्रभाव

विक्रमवाद के साथ वशानुक्रम विज्ञान का अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध है। उसका उद्देश हमने पूर्व परिच्छेदा में कर दिया है। इस स्थान पर प्रश्न यह है कि अपने जीवनकाल में हम जिस विद्या का अर्जन करते हैं, अथवा जीवन भर में हम जो अभ्यास बना लेते हैं, उनका प्रभाव हमारी सन्तानों पर भी पडता है अथवा नहीं ? अर्थात् अपने पूर्वजों से हम जिन जेनियों के उत्तराधिकारी बनते हैं, क्या अपने जीवनकाल में, अपने कर्मों द्वारा हम उन जेनियों में परिवर्तन ला सकते हैं ? जेनि के परिवर्तित हुए दिना हमारी सन्तान कैसे हमारे कर्मों की उत्तराधिकारिणी बन सकती हैं ?

अब हमें यह देखना है कि विकासवाद के साथ इन सब प्रश्नों का क्या सम्बन्ध है।—विकासवाद की ध्योरी में यह प्रश्न खड़ा होता है कि प्रकृति में विचित्रता कैसे उत्पन्न हुई ? किसी एक जाति

है। इस प्रथा के अनुसार पुँड्रिगेन्द्रिय के अगल भाग का चमड़ा काट दिया जाता है। सहस्रा वर्षों से यह प्रथा चली आ रही है, किन्तु इतने दिनों की चेष्टा के बाद भी मुसलमाना और यहूदियों के बोज कोपों में कोई परिवर्तन उत्पन्न नहीं हुआ। तथा कथित असभ्य जातियों में देह पर तरह-तरह की तररीरें बनाते हैं, वे भी वशपरम्परा में सन्तानों में अपने से नहीं चली आती। अर्थात् जीवन-काल के उपार्जित अभ्यास के परिणाम में जीन कोष में कोई परिवर्तन नहीं होता।

एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक अंगोस्ट वाईजमैन महोदय ने इस विषय को लेकर बहुत परीक्षाएँ की हैं। वे बीस पुस्तक तक चुड़िया की पूँछ काट देते रहे, किन्तु बीस पुस्तक के बाद भी चुड़ियों की पूँछ छोटी नहीं हुई। इसके विपरीत रूस में एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक पैरलन ने भी इस विषय का लेकर परीक्षाएँ की और उन परीक्षाओं के परिणाम में उन्होंने यह कहा कि जीवन-काल के अभ्यास के परिणाम में जो संस्कार बनते हैं, वे सन्तान सन्ततियों में भी दिग्राई देते हैं। इसके उत्तर में दूसरे वैज्ञानिकों ने यह कहा कि पैरलन की थ्योरी के अनुसार उनकी इस नवीन परीक्षा के परिणाम में कुछ असमझस पड़ता है। कडिशड रिफ्लेक्स व्योमी के अनुसार स्नायु मण्डली की कार्य प्रणाली एक विशेष धारा में अथवा मार्ग से सञ्चालित होती रहती है। किसी एक विशेष समय में घण्टी की आवाज की जाती है और उन्ही समय एक कुत्ते की आहार सामग्री भी दी जाती है। इस प्रकार कुछ दिनों के पश्चात् निर्धारित समय पर घण्टी तो बजाई जाती है किन्तु आहार-सामग्री नहीं दी जाती। इस अवस्था में आहार-सामग्री के न रहने पर भी कुत्ते की जिह्वा से लार टपकती है। अर्थात् एक निर्धारित समय पर घण्टी बजने के साथ जिह्वा से लार टपकने का कोई साक्षान् सम्बन्ध नहीं है, किन्तु एक विशेष रूप के

अभ्यास के कारण घण्टी बजने के साथ साथ कुत्ते की जिह्वा से लार टपकने लगती है। इस प्रकार की लार टपकने को कंदिशड रिपनम्स कहते हैं। पैबलन महोदय ने तीस पीढ़ियों तक अपने जीवों को लेकर परीक्षा की। उन परीक्षाओं के परिणाम में पैबलन ने देखा कि तीस पीढ़ियों के बाद उनके जन्तु उनकी ही हुई शिक्षा को पूर्णपेक्षा और शीघ्र सोच लेते थे। अर्थात् कंदिशड रिपनम्स के सिद्धांतानुसार जिस कार्य क होने में स्नायु मण्डलों को कार्य प्रणाली एक विशेष मार्ग पर संचालित होती है, तीस पीढ़ियों की शिक्षा के पश्चात् वह बात नहीं रह गई। इसका तात्पर्य यह होता है कि प्राणियों के व्यवहार की व्याख्या के लिए कंदिशड रिपनम्स की श्रमो की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार पैबलन की दो प्रकार की परीक्षाओं के परिणाम का प्रयोग एक दूसरे के निरुद्ध किया जा सकता है। इसका अतिरिक्त दूसरे वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि पैबलन के जन्तुओं में शिक्षा ग्रहण करने का शक्ति बढ़ नहीं गई, वरन् पैबलन और उनके साथियों में ही शिक्षा-दान करने की शक्ति बढ़ गई।

पैबलन के अतिरिक्त अध्यापक मैकडुगल ने भी चूहे पर दूसरे प्रकार की परीक्षा की। यह परीक्षा भी कई पीढ़ियों तक हुई। मैकडुगल के कथनानुसार यह प्रमाणित होता है कि जीव के अपने जीवन-काल में जो नवीन संस्कार उत्पन्न होते हैं, उन संस्कारों को उत्तराधिकार-सूत्र से उस जीव की संतानें भी प्राप्त करती हैं। दूसरे वैज्ञानिक मैकडुगल माहब की परीक्षाओं को स्वीकार नहीं करते।

क्या मद्यपायी मनुष्य की संतान भी मद्यपायी होगी? इस प्रश्न को लेकर भी बहुत परीक्षाएँ हुई हैं। किन्तु मनुष्यों को लेकर परीक्षा करना सम्भव नहीं। दूसरे निरुद्ध जीव-जन्तुओं पर नाना प्रकार की परीक्षाएँ हुई हैं। वैज्ञानिकों ने कई पीढ़ियों तक खरगोशों को पिये, चूहे आदि आदि जन्तुओं को शराब पिलाकर

देखा है कि उनके जेनि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। स्त्री जन्तुओं को मद्य पिलाकर देखा गया कि उनके बच्चे भ्रूण अवस्था में ही अधिकांश निनष्ट हो गये, किन्तु जो जीवित रहे वे दूसरे बच्चों से अधिक बलिष्ठ हुए।\* किन्तु पण्डित ब्रुहम ने जो परीक्षाएँ की हैं, उनसे यह ज्ञात होता है कि जब बहुत दिना से चूहों को मद्य पिलाया जाता है और उनसे ऐसी चुहियों के साथ जोड़ा लगाया जाता है जिन्हें शराब नहीं पिलाई गई है तो चुहियों की अपेक्षा चूहे अधिक जन्म लते हैं, किन्तु जब चूहा और चुहियों, दोनों को ही अत्यधिक मात्रा में शराब पिलाई जाती है तब उनकी सन्तान को बहुत आघात पहुँचता है, भ्रूणावस्था में ही बहुतों की मृत्यु हो जाती है और जो सन्तान जन्म लती भी हैं वे दूसरों की अपेक्षा दुबल होती हैं और कभी कभी विकलांग भी होती हैं। किन्तु इस स्थान पर एक बात का स्मरण रखना अत्यन्त आवश्यक है। इन परीक्षाओं में चूहा चुहियों को जिस अत्यधिक मात्रा में शराबी बनाया जाता है, मनुष्य में इतनी शराब पीनेवाले एक भी व्यक्ति का मिलना कठिन है। इस प्रकार अत्यधिक मद्य के प्रभाव से ही जेनि में परिवर्तन उत्पन्न हात हैं। इस परिवर्तन को जीन के लिए बल्याणकारी भी नहीं समझ सकते। जेनि के इस प्रकार परिवर्तित हो जाने को पारिभाषिक शब्द में म्यूटेशन (Mutation) कहते हैं।† आगे चलकर म्यूटेशन के बारे में विस्तृत आलोचना की जायगी। इस स्थान पर एक और दृष्टान्त का उल्लेख कर देना आवश्यक है। इस बात को कोई भी वैज्ञानिक श्रमयोगी नहीं कर सकता कि व्यक्तियों में दो प्रकार के जेनि रह सकते हैं, एक डॉमिनान्ट (Dominant) अर्थात् व्यक्त, और

\* देखिए—You Heredité P 328

† देखिए—Human Heredité I p 9 99

दूसरा रिसेसिव ( Recessive ) अर्थात् सुप्त । जिन शारीरिक आवेष्टन में एक प्रकार का जेनि क्रियाशील रह सकता है, उसी आवेष्टन में, दूसरे प्रकार का जेनि भी, अव्यक्त, किन्तु जीवित एवं अविकृत रूप से रह सकता है । श्वेत शरीरवाले जीव की देह में कृष्ण वर्ण उत्पन्न करनेवाला जेनि वर्षों तक रहने पर भी उसमें कोई परिवर्तन उत्पन्न नहीं होता ।

म्यूटेशन और विकासवाद—विकासवाद की ज्योरी में, नयीन की उत्पत्ति कैसे होती है, इस प्रश्न का अत्यन्त महत्त्व है । किन्तु इस प्रश्न का उत्तर आज तक प्राप्त नहीं हुआ है । अध्यापक मॅरगन् और अध्यापक मूलर महोदयों ने 'एक्स रे' आदि किरणों के आघात से जेनि में नाना प्रकार के परिवर्तन उत्पन्न किये हैं । प्रायः सभी आधुनिक वैज्ञानिक म्यूटेशन के आधार पर विकासवाद की व्याख्या करना चाहते हैं । "एक्स रे" के अतिरिक्त एक और प्रकार की किरणें हैं, जिनका पारिभाषिक नाम 'कॉसमिक रेज' है । ये किरणें यहाँ से आती हैं, इसका आज भी निर्णय नहीं हो पाया है । ये किरणें समतल भूमि की अपेक्षा पहाड़ों में एवं आकाश के उच्च स्तरों में अधिक घन रूप से निपतित होती हैं । हवाई जहाजों पर केले पर की मन्त्रियों को आकाश में १३ मील ऊपर ले जाया गया था । उस उच्च आकाश में, समुद्र के स्तर की अपेक्षा पाँचगुना अधिक म्यूटेशन होता है ।—किन्तु अनेक वैज्ञानिक म्यूटेशन के आधार पर विकासवाद की व्याख्या सफल नहीं समझते । उसका प्रथम कारण यह है कि म्यूटेशन से, अधिकांश समय, प्राणियों का विकास नहीं हो सकता, अधिकांश समय म्यूटेशन के कारण विकलाङ्ग प्राणियों की उत्पत्ति होती है, जीवन संग्राम में वे विजयी नहीं हो सकते । कदाचित् सहस्रों में एकआध बार म्यूटेशन के परिणाम में उच्चतर जीव की उत्पत्ति होती हो । किन्तु इस उच्चतर जीव से अपनी

श्रेणो के जीव की उत्पत्ति कैसे हो ? कारण विनाह के परिणाम में इस उच्चतर जीव का वश निम्न दिशा की ओर अव-पतित हो सकता है।

अधिकांश समय म्यूटेशन के कारण जीव-देह में जेनि का संख्या पूर्वापेक्षा कम हो जाती है। किस कारण म्यूटेशन उत्पन्न होने हैं, इसका अभी तक कोई ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। प्रकृति में अस्मात् म्यूटेशन उत्पन्न हो जाते हैं।

म्यूटेशन प्रायः तीन प्रकार के होते हैं,—(१) फेक्टर म्यूटेशन उसे कहते हैं, जहाँ क्रोमोसोम के जेनि में परिवर्तन उत्पन्न हो जाते हैं। (२) दूसरे प्रकार के परिवर्तन, क्रोमोसोमों के दुगुने अथवा तीन गुने हो जाने के कारण उत्पन्न होते हैं। (३) तीसरे प्रकार का म्यूटेशन वह है, जहाँ विभिन्न क्रोमोसोमों के जेनि में बहुत प्रकार के लेन-देन हो जाते हैं,—इस प्रकार के परिवर्तन की रीति को फ्रिक्शन, अर्थात् विभिन्न प्रकार के सम्मिश्रण एवं म्यूटेशन के बीच का एक प्रकार कहा जा सकता है।

इन तीनों प्रकार के म्यूटेशनों में से प्रथम प्रकार का म्यूटेशन, जिसके कारण प्रकृति में यथार्थ नवीन की उत्पत्ति होती है, जीव की क्रमोत्रति के लिए अधिकांश समय हानिकारक ही होता है। जो हो, अधिकांश वैज्ञानिक यह समझते हैं कि विकासवाद की व्याख्या केवल म्यूटेशन के आधार पर ही सम्भव है, अन्यथा नवीन की कैसे उत्पत्ति होती है, इस समस्या की मीमांसा सम्भव नहीं।

लुगो डी० ब्राइस ने ही सर्वप्रथम म्यूटेशन के सिद्धान्त की व्याख्या की थी। इसके पूर्व पण्डित वाइज़मैन ने इस सिद्धान्त का प्रचार किया था कि धोज कोष में, अर्थात् जर्मप्लाज्म में, बाहरी कारणों से कोई परिवर्तन नहीं हो सकता।

इनके विपरीत ई० ए० ल्यू० मैकज़ाड्ड, ई० एस० रसेल, डबल्यू० मैकडुगल आदि दूसरे बड़े-बड़े वैज्ञानिक इस सिद्धान्त के पक्षपाती

हैं कि जीव, अपने जीवनकाल में, अपनी इच्छा और चेष्टा के कारण अपनी देह में ऐसे परिवर्तन ला सकता है कि उसके सन्तान भी उन परिवर्तनों के उत्तराधिकारी बन सकते हैं।

वाइज़मैन महोदय ने अपने पत्र के समर्थन में दो प्रकार की युक्तियाँ उपस्थित की थीं। उनकी एक युक्ति यह थी कि अभ्यास के कारण देह में अर्थात् जीव-कोषों में जो परिवर्तन उपस्थित होते हैं, वे फिर किस प्रकार बीज-कोषों में (अर्थात् जर्मप्लाज़म में) भी सक्रामित किये जा सकते हैं? अर्थात् जीव-कोषों के परिवर्तनों से कैसे बीज-कोषों में भी परिवर्तन उत्पन्न होते हैं, इसका कोई लक्षण अथवा परिचय हमें प्राप्त नहीं है। उनकी दूसरी बात यह थी कि चूहों की पूँछ काट काटकर, ३० पीढ़ियों में भी, उन्होंने चूहों में छोटी पूँछवाले चूहों को उत्पन्न नहीं कर पाया। मैकब्राइड इसके उत्तर में यह कहते हैं कि पूँछ काट लेने से प्राणी में कोई अभ्यास तो बनता नहीं। जब किसी नवीन परिस्थिति में, अपनी चेष्टाओं के कारण, प्राणी में कोई नवीन अभ्यास उत्पन्न होता है, तो उसी अभ्यास के कारण ही जीव के बीज-कोषों में परिवर्तन उत्पन्न हो सकता है, अन्यथा नहीं। इसी प्रकार सुन्नत करने की प्रथा से भी किसी अभ्यास की उत्पत्ति नहीं होती है। उक्त प्रथा के कारण मनुष्यों को किसी प्रकार का नवीन अभ्यास डालने की कोई आवश्यकता नही होती है। इस कारण वाइज़मैन की परीक्षा से यह प्रमाणित नहीं होता है कि नवीन परिस्थितियों में, अभिनव उद्यम के कारण, नवीन अभ्यास के परिणाम में, मनुष्य के बीज-कोषों में भी परिवर्तन उत्पन्न हो जाते हैं—यह सिद्धान्त भ्रमात्मक है। वाइज़मैन की प्रथम युक्ति के उत्तर में मैकब्राइड महोदय कहते हैं कि माता पिता से प्राप्त क्रॉमोसोमों से कैसे जीव के अग प्रत्यग बनते हैं, इसका भी ज्ञान आज हमें प्राप्त नहीं है, यद्यपि क्रॉमोसोमों से ही जीव-देह का प्रत्येक अग प्रत्यग बनता है, इसमें कोई सन्देह नहीं है।



मैक्नाइड आदि वैज्ञानिकों की राय में, म्यूटेशन के सिद्धान्त से भी विकासवाद अर्थात् क्रमोत्पत्तिवाद की व्याख्या युक्ति-संगत नहीं प्रतीत होती है। इन वैज्ञानिकों का कहना है कि म्यूटेशन तो रोग से ही उत्पन्न होता है। मैक्नाइड आदि वैज्ञानिकों की राय में ह्यूगो डी० ब्राइस की परीक्षाएँ झुटि पूर्ण हैं।

टर्नियर नाम के वैज्ञानिक ने अपनी नयी परीक्षाओं के आधार पर यह प्रमाणित करने की चेष्टा की है कि आभ्यन्तरिक दुर्बलता के कारण कभी-कभी बीजकोषों में भी दुर्बलता उत्पन्न होती है। इसी दुर्बलता के कारण बीजकोषों में भी परिवर्तन उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे परिवर्तन को ही म्यूटेशन कहा जाता है। म्यूटेशन के कारण जीव की उत्पत्ति न होकर अधिकांश समय उसकी अवनति ही होती है। बहुवर्षीयापी परीक्षाओं के आधार पर टर्नियर उक्त सिद्धांत पर पहुँचे हैं। अभी ये परीक्षाएँ समाप्त नहीं हुई हैं। इस बात को तो सभी वैज्ञानिक स्वीकार करते हैं कि म्यूटेशन के कारण अधिकांश समय प्राणी की अवनति होती है। अर्थात् म्यूटेशन उत्पत्ति का लक्षण नहीं है।

लामार्क, डारविन आदि कुछ पहले के वैज्ञानिक एवं वर्तमान काल के जीवित वैज्ञानिक—मैक्डुगल, मैक्नाइड, ई० एस० रॉसेल आदि इस पक्ष का समर्थन करते हैं कि जीव, अपने जीवनकाल में, अपनी चेष्टा एवं अभ्यास के कारण अपने बीज-कोषों में परिवर्तन ला सकते हैं, किन्तु ये परिवर्तन इतने सूक्ष्म एवं अल्प होते हैं कि इनके प्रभाव के स्पष्ट रूप से प्रकटित होने में कई पीढ़ियों लग जाती हैं। इस कारण साधारणतया यही कहना पड़ता है कि वातावरण के कारण जीव में जो स्थायी परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसकी अपेक्षा पूर्वजों से प्राप्त जेनि के आधार पर वंशानुक्रम की धारा का ही मनुष्यो में अधिक प्रभाव है। व्यवहार में, वातावरण का अपेक्षा वंशानुक्रम का ही प्रभाव, मनुष्य पर अधिक देखा पड़ता है। एक वैज्ञानिक के मतानुसार मनुष्य पर शिक्षा दीक्षा, सामाजिक रीति

नीति, जलवायु आदि पारिपार्श्विक वातावरण का प्रभाव प्रतिशत दम (१०) और वंशानुक्रम की धारा का प्रभाव प्रतिशत नन्वे (९०) होता है।

अत्यधिक मद्यपान से भी बीजकोषों में परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है और उससे वंश की अयोगति होती है। अत्यधिक मद्यपायियों की सन्तान साधारणतया रोगी, मूर्ख आदि होती हैं। स्त्रियों पर मद्यपान का और भी बुरा प्रभाव पड़ता है।

## वारहवाँ परिच्छेद

### वंशानुक्रम और स्वास्थ्य

जीवित और जड वस्तु में यही अन्तर है कि जीवित वस्तु अपने पारिपार्श्विक वातावरण से, अपने जीवनधारण के अनुकूल रस और पदार्थ संप्रद्व करती रहती है, एवं प्रतिकूल वातावरण से बचती रहती है। जड पदार्थ में इस प्रकार वातावरण के साथ उसका न कोई सघर्ष होता है, और न कोई लेन-देन। फलतः पारिपार्श्विक वातावरण के साथ जीव का जिस दिन लेन-देन समाप्त हो जाता है, उस दिन उसकी मृत्यु हो जाती है।

जीव के लिए पूर्ण रूप से स्वस्थ होने का अर्थ है, पारिपार्श्विक वातावरण के साथ उसका परिपूर्ण सामञ्जस्य स्थापित होना। इस सामञ्जस्य में जितनी कमी रह जाती है, जीव के पूर्ण रूप से स्वस्थ होने में भी उतनी कमी रह जाती है। इस दृष्टि से कोई भी एक व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं है, कारण पारिपार्श्विक वातावरण के साथ किसी जाव का परिपूर्ण सामञ्जस्य नहीं है। कोई जीव, इस दृष्टि से, दूसरे जीव से अधिक स्वस्थ है, और कुछ अन्य जीवों से कम। इस सिद्धान्त के अनुसार, जीव विज्ञान की दृष्टि से, स्वास्थ्य एक रोग में कोई विभाजक रेखा नहीं कठिन है।

जिस समय जीव के साथ पारिपार्श्विक वातावरण का सामञ्जस्य स्थापित नहीं हो पाता है और जीव के लिए प्राण धारण करना

कठिन हो जाता है, उस समय कहा जाता है कि जीव रोग प्रस्त हो गया है। जीवन धारण के लिए कुछ साधारण सी असुविधा हो जाने को रोग नहीं कहा जायगा। यथा—यदि हम फूलों के रङ्ग को ठीक-ठीक पहचान नहीं पाते तो उससे जीवनधारण करने में विशेष कठिनाई नहीं होती है। इस कारण इसे दोष कह सकते हैं। किन्तु इसे रोग कहना ठीक नहीं होगा। सर्वप्रथम एक रूस के वैज्ञानिक न ई० सन् १८९५ में स्वास्थ्य के विषय में स्पष्ट रूप से पारिपाश्विक वातावरण के साथ सामञ्जस्य की बात कही थी। किन्तु इस सामञ्जस्य का अर्थ जीवित रहना और अच्छी तरह जीवित रहना होगा।

स्वास्थ्य का एक और भी तात्पर्य है। किसी व्यक्ति में यदि सन्तान-उत्पादन की शक्ति न रहे तो उस व्यक्ति को सभी रोगी कहेंगे। किन्तु सन्तान उत्पादन करने की शक्ति न रहने से जीवन धारण करने में कोई कठिनाई नहीं होती, इस कारण एक जर्मन वैज्ञानिक का कहना है कि जीवित रहने का अर्थ केवल व्यक्ति के लिए न समझकर जाति के लिए समझना उचित है। प्रकृति में भी व्यक्ति से जाति का ही अधिक महत्त्व है। गर्भयन्त्रण से पीड़ित होकर जब नारी शय्याशायी होती है, तब उसे कोई भी रोगी नहीं समझता। जाति के जीवित रहने के लिए नारी की यह गर्भयन्त्रण सार्थक हो जाती है। वश-वृद्धि से ही जातीय जीवन की रक्षा होती है।

## तेरहवाँ परिच्छेद

### वशानुक्रम और रोग

व्यक्ति के साधारण स्वास्थ्य के लिए बहुसंख्यक जेनि का सम्मिलित प्रभाव प्रियाशील रहता है। किन्तु किसी रोग की उत्पत्ति के लिए कभी-कभी एक जेनि का ही प्रभाव दिखाई देता है।

अनेक परीक्षाओं के परिणाम में यह निश्चय हो पाया है कि कुछ रोग तो हम माता पिता से प्राप्त करते हैं, और कुछ नहीं।

जो रोग हम माता पिता से प्राप्त करते हैं, उन्हें तो वंशगत रोग कह सकते हैं, दूसरे रोगों को नहीं।

ऐसा भी होता है कि माता पिता से हम यथार्थ रोग को प्राप्त न होकर, रोगी होने की दुर्बलता को प्राप्त करते हैं। अपने अनुकूल वातान्तरण में तो वह रोग परिष्कृत हो सकता है, अन्यथा वह प्रकट नहीं होता। यदि हमारे पिता को तपेदिक की बीमारी हुई हो तो यह आवश्यक नहीं है कि हमें भी यथात् हमारे भाई बहनों में से किसी न किसी को भी वह बीमारी हो। केवल इतना होगा कि छूत के कारण अथवा सर्दी के या शरीर के दुर्बल हो जाने के कारण हममें से किसी को वह रोग हो जाय। प्रतिदिन की परीक्षा के परिणाम से हमें यह ज्ञात होता जाता है कि कौन से रोग हमें माता-पिता अथवा वंश परम्परा से प्राप्त होते हैं, और कौन से नहीं।

उपदंश हम कभी वंश-सूत्र में प्राप्त नहीं करते। इस बारे में साधारण व्यक्ति की धारणा एकदम भ्रमात्मक है। होता यह है कि यदि माता अथवा पिता उपदंश-रोग से पीड़ित हों और उस पीड़ित अवस्था में ही गर्भ का सञ्चार हो, तब छूत के कारण बच्चे में भी उपदंश रोग की उत्पत्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं। गर्मी का रोग अच्छा हो जाने पर यदि गर्भ की उत्पत्ति होती है तब कल्पि बच्चे में गर्मी का रोग नहीं दिखाई देगा। यदि यह रोग वंश परम्परा में उत्पन्न होनेवाला होता तो अच्छे हो जाने पर भी मनुष्य की सत्तान में यह रोग उत्पन्न हो सकता। किन्तु ऐसा नहीं होता। वंशगत रोग और छूत के कारण जो रोग उत्पन्न होते हैं, उनमें यथेष्ट अन्तर है। यदि उपदंश रोग को ठीक समय पर उपयुक्त चिकित्सा हो एव इस रोग की छूत से बचने के उपायों का ठीक ठीक प्रयोग हो तो दो तीन पीढ़ियों के अन्दर यह रोग सदा के लिए दूर हो जा सकता है। किन्तु वंशगत रोगों को दूर करना अत्यन्त कठिन कार्य है। वंशगत रोग के मूल में तो विशेष विशेष

जेनि क्रियाशील होते हैं। इन रोगों से बचने के लिए विवाह पद्धति पर विशेष रूप से नियन्त्रण की आवश्यकता है। इस कारण कौन से रोग वंशगत हैं और कौन से नहीं, इसका ज्ञान होना अत्यन्त आवश्यक है। धर्मों से इम विषय पर परीक्षाएँ हुई हैं और अब बहुत रोगों के विषय में अच्छा ज्ञान प्राप्त हो चुका है।

एलविनिज्म अर्थात् धवल रोग वंशगत हुआ करता है। सात सौ धर्मों के वंश-वृक्ष बनाये गये हैं, जिनमें धवल रोग उत्पन्न हुए थे। धवल रोग "सुप्त-लक्षण" विशिष्ट है। पाठकों को याद होगा कि सुप्त (Recessive) एवं व्यक्त (Dominant) लक्षण किसे कहते हैं। तब किसी व्यक्ति को देह में दो भिन्न प्रकार के जेनि उपस्थित रहते हैं, जिनमें एक दूसरे के विपरीत लक्षण रहते हैं तब एक लक्षण तो व्यक्त होता है और दूसरा सुप्त रह जाता है। किन्तु यह सुप्त लक्षण मरता नहीं, कई पीढ़ियों के बाद भी, अपने अनुरूप दूसरे जेनि के साथ सम्मिलित होते ही व्यक्त हो जाता है। धवल रोग भी रिसेसिव अर्थात् सुप्त-लक्षण ग्राहक जेनि के कारण उत्पन्न होता है। जिस वंश में किसी सुप्त लक्षण गीज बहन करनेवाले जेनि के कारण किसी रोग की उत्पत्ति होती हो, उस वंश में यदि निकट आत्मीया में विवाह होता रहे तो दो रिसेसिव जेनि के एकत्र हो जाने की बहुत सम्भावना हो जाती है। और दो रिसेसिव जेनि के एकत्र होने से ही रोग व्यक्त हो जाता है। इस कारण साधारणतया निकट आत्मीयों में विवाह करना कदापि उचित नहीं है। एलविनिज्म अर्थात् धवल रोग-युक्त वंशों के वंशवृक्षादि की परीक्षा करने पर यह ज्ञात हुआ है कि अधिकांश समय उन वंशों में निकट आत्मीयों में विवाह हुए थे। एक ऐसे वंश-वृक्ष के अनुसार यह देखा गया कि एक चाचा ने अपनी भतीजी से विवाह कर लिया था। उसके वंश में छ सन्तानों में दो तो रोग मुक्त थे, किन्तु चार धवल रोग-युक्त थे। उसी वंश में दो बचेरे भाई बहिनों ने विवाह कर लिया

था। उनके तीन सन्तानों में से एक घबल-रोग प्रशिष्ट था। उसी वंश में दूसरे लोगों ने आपस में विवाह नहीं किया था। उनकी सन्तानों में एक भी सन्तान घबल रोग प्रशिष्ट नहीं थी।

निकट-दृष्टिरोग ( Short sightedness ) वशानुक्रम से उत्पन्न होता है। चक्षु के एक और रोग आस्टिग्मैटिज्म ( Astigmatism ) की उत्पत्ति भी वशानुक्रम के अनुमार होती है। एक वंश में तो यह रोग पाँच पुत्रों तक उत्पन्न होता गया।

संसार के विभिन्न स्थानों में मनुष्य विभिन्न प्रकार-प्रशिष्ट होते हैं। किन्तु मनुष्य-देह के साधारण अणुओं में थोड़ा बहुत अन्तर होने पर भी कुछ विशेष हानि नहीं होती। हाँ, यदि चक्षु के आन्तरिक अणु में थोड़ा-सा भी अन्तर उत्पन्न हो जाता है तो दृष्टि-शक्ति में भी अत्यन्त गम्भीर दोष उत्पन्न हो जाते हैं। इस कारण यदि संसार की दो विभिन्न जातियों के स्त्री पुरुषों में विवाह होता है, तो निकट दृष्टिरोग की उत्पत्ति हो सकती है। जैसे निकट सम्बन्धियों में विवाह होने से वंश में रोगों की उत्पत्ति हो सकती है, उसी प्रकार दो विभिन्न जातियों के स्त्री-पुरुषों में विवाह होने से भी रोगों की उत्पत्ति हो सकती है। एक दूसरे प्रकार का चक्षु का रोग चार परिवारों में होते देखा गया। अनुसन्धान करने पर यह पता चला कि सात पीढ़ी पहले इन परिवारों के एक ही पूर्वज को यह रोग था, अर्थात् सात पुत्र तक रोग के बीज किसी परिवार में वंश परम्परा से चले आ सकते हैं। इसका यह भी तात्पर्य है कि अच्छे और बुरे के बीज, सात पुत्र तक तो अवश्य ही जीवित रह सकते हैं, यद्यपि उनका व्यक्त होना पारि-पार्श्विक वातावरण और दूसरे जेन के साथ सम्बन्ध स्थापित होने पर निर्भर करता है। प्राचीन हिन्दुओं को यह ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ—यह स्वतन्त्र प्रश्न है। किन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं कि हिन्दुओं की वर्ण व्यवस्था का आधार वशानुक्रम विज्ञान

हिन्दुओं के धारणानुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि वर्णों के लक्षण कई पीढ़ियों तक अभिज्यक्त न होने पर भी नष्ट नहीं होते। आधुनिक विज्ञान भी इस घात का समर्थन करता है। इस प्रकार का आधुनिक विज्ञान का प्राचीन विज्ञान से मेल होना एक आश्चर्यजनक घटना नहीं है।—मोतियाबिन्द भी एक और चक्षुरोग है जो वशानुक्रम से उत्पन्न होता है। मोतियाबिन्द के उत्पन्न होने की अवस्था भी प्रत्येक परिवार के लिए कुछ निश्चित सी रहती है। किसी किसी परिवार में बाल्यावस्था में ही यह रोग उत्पन्न होते देखा गया है। दूसरे परिवारों में यौवनावस्था के प्रारम्भ होते ही यह रोग उत्पन्न होता है। कुछ परिवारों में मध्यवयस्स में ही यह रोग उत्पन्न होते देखा गया है। इस सम्बन्ध में एक और रहस्यपूर्ण घात का पता चला है। किसी परिवार में ऐसा होते देखा गया है कि एक पुत्र में तो मोतियाबिन्द बृद्धावस्था में उत्पन्न हुआ, दूसरी पुत्र में यह रोग ४० वर्ष की आयु में उत्पन्न हुआ, तीसरी पुत्र में ३० वर्ष की आयु में, ४ थी पुत्र में यह रोग ७ वर्ष की आयु में उत्पन्न हुआ एवं ५वाँ पुत्र में, जन्म के थोड़े ही दिनों के अन्दर यह रोग होते देखा गया। एक वैज्ञानिक ने उपर्युक्त वंशवृक्ष को वैज्ञानिकों के सम्मुख उपस्थित किया था। वैज्ञानिकों में इस विषय को लेकर यथेष्ट आलोचनाएँ हुई थीं। कुछ वैज्ञानिकों की धारणा थी कि उक्त वंशवृक्ष के समग्र करने में कुछ दोष रह गया है। एक ब्रिटिश वैज्ञानिक ई० नेट्ल शिप महोदय ने एक परिवार का वंशवृक्ष समग्र किया था, जिसमें रतौंधी की बीमारी ९ पुत्र तक होती गई थी। उक्त परिवार में २११६ व्यक्तियों में से १३५ को रतौंधी हुई थी। एक और विचित्र प्रकार का रोग होता है, जिसमें दिन में अथवा अधिक तीव्र प्रकाश में तो नियाई नहीं देता किन्तु चाँदनी रात में दिखाई देता है। इस रोग में रोगी व्यक्ति को रङ्ग का कोई ज्ञान नहीं होता है।

इसे दिवान्धता (Day Blindness) कहते हैं। एक वंश में चचेरे भाई बहिनों में विवाह होने के परिणाम-स्वरूप चार सन्तानों में तीन सन्तानों को यह रोग हो गया था। यह रोग भी वंशगत होता है। इससे ज्ञात होगा कि निरुद्विगम सम्बन्धियों में विवाह करना कितना भयावह है।

गन्ध भी वंशगत है। यह अनेक कारणों से उत्पन्न होता है। कभी-कभी मस्तक के चर्म से अत्यधिक तैल पदार्थ निकलता है और उसके पश्चात् घाल गिरने लग जाते हैं। कभी-कभी मस्तक में अत्यधिक फ्यास हो जाने के पश्चात् घाल गिरने लग जाते हैं और गन्धापन उत्पन्न हो जाता है। गन्धापन स्त्री की अपेक्षा पुरुष में अधिक उत्पन्न होता है। यह भी कहा जाता है कि नपुंसकों को यह रोग नहीं होता।

कैन्सर—इस रोग के नाम को सुनते ही मन में एक आतङ्क की सृष्टि होती है। 'कैन्सर' रोग को समझने के लिए हमें फिर कोप विभाजन के प्रति ध्यान देना पड़ेगा। हमने यह देखा है कि एक कोप से ही सहस्र कोपों की उत्पत्ति होती है और उन कोपों से धीरे धीरे हमारी देह बनती है। हमने यह भी देखा है कि अमेरिका के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक एलेक्सिस कैरेल ने कैसे जीवदेह से एक एक अङ्ग को निकाल कर उसे काँच के बोटों में जीवित रखा है। कैरेल महोदय ने यह प्रमाणित कर दिया है कि जीव देह के कोप, देह से अलग होकर न केवल जीवित ही रह सकते हैं, वरन् आहार मिलने पर एव उपयुक्त वातावरण में रक्ते जाने से वे जीवित रहने के साथ-साथ वृद्धि भी करते हैं। उनके जीवित रहने की एव वृद्धि प्राप्त होने की सीमा भी नहीं है। किन्तु जीव देह में रहते समय वे कोप अनियमित रूप से वृद्धि प्राप्त नहीं करते। प्रयोजनानुसार वे एक सीमा तक ही वृद्धि प्राप्त करते हैं। इस नियन्त्रण का केन्द्र कहाँ है और कैसे यह नियन्त्रण होता है, ये सत्र



अत्यन्त रहस्य पूर्ण प्रश्न हैं। किन्तु जब कोई कोप अथवा कोपों का समूह इस नियन्त्रण से परे चला जाता है और उसकी अनियन्त्रित वृद्धि होती है, तब उसे रोग कहा जाता है। कोपों की ऐसी अनियन्त्रित वृद्धि को 'ट्यूमर' कहते हैं। कैंसर एक प्रकार का 'ट्यूमर' है। 'कैंसर' का रोग कैसे उत्पन्न होता है, इसके सम्बन्ध में वैज्ञानिका को पर्याप्त ज्ञान नहीं है। 'कैंसर' देह के किसी भी स्थान में उत्पन्न हो सकता है। इसके सम्बन्ध में एक और विचित्र बात यह है कि एक धार किसी स्थान पर 'कैंसर' रोग प्रदत्त कोपों की उत्पत्ति के बाद वे कोप रक्त प्रवाह के साथ-साथ देह के अन्य किसी भी स्थान में जाकर निक्षिप्त हो सकते हैं। इस प्रकार इस रोग की ध्वंस-स्वीला अत्यन्त भयङ्कर होती है। कहा जाता है कि मनुष्य में जितने प्रकार के रोग सम्भव हैं, "कैंसर" उनसे भी अधिक प्रकार के हो सकते हैं। इन विभिन्न प्रकार के कैंसरों में कुछ रोग तो सम्भवतः वशागत होते हैं, दूसरे नहीं।

कुछ बाहरी कारणों से देह के किसी स्थान पर अनावश्यक प्रदाह होने से अथवा अन्य कारणों से 'कैंसर' की उत्पत्ति हो सकती है। अमेरिका के 'निड जर्सी' नगर में एक घड़ी के कारखाने में जो लड़कियाँ काम करती थीं, उन्हें 'रेडियम' से काम पड़ता था। उन लड़कियों में से प्रायः प्रत्येक लड़की की मृत्यु 'कैंसर' रोग से हुई थी। कहा जाता है कि 'कैंसर' म्यूटेशन का परिणाम है। एक जापानी वैज्ञानिक 'ईशोकावा' ने सरगोशों के चमड़े पर बार-बार अलकतरा लेपन करके 'कैंसर' रोग को उत्पन्न किया था। 'एक्स रे' के अनवरत प्रभाव में भी कभी-कभी यह रोग उत्पन्न हो जाता है। बहुत से डाक्टर भी एक्स रे से काम लेते-लेते कैंसर रोग से पीड़ित हुए हैं और उसी रोग से उनकी मृत्यु भी हुई है। किन्तु एक्स रे से कैंसर रोग अच्छे भी होते हैं। सम्भवतः एक्स रे के अधिक प्रयोग से इस रोग की उत्पत्ति होती हो।

तपेदिक की बीमारी—मानव इस रोग से जितना डरता है, उतना और किसी रोग से नहीं। इस रोग के बीजाणु होते हैं, जिन्हें (tubercle bacillus) ट्यूबरकल बैसिलिस कहते हैं। दूध से ही इस रोग की उत्पत्ति होती है। किन्तु एक बार इस रोग के उत्पन्न हो जाने पर वंशानुक्रम के नियमानुसार वंशजों में यह रोग उत्पन्न हुआ करता है। तपेदिक के बीजाणु सर्वत्र विद्यमान हैं, किन्तु दुर्बल एव अनुकूल देह में ही इस रोग की उत्पत्ति हो सकती है। स्वस्थ देह में ये बीजाणु अपना प्रभाव नहीं दिखा पाते। देह के दुर्बल हो जाने पर नाना प्रकार के रोगों की उत्पत्ति होती है। पूरा आहार न मिलने पर, नमी से पूर्ण स्थान में रहने से तपेदिक का शिकार हो जाना सहज हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि किसी न किसी समय सभी पर एक न एक बार तपेदिक के बीजाणु आक्रमण करते हैं, किन्तु देह के स्वस्थ रहने के कारण ये रोग उत्पन्न नहीं हो पाते। वंशानुक्रम के अनुसार जत्र यह रोग किसी वंश में उत्पन्न होता है, तत्र यह नहीं होता कि वंश में सभी को यह रोग हो। साधारणतया होता यह है कि तपेदिक रोगवाले वंश की कुछ सन्तानों में इस रोग के उत्पन्न होने की सम्भावना रहती है। यदि दूध-छात से बचकर, सन्तान अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सके, तो सम्भव है उस वंश में यह रोग उत्पन्न न हो। संसार की कोई-कोई जाति इस रोग से अधिक आक्रांत होती है और कोई-कोई कम। इसमें सन्देह नहीं कि यह रोग वंशपरम्परा से जिना फैलता है, दूध से उतना नहीं फैलता। अमीर घरों में भी शराब प्रहार कुछ कम नहीं होता है। चार सहस्र वर्षों का प्रसिद्ध परिवारों की परीक्षा करके पण्डित 'वाइलिंग' ने यह धरना है कि अमीर घरों में तपेदिक की बीमारी में जितनी आशुता है, गरीबों में उतनी नहीं हुई। आजकल भी यह धरना है।

पर रोज कर रहे हैं। कुछ डाक्टरों का यह भा कहना है कि जिस वंश में बहुमूत्र रोग होगा उस वंश में तपेदिक की बीमारी उत्पन्न होने की विशेष सम्भावना रहती है।



## चौदहवाँ परिच्छेद

### निकट सम्बन्धियों में विवाह

टेलिजर्नी—जनसाधारण की यह धारणा है कि गर्भावस्था में यदि नारी के मन पर किसी कारण किसी प्रकार की प्रबल छाप पड़ जाती है तो उसका प्रभाव उसकी सन्तान में भी दिखाई पड़ता है। इस विषय को लेकर बहुत परीक्षाएँ हुई हैं, किन्तु वैज्ञानिकगण आज इस बात को स्वीकार नहीं करते। किन्तु यह भी हम नहीं भूल सकते कि भ्रूण को, माता के जठर में बहुत दिनों तक रहना पड़ता है और इस बीच माता पर पारिपाश्विक चातावरण का प्रभाव भी अवश्य ही पड़ता है। इसलिए यह भी सम्भव नहीं कि उस प्रभाव के कारण माता में तथा भ्रूण में भी कुछ परिवर्तन न होता हो। पशुपालकों में तथा साधारण जनता में भी यह धारणा बहुत प्रचलित है कि एक बार स्त्री से पुरुष का सयोग हो जाने से, स्त्री में इतना परिवर्तन हो जाता है कि दूसरे पुरुष से सन्तान उत्पन्न होने पर पहले पुरुष का कुछ प्रभाव उसमें भी दिखाई देता है। इसी को 'अंगरेजी में टेलिजर्नी' कहते हैं।

मैथुन के पश्चात् स्त्री यदि गर्भवती नहीं भी होती है, तथापि पुरुष के वीर्य का कुछ अंश स्त्री की योनि में रह जाता है एवं कालक्रम से वह अश स्त्री की देह में मिल जाता है। इस प्रकार प्रति मैथुन के पश्चात् पुरुष की देह से निःसृत कुछ अंश स्त्री देह का अंश बन जाता है। डा० मेरी स्टोप्स् ने भी इस बात पर

जोर दिया है कि पुरुष-देह से निःसृत वीर्य आदि मैयुन के पश्चात् स्त्री की देह में सम्मिलित हो जाते हैं। इस प्रकार पुरुष और स्त्री की देह धीरे धीरे एक दूसरे के सदृश बनती जाती है।

## पन्द्रहवाँ परिच्छेद

### मनुष्यों पर वश और वातावरण का प्रभाव

अमेरिका के 'न्यूजर्सी' शहर में मानसिक रोगों का एक चिकित्सालय है। ई० सन् १८९८ में इस चिकित्सालय के डा० एच० एच० गडार्ड महोदय अकस्मात् दो परिवारों के सम्पर्क में आये। एक ही पूर्वज के ये दोनों वंश थे, फिर भी इनमें विपमता थी। एक परिवार के व्यक्ति सच्चरित्र, बुद्धिमान् एवं धनी थे, दूसरे परिवार के व्यक्ति असच्चरित्र, लम्पट, शरायी और चोर थे। डा० गडार्ड महोदय ने इन दोनों परिवारों को 'कलीकॉक' नाम दे दिया। "कलीकॉक" शब्द का अर्थ है—'भना बुरा'। बहुत अनुसन्धान के बाद गडार्ड महोदय को पता चला कि ये दोनों परिवार एक सैनिक के वंशज हैं। उसका नाम मार्टिन था। अमेरिका के गृह युद्ध के समय मार्टिन ने एक सराय में एक दुर्बल चित्त की नारी के साथ प्रसङ्ग किया था। उस नारी से एक सन्तान उत्पन्न हुई। यह पुत्र बहुत बुरा निकला। आसपास के व्यक्ति उससे तङ्ग आ गये थे। इसी सन्तान के वंश में जितनों का जन्म हुआ, वे सबके सब बुराचारी निकले। किन्तु उस गृह युद्ध के पश्चात् मार्टिन ने एक अच्छे घर में विवाह किया। वह क्वेकर नामक एक धार्मिक सम्प्रदाय की लड़की थी। इस लड़की से जितनी सन्तानें उत्पन्न हुईं वे सबकी सब भलीमानस निकलीं। इसके भी पूर्व ई० सन् १८७४ में, न्यूयार्क जेल के निरीक्षक श्री डागडेल महोदय ने एक परिवार की परीक्षा की थी। इन्होंने देखा कि शहर के एक मुहल्ले में निज

श्रेणी के कुट्ट परिवार रहते हैं। उन परिवारों की उन्होंने अन्धरी तरह खोज की। उन्हें पता चला कि १८ वीं शताब्दी में दो सगे भाइयों ने दो घदचलन लडकियों से विवाह कर लिया था। इस परिवार का नाम 'ज्युम्स' परिवार था। इस परिवार में आपस में ही विवाह होते थे। इस कारण इस परिवार की और भी दुर्गति हुई। क्रमशः इस परिवार के व्यक्ति बाहर से भी विवाह करने लगे। ई० सन् १८१६ में ज्युम्स परिवार के सम्बन्ध में पुनः अनुसन्धान हुआ। इस अनुसन्धान के परिणाम में देखा गया कि ज्युम्स परिवार में कुट्ट उन्नति हुई है।

'कलीकॉक' और 'ज्युम्स' परिवारों पर पारिपार्श्विक वातावरण का गहरा प्रभाव पड़ा था। ऐसा होना स्वाभाविक ही था। समाज में ऐसा ही हुआ करता है। हमारे समाज की प्रत्येक श्रेणी अपने अपने वातावरण में ही काम-काज करती रहती है। कलीकॉक और ज्युम्स परिवारों में मैरुडों व्यक्ति उत्पन्न हुए थे। वे मन के सज निरुष्ट प्रवृत्तिवाले थे। यह स्वाभाविक ही था कि उन परिवारों के व्यक्ति दुष्ट वातावरण में ही जीवन यापन करेंगे। ऐसे दुष्ट वातावरण में कैसे किसी का स्वभाव सुधर सकता है ?

## सोलहवाँ परिच्छेद

स्टेरिलाइजेशन किसे कहते हैं ?

वशानुक्रम विज्ञान से कृषि-कार्य के सम्बन्ध में जितना लाभ हुआ है, उतना लाभ समाज-व्यवस्था में नहीं हुआ। पारचात्य देशों में केवल एक विषय पर कुछ ख़ोर दिया जाने लगा है। समाज में जो व्यक्ति रोगग्रस्त हैं, उन्हें सन्तान उत्पादन करने में रोका जा रहा है। एक ओर तो सन्तति निरोध का ज्ञान फैलाया जा रहा है, दूसरी ओर स्टेरिलाइजेशन द्वारा सन्तानोत्पादन की शक्ति को

नष्ट किया जा रहा है। स्टेरिलाइजेशन से काम-वास्तव के उपभोग में कोई बाधा नहीं पड़ती। जिन नाली से पुन्प का बॉय वाटर निकलता है, उस नाली का अक्षोपचार द्वारा काटकर पुन्प के मुँह का बॉंध दिया जाता है। स्त्रियों में स्टेरिलाइजेशन करना इच्छित कठिन कार्य है। स्त्रियों के लिए नाभि के नीचे के भाग को चीरना पड़ता है, और तब जिन नालियों से अण्डाणु जरायु में आते हैं उन नालियों को काटकर उनके मुखों को बॉंध दिया जाता है। इस प्रकार गर्भावधान तो बन्द हो जाता है, किन्तु कामोपभोग में कोई बाधा नहीं पड़ती।

आज से ४० वर्ष पूर्व अमेरिका के एक जेल के डाक्टर ने, इण्डियाना नामक शहर में, सर्वप्रथम स्टेरिलाइजेशन का कार्य प्रारम्भ किया था। उन्होंने स्त्रियों की राय में उन्हें स्टेरिलाइजेशन दिया था। थोड़े ही दिनों के अन्दर मानसिक रोगग्रस्त स्त्रियों को भी स्टेरिलाइज करना प्रारम्भ हो गया परन्तु सन् १९०७ ई० में केंटीकोर्निया एवं इण्डियाना प्रान्तों में स्टेरिलाइजेशन के सम्बन्ध में नियम बन गये। आज-कल अमेरिका के २६ प्रान्तों में इस सम्बन्ध में कानून बन गये हैं। इस कानून के अनुसार वहाँ पर २,००० व्यक्तियों को स्टेरिलाइज किया गया है। इनमें प्रशिक्षण ६० स्त्रियाँ हैं।

इसका प्रयोग खतरनाक है। वहाँ पर मंगल प्रत्यक्ष है परन्तु स्त्रियों से समाज का हानि पहुँच सकती है, उन स्त्रियों को न स्टेरिलाइज करने से समाज का कल्याण है, अथवा यदि राज्य के परिदानीय बनाने की रीति में स्टेरिलाइज करना प्रारम्भ कर दें तो इनके समाज की हानि है। अमेरिका के 'कानसास प्रांत में स्टेरिलाइजेशन की रीति से अविधवा विधवा असातुष्ट हो गये थे, और अमेरिका में अन्ध अन्धान नस संस्था की समस्त लड़कियों को 'स्टेरिलाइज' कर दिया था। इस प्रक्रिया का दुरुपयोग होने की बड़े-बड़े आशङ्का हैं।

कौन गैर समाज के लिए हानिकारक है, और कौन नहीं, इसकी भी भावना होना सहज ध्यान नहीं है।

## सत्रहवाँ परिच्छेद

### वंशानुक्रम और समाज की उन्नति

सामाजिक उन्नति समाज के श्रेष्ठ पुरुषों पर जितनी निर्भर करती है, उतनी और किसी बात पर नहीं। यदि किसी समाज में श्रेष्ठ पुरुष कम होते जायें, तो समाज की अवनति अशुभभावों की है। वर्तमान समय में यूरोप और अमेरिका में शिक्षित और अच्छे घरानों में सन्तानों की उत्पत्ति धीरे-धीरे कम होती जा रही है और जिन परिवारों में शिक्षा की उन्नति नहीं हो पाई है, जिन परिवारों को हम साधारणतया निम्न श्रेणी के समझते हैं, उनमें सन्तानों की संख्या धीरे-धीरे बढ़ती जा रही है। प्रसिद्ध अंगरेज जीववैज्ञानिक श्री जे० बी० एस्० हॉल्डेन महोदय का मत है कि जिन समाजों में साधारण परिवारों की अपेक्षा शिक्षित और उच्च घरानों में कम सन्तानें उत्पन्न होती हैं, वे समाज निश्चित रूप से अवनति की ओर मुक्त हैं।

उहुता की यह धारणा है कि समय के अनुसार समाज की जन-संख्या का बढ़ना एक स्वाभाविक बात है, किन्तु विचार करने पर यह बात सत्य नहीं मालूम पड़ती। यह बात सबको विदित है कि प्राधुनिक युग में संसार की जनसंख्या और विशेषकर इंग्लैण्ड आदि की जनसंख्या में अद्भुत वृद्धि हुई है। किन्तु इस जनसंख्या की वृद्धि विगत शताब्दी में जिस रीति से हुई है, इसके पूर्व वैसी नहीं हुई थी। सन् १८०१ ई० से १८६१ तक साठ वर्ष में इंग्लैण्ड की जनसंख्या दुगुनी से भी अधिक हो गई। किन्तु ई० सन् १०६६ की जनसंख्या के दुगुनी होने में करीब चार सौ साल लग गये थे। सन् १४१५ ई० में इंग्लैण्ड की जनसंख्या १०६६ का जनसंख्या से दुगुनी हुई थी, किन्तु आज की स्थिति की परीक्षा करने पर ऐसा


प्रतीत होता है कि निकट भविष्य में इंग्लैण्ड की जन-संख्या घट जायगी, बढ़ेगी नहीं। एक मत के अनुसार सन् २०३५ ई० तक इंग्लैण्ड और वेल्स की जनसंख्या आज से एक दसवाँ भाग घट जायगी। अगले पृष्ठ में दिये हुए चित्र में विगत ६०० वर्षों की जनसंख्या की वृद्धि आदि का क्रम दिखाया गया है तथा अगले १०० साल में वह जनसंख्या कितनी गिर जायगी, इसका भी चित्र दिया गया है। इस बीच यदि उपर्युक्त रीति से समाज का सुधार न किया गया, तो जनसंख्या का यह अप्रति अवश्यम्भावी है। जैसे इंग्लैण्ड की जनसंख्या की अप्रति की आशङ्का की जा रही है, वैसे ही यूरोप और अमेरिका के युक्तराष्ट्र के विभिन्न प्रदेशों की अस्थिति भी समान रूप से आशङ्कापूर्ण है।

यूरोप आदि देशों में निकट भविष्य में जनसंख्या द्रुत गति से कम हो जायगी, इस बात को सुनकर साधारण व्यक्ति कुछ आश्चर्य में पड़ जाता है। कारण, वह देखता है कि प्रति वर्ष जनसंख्या वृद्धि पा रही है, फिर निकट भविष्य में वह गिर कैसे जायगी। किन्तु विशेषज्ञों के इस अनुमान के मूल में जो कारण हैं उनमें से कुछ कारणों का परिचय यहाँ दिया जाता है।

जन्म और मृत्यु के अनुपात की गणना इस प्रकार होती है— जन्म अनुपात का अर्थ है, प्रति सहस्र व्यक्ति में कितने जन्म होते हैं। इसी प्रकार मृत्यु अनुपात का अर्थ है, प्रति सहस्र व्यक्तियों में प्रति वर्ष कितनी मृत्युएँ होती हैं। अब इन आँकड़ों पर ध्यान दीजिए। सन् १८९१ ई० में इंग्लैण्ड और वेल्स के जन्म का अनुपात ३०.५ था और सन् १९२१ में यह १९.९ ही गया था। उहाँ तीस वर्षों में इंग्लैण्ड और वेल्स की जनसंख्या दो करोड़ नब्बे लाख से तीन करोड़ अस्सी लाख हो गई थी। आँकड़ों से यह जान पड़ता है कि एक ओर तो जन्म अनुपात घट गया, दूसरी ओर मृत्यु अनुपात घट गया, जिससे जनसंख्या बढ़



रिक्त उसी समय इंग्लैण्ड और वेल्स के बहुत से व्यक्ति विदेशों में भी चले गये थे। इस कारण भी जन्म की संख्या



सन् १०६६ ईस्वी से लेकर २०२५ तक इंग्लैण्ड और वेल्स की जन-संख्या में परिवर्तन का अनुमान।

(एच० सी० बिबी के ग्रन्थ से)

कुछ और घट गई होगी तथापि उन प्रदेशों की जन-संख्या बढ़ गई। इसका कारण यह है कि एक ओर जैसे जन्म अनुपात घट गया, उसी प्रकार मृत्यु अनुपात भी घट गया। किसी एक वर्ष में जन्म अनुपात और मृत्यु अनुपात के अंतर से ही समाज की जनसंख्या में वृद्धि और कमी होती रहती है। वर्तमान समय में इंग्लैण्ड में जन्म अनुपात मृत्यु अनुपात से अधिक है,

तथा विशेषज्ञगण क्यों यह अनुमान करते हैं कि निकट भविष्य में इंग्लैण्ड की जन-संख्या घट जायेगी ?

इस बात में एक रहस्य है। यदि आज पूर्वापेक्षा लड़कियाँ समाज में कम हो जायें तो अवश्य ही निम्न भविष्य में सन्तान को देने के उपयुक्त स्त्रियों भी कम हो जायेंगी, और इस प्रकार जन-संख्या भी घट जायेगी। इस कारण केवल जन्म और मृत्यु के अनुपात से ही भविष्य में जन-संख्या घटेगी अथवा नहीं, यह कहना बहुत कठिन है। किसी समाज में जन-संख्या घट रही है अथवा बढ़ रही है, या वह सत्य समान रूप में स्थित है, यह जानने के लिए हमें यह जानना परम आवश्यक है कि वर्तमान समय में प्रति नारी के गर्भ में कितनी ऐसी लड़कियाँ जन्म ले रही हैं, जो कि भविष्य में माता होने के उपयुक्त होंगी।

यूरोप आदि देशों में जन्म अनुपात के घट जाने का एक कारण तो यह है कि उन देशों में आजकल सन्तति निरोध के साधनों का अधिक प्रयोग होने लगा है। दूसरा कारण यह है कि बहुत देशों में भ्रूण हत्याएँ की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त कुछ और भी कारण अवश्य होंगे, जिनसे उन देशों के मनुष्यों में वंश-वृद्धि की शक्ति भी कम होने लगी है, किन्तु जन्म अनुपात के कम होने का सबसे बड़ा कारण तो दृष्टापूर्वक जन्म निरोध ही है। निम्नलिखित चित्र में इस बात को दिखाया गया है कि शिक्षित समाज में, जिनमें जन्म निरोध की रीतियों का ज्ञान अधिक फैला हुआ है, जन्म अनुपात दूसरी अशिक्षित श्रेणियों से कम है। अशिक्षित श्रेणियों में जन्म निरोध का ज्ञान अधिक नहीं फैला है। इसके अतिरिक्त पृष्ठ १५६ के चित्र से एक और बात पर भी ध्यान आकृष्ट होगा। वह यह कि कपडे की मिलों में जो औरतें काम करती हैं, उनमें भी दूसरों की अपेक्षा जन्म-अनुपात कम है।

जर्मनी में विश्व पिशाचियों के प्रोफेसरो के प्रति घर में तीन से भी कम सन्तानें पाई जाती हैं, किंतु उस देश में किमानों के प्रति


उप पेशवाने 

कारीगर 

मजदूर 

खानों में काम करनेवाले मजदूर 

कपड़े की मिलों में काम करनेवाले मजदूर 



सन् १९२१ ईस्वी में प्रति सहस्र ५५ वय से कम आयुवाले विवाहित मनुष्यों के नियमित जन्म अनुपात का चित्र। यहाँ ५ पेशेवालों का चित्र दिया गया है। ( एच० सी० बिबी के ग्रन्थ से लिया गया। )

घर में ६ से भी अधिक सन्तानें प्राप्त होती हैं। सोवियट रूस में बड़े बड़े नेताओं के घरों में मामूली मजदूरों के घरों से कम सन्तानें हैं। इन सब देशों के थॉकडे की परीक्षा करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि जिन श्रेणियों को हम आज उच्च श्रेणी समझते हैं, उन श्रेणियों में, निम्न श्रेणी की अपेक्षा कम सन्तानें उत्पन्न हो रही हैं। यूरोप और अमेरिका के क्वल दो प्रदेश स्टॉकहोल्म और ब्रेञील में इसके विपरीत दृष्टान्त प्राप्त होते हैं। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोल्म में जन्म निरोध के सम्बन्ध में इतना प्रचार हुआ है और वहाँ सामाजिक और शिक्षा-सम्बन्धी इतने सुधार

हुए हैं कि वहाँ गरीब घरों में उच्च श्रेणी के घरवालों की अपेक्षा कम सन्तानें उत्पन्न हो रही हैं।

ब्रेजील के एक प्रान्त का नाम है मिनास जीराइस (Minas Geraes)। इस प्रान्त के प्रसिद्ध दैनिक पत्र में एक परिवार के विषय में बहुत ही मनोरंजक बात छपी थी। सेन्हॉर मोडेस्टो नामक व्यक्ति के ३३ वर्ष के विवाहित जीवन में ३३ सन्तानें उत्पन्न हुई थीं। उसका विवाहित जीवन २५ मई सन् १९३९ को ३३ साल ११ महीना और १३ दिन का था। उनकी सन्तानों में उन्नीस लड़के और चौदह लड़कियाँ थीं। इस सवाद के छपने पर मिनास जीराइस में बहुत चहल पहल मची थी, किन्तु वहाँ पर अच्छे अच्छे घरानों में साधारण तौर पर बारह से चौदह लड़के अम्सर जन्म लेते हैं। जॉन वी० ग्रिफिग नामक एक पण्डित ने ब्रेजील और चीन की जन-संख्या के सम्बन्ध में रोज की है। इस सम्बन्ध में उनके दो लेख, एक चीन और दूसरा ब्रेजील के सम्बन्ध में सन् १९२६ और १९४० के 'जनरल ऑफ हेरेडिटी' में छपे हैं। उनकी रोज का सागश यह है—अमेरिका के युक्त राष्ट्र के उच्च श्रेणी के परिवारों की अपेक्षा ब्रेजील के उच्च श्रेणी के परिवारों में अधिक सन्तानें उत्पन्न हो रही हैं। वहाँ के गरीब घरों में उच्च श्रेणी के घरों की अपेक्षा कम सन्तानें जोड़ित रहती हैं। चीन में भी यही बात पाई गई है। वहाँ भी उच्च श्रेणी के घरों में निम्न श्रेणी की अपेक्षा अधिक सन्तानें जन्म लेती हैं जिन्दा रहती हैं। अर्थात् चीन और ब्रेजील में निम्न श्रेणी की अपेक्षा उच्च श्रेणी में जन्म संख्या दिन व दिन बढ़ती जा रही है। कहा जाता है कि ससार भर में चीन की ही स्त्रियों के सबसे अधिक सन्तानें उत्पन्न होती हैं, किन्तु ग्रिफिग साहब की रोज से यह ज्ञात हुआ है कि ब्रेजील की माताएँ ही सबसे अधिक सन्तानों को जन्म देती हैं। ब्रेजील की जनसंख्या भी दिन व

दिन ग्वन बढ़ रही है। सन् १९०० ई० में ब्रेजील की जन-संख्या एक करोड़ सत्तर लाख थी। सन् १९२० में यह संख्या तीन करोड़ तक पहुँच गई और १९४० में चार करोड़ अस्सी लाख हो गई है। प्रिफिंग के अनुसार, अमेरिका के युक्त राष्ट्र में, उच्च श्रेणी के परिवारों में, दिन-ब-दिन कम-सन्तानें उत्पन्न होने लगी हैं। किन्तु निम्न श्रेणी के परिवारों में, उच्च श्रेणी की अपेक्षा उच्च गुणों से भी अधिक-सन्तानें उत्पन्न हो रही हैं।

अमेरिका के युक्त राष्ट्र में जन्म-अनुपात पिछले दस वर्षों में प्रतिशत २५ के अनुपात से गिर गया है। पिछले पाँच वर्षों के अन्दर सन् १९३९ ई० में, अमेरिका के युक्त-राष्ट्र में दस तथा दस से कम उम्र के बच्चों की संख्या सोलह लाख कम हो गई है। अमेरिका का गृह-युद्ध के बाद वहाँ की प्रत्येक स्त्री प्रायः आठ-सन्तानों की माता होती थी और आज वह दो-सन्तानों से अधिक की माता नहीं हो रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि किसी समाज की जन-संख्या बढ़ाने के लिए एक-दम्पती के कम से कम तीन-सन्तानों का होना आवश्यक है। किन्तु अमेरिका का दम्पती आज तीन से भी कम-सन्तानों के जन्मदाता हैं। पहले तो अमेरिका के युक्त-राष्ट्र के बड़े-बड़े शहरों में ही जन-संख्या कम होने लगी थी, परन्तु अब ग्रामों में भी यह संख्या कम होने लगी है। गाँवों में भी यह देखा गया है कि शिक्षित और धनी परिवारों में ही जन्म-संख्या कम हो रही है। यह देखने में आ रहा है कि शिक्षा के साथ-साथ जन्म-अनुपात भी घट रहा है। पिछले अस्सी वर्षों से यह देखा जा रहा है कि प्रेजुएटा के परिवारों में, उन लोगों की अपेक्षा जिन्होंने कॉलेज की शिक्षा नहीं प्राप्त की है, कम-सन्तानें उत्पन्न हो रही हैं। इसका एक कारण तो यह है कि बहुत-सी कॉलेज की शिक्षा प्राप्त लड़कियाँ शादी ही नहीं करतीं, दूसरी बात यह है

कि शिक्षित व्यक्ति, पुरुष और स्त्री दोनों ही जान बूझकर वश-निरोध करके, अपनी सन्तानों की संख्या कम कर रहे हैं। ऐसा देखा गया है कि अमेरिका के बड़े-बड़े गवैये और अन्धे-अन्धे बाद्य यन्त्रों के धजानेवाले छत्तीस परिवारों में ३७ लड़के उत्पन्न हुए हैं। वहाँ के सौ विवाहित पुस्तक-लेखकों के फेरल डेढ़ सौ सन्तानें उत्पन्न हुई हैं। इनमें ग्यारह लेखिकाएँ भी हैं, जिनके कुल मिलकर १२ सन्ताने हैं।

इसके कारण ये हैं कि शिक्षित-जन, अधिक सन्तान के जनक-जननी नष्ट होना चाहते हैं, इससे एक ओर वे जन्म निरोध कर रहे हैं और दूसरी ओर स्त्रियाँ बहुत सख्या में गर्भ गिरा देती हैं।

डा० फ्रेडरिक टॉसिग ने अमेरिका के गर्भपात के सम्बन्ध में बहुत खोज का है। उनका कहना है कि अमेरिका के युक्तराष्ट्र में प्रति वर्ष सात लाख नारियों गर्भ गिराया करती हैं। इसका यह अर्थ होता है कि तीन गर्भवती नारियों में से एक नारी गर्भ गिरा दिया करती है। इनमें से प्रतिशत २५ या ३० नारियों रोग के कारण गर्भ गिराती हैं। यूरोप और अमेरिका में रोग के कारण गर्भ का गिराना गैरकानूनी नहीं है। प्रतिशत ६० से ६५ नारियाँ गुप्त रीति से गर्भ गिराया करती हैं। इनमें आधे गर्भ तो डाक्टरों की सहायता से गिराये जाते हैं, और आधे यात्री अस्पतालों के हाथ गिराये जाते हैं। गुप्त रीति से गर्भ गिराये जाने के कारण अमेरिका में प्रति वर्ष आठ हजार नारियों की मृत्यु होती है। डा० टॉसिग के कथनानुसार प्रति वर्ष गर्भपात विनाशित स्त्रियाँ भी कराती हैं, जिनकी आयु २५ से ३५ तक की होती है। वे लोग भी अपने-आप शहरों में दूने गर्भपात हुआ करती हैं। यह आशंका है, बाद "वेनिस" नगरी में गुप्त रूप से गर्भ गिराने की संख्या पहले से ५ गुनी बढ़ गई है। अंगुष्ठांग सिद्धी की आँसुओं के साथ नारियों का रूप से गर्भपात करती हैं। १९५५, १९५६, १९५७ की आँसुओं

से यह मालूम हुआ था कि यूनाइटेड स्टेट्स आरु अमेरिका में प्रति वर्ष गुप्त रीति से १०,००,००० नारियाँ गर्भपात कराती हैं।\*

साधारणतया जिन शिक्षित परिवारों की आमदनी कम है, उनमें ही कम सन्तानें जन्म लेती हैं। यदि राष्ट्र की ओर से बच्चों के पालन पोषण के लिए उन परिवारों को सहायता मिले, तो जन्म की सख्या में वृद्धि हो सकती है।

मन् १९३९ ई० में न्यूयार्क सिटी में करीब तीस हजार नारियाँ अध्यापन का काम करती थीं। उनमें प्रतिशत चालीस से पैंतालीस नारियाँ अविवाहिता थीं। कुछ दिन पहले तक उस प्रदेश के कानून के अनुसार अध्यापिकाओं के लिए विवाह करना मना था, किन्तु अब इस कानून में परिवर्तन हो गया है। जिस समय अध्यापिकाओं के लिए विवाह करना मना था, उस समय अध्यापिकाओं को छ सौ से लेकर बारह सौ डालर तक मासिक वेतन मिलता था। धीरे धीरे यह वेतन १, ६०८ डालर से लेकर ३,३३९ टालर तक हो गया है। कुछ उन्नत श्रेणी की अध्यापिकाओं के लिए यह वेतन और भी अधिक हो गया है।

समाज की जनसख्या के बढ़ाने के प्रिय में विभिन्न राष्ट्रों की अलग अलग नीतियाँ हैं। जर्मनी, इटली और रूस राष्ट्र में जनसख्या के बढ़ाने की नीति बढ़ती जा रही है। सोवियट रूस में जनसख्या रूढ़ बढ़ रही है। सम्भवत इसका एक कारण यह है कि वहाँ पर स्त्रियों के लिए बहुत सी आर्थिक सुविधाएँ हैं। वहाँ पर स्त्रियों की माता बनने में अधिक दिक्कतें नहीं उठानी पड़तीं।



\* देखिए—Bankruptcy of Marriage by V F Calverton  
P 185 187

## अठारहवाँ परिच्छेद

### वंशानुक्रम-विज्ञान और समाज व्यवस्था

प्रसिद्ध जर्मन पण्डित स्पेंगलर महोदय ने कहा है कि जातीय मम्यताओं की भी उत्पत्ति, विकास, कौमार्यस्था, यौवन, जरा और मृत्यु आदि व्यक्तियों की तरह होती हैं। भारतीयों के धारणानुसार जातियों की मृत्यु अनिवार्य नहीं है। व्यक्तियों के सम्यग्ध में जैसे जन्म, मृत्यु, कौमार्य और यौवनारस्था होती हैं और फिर उसका जन्म एवं मम्यकी वृद्धि होती रहती है, वैसे ही जाति की भी चक्रवत् उत्पत्ति, अवनति, जन्म, विकास, कौमार्य, यौवन एवं जरावस्थाएँ होती रहती हैं। यह बात भी सत्य है कि जिनका जन्म होता है, उसकी मृत्यु भी होती है। किन्तु राष्ट्रीय उत्थान और पतन के बारे में भारतीयों की धारणा यह है कि राष्ट्रीय जीवन में इन उत्थान पतन के युग हुआ करते हैं। अर्थात् जातीय जीवन में परिवर्तन चक्रवत् हुआ करते हैं। आधुनिक वैज्ञानिकों में बहुतेरे विद्वान् भारतीय मत के अनुयायी बनते जा रहे हैं। जर्मनों के तीन प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिकों ने मिलकर वंशानुक्रम विज्ञान पर एक प्रामाणिक ग्रन्थ लिखा है। उस ग्रन्थ का नाम है ह्युमन हेरेडिटी (Human Heredity)। अंगरेजी भाषा में इस ग्रन्थ से बढ़कर मानव-समाज से सम्बन्ध रखनेवाला वंशानुक्रम-विज्ञान पर दूसरा कोई ग्रन्थ नहीं है। उन तीन सर्वमान्य पण्डितों के नाम हैं, डाक्टर अरबीन् वावर, डाक्टर अयेजिन फिशर एवं डाक्टर फ्रिट्ज़ लेंज। उक्त पण्डितों का कहना है कि अनियन्त्रित विवाह प्रथा के कारण एवं समाज की उच्च श्रेणियों में, निम्न श्रेणी की अपेक्षा, वंशवृद्धि कम होने के कारण आधुनिक सभ्य समाजों की अधोगति प्रारम्भ हो गई है। आधुनिक पश्चात्य समाज के बड़े-बड़े शिक्ति व्यक्तियों में भी यह धारणा बैठ गई है कि विवाह एक व्यक्तिगत व्यापार है। आधुनिक



चाट्टीएड रसेल, वी० एफ० कैलवार्टन, स्मालहाउसेन आदि पण्डितों की राय में विवाह बन्धन का अब कोई प्रयोजन नहीं समझा जाता है। अपने को प्रगतिशील कहनेवाले व्यक्ति आर्थिक एवं अन्यान्य राष्ट्रीय व्यापार में तो समाज का नियन्त्रण परम आवश्यक समझते हैं, किन्तु विवाह के सम्बन्ध में वे कैसे अनायास ही निश्चिन्त होकर उदासीन रहते हैं। आधुनिक वशानुक्रम विज्ञान के साथ मानों समाज व्यवस्था का कोई सम्बन्ध ही नहीं है।

प्रकृति में स्वाभाविक रीति तो यह है कि दुर्बल जीव जीवन समाज में टिक नहीं पाते। उन्हे साथी नहीं मिल पाता। इस प्रकार प्राकृतिक निर्वाचन के परिणाम में दुर्बलों और पीड़ितों का लोप होता जाता है, एवं स्वास्थ्यवान्, कर्मठ व अन्य प्रकार से योग्य प्राणियों की वंशधारा बनी रहती है। किन्तु मानव समाज में ऐसा नहीं हो पाता। गृहपालित पशुओं में भी हम अपनी अभिरुचि के अनुसार अच्छे प्राणियों को चुन लेते हैं और उन्हीं के वंश की वृद्धि होने देते हैं। इस प्रकार निर्वाचन के परिणाम में हम विशेष विशेष श्रेणियों को वंशधारा का कायम रख सकते हैं, अवाञ्छित प्राणियों की वंशवृद्धि को रोककर प्राणियों का श्रेणी विभाजन अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं। यदि 'म्युटेशन' के कारण किसी वंश में रोगग्रस्त अथवा अन्य किसी प्रकार के अवाञ्छित जीव की उत्पत्ति होती है तो उसकी वंशवृद्धि को हम रोक सकते हैं।

किन्तु आधुनिक मनुष्य-समाज में किसी प्रकार का नियन्त्रण नहीं है। अनियन्त्रित विवाह के फलस्वरूप, मनुष्य समाज में नाना प्रकार के जेन के अनियमित सम्मिश्रण से वाञ्छनीय एवं अवाञ्छनीय स्वभाव विशिष्ट नाना प्रकार के मनुष्यों के जन्म होते रहते हैं। इसके उपरान्त समाज के श्रेष्ठ व्यक्तियों की सन्तानें निम्न श्रेणी के व्यक्तियों की अपेक्षा कम होने लगी हैं। इस कारण समाज में जा परिस्थिति उत्पन्न होने लगी है, वह समाज

लेण कल्याणकारी नहीं है। गृह पालित कुत्तो की हम प्रच्छी से अच्छी नस्ले बना रहे हैं, किन्तु मानव-वश के लिए हम अनासीन रहते हैं। यदि किसी आदर्श के अनुसार मानव समाज में भी विशेष विशेष श्रेणियों की उत्पत्ति की चेष्टा की जाय तो जातीय उन्नति का भाग अत्यन्त प्रशस्त हो जाय।

जीव विज्ञान और वशानुक्रम विज्ञान के अनुसार वशानुक्रम के प्रति ध्यान रखने से बीज कोष के अमरत्व की तरह जाति भी सदा प्राणवन्त बनी रह सकती है। सम्यक्ताओं का विकास समाज के श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा ही हुआ है। वशानुक्रम विज्ञान के आधार पर समाज की व्यवस्था करने पर समाज में श्रेष्ठ पुरुषों के जन्म-म और उनकी सरयाओं का अपने इच्छानुसार नियन्त्रण करना सम्भव है। आज मसार के प्रत्येक समाज में उच्च श्रेणी के विद्वान्, चरित्रवान् और मेधावी पुरुषों की सत्तानें, साधारण व्यक्ति एवं विशेष कर निम्न श्रेणियों की सत्तानों की अपेक्षा बहुत कम होने लगी हैं। जातीय अन्नति का यह एक प्रबल लक्षण है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार यह बात माननी पड़ेगी कि वशानुक्रम से प्राप्त अच्छे-बुरे सस्कारों के कारण प्रत्येक समाज के व्यक्तियों में बहुत विभिन्नताएँ हैं। इन विभिन्नताओं के आधार पर समाज व्यवस्था ढालनी चाहिए और यह भी देखना उचित है कि समाज में अच्छे सम्कारवाले व्यक्ति अधिक से अधिक बचाने हों।

यह देखा गया है कि उन्नत पुरुषों के मस्तिष्क दूसरे पुरुषों से अधिक भारी होते हैं। यूरोप, चीन, जापान आदि सम्यक् देशों के औसत दर्जे के व्यक्ति का मस्तिष्क निम्न तथा आस्ट्रेलिया के असम्यक् मनुष्यों की अपेक्षा वहीं अधिक भारी होता है। किसी एक जाति में भी उच्च कोटि के विद्वान् एवं बुद्धिमान् व्यक्तियों के मस्तिष्क, अन्य साधारण व्यक्ति के मस्तिष्क की अपेक्षा अधिक भारी होते हैं। इसमें भी कोई संदेह नहीं कि बुद्धि एत

शक्ति हम वंश परम्परा में प्राप्त करते हैं। जीवन में उपयुक्त अवसर एवं अवकाश पाते पर एक प्रश्रितियों पावती हैं।

वंशानुक्रम के नियमानुसार, विवाह-पद्धति के नियन्त्रण में, अच्छे सस्कार युक्त व्यक्तियों का अधिक में अधिक सम्पन्न जन्म देना सम्भव है। ऐसा न करने में समाज में अच्छे पुरुषों की संख्या धीरे-धीरे कम हो जायगी और इस प्रकार समाज का पतन अवश्यम्भावी हो जायगा।

पारचात्य देशों में सबसे पहले सन् १९०० ई० में स्वीडन में वंशानुक्रम विज्ञान के आधार पर जातीय उत्थति की व्यवस्था करने के लिए एक संस्था प्रारम्भ हुई थी। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक रिचियम मैग्दुगन महोदय ने, १९०९ ई० में जापान सम्राट के पास एक पत्र भेजा था, जिसमें उन्होंने अत्यन्त आग्रह के साथ मर्म-स्पर्शी भाषा में वंश-विज्ञान के आधार पर कुटुंब प्रस्ताव भेजे थे। जापान में भी वंश विज्ञान के आधार पर समाज-व्यवस्था के सम्बन्ध में वैज्ञानिकों की एक समिति थी है, जिसका नाम है, प्रैक्टिकल युजेनिक कमिटी। पारचात्य देशों के बहुत से राष्ट्रों में विवाह पर नियन्त्रण करने के लिए नियम बनाए हैं। रोगी-व्यक्तियों का विवाह करने से रोकने की चेष्टा हो रही है। हिन्दुओं की वर्णव्यवस्था को और पारचात्य देशों के बड़े बड़े पण्डितों तथा वैज्ञानिकों का ध्यान आकृष्ट होने लगा है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक श्री जे० वी० एम्० हॉलडेन महोदय ने तो यह कहने का साहस किया है कि आगे दो सौ वर्ष के अन्दर यूरोप में भी हिन्दुओं की तरह वर्ण-व्यवस्था स्थापित हो जायगी। वंशानुक्रम विज्ञान के आधार पर समाज-व्यवस्था के सम्बन्ध में इस विज्ञान की एक नवीन शाखा उत्पन्न हुई है। इसका अंगरेजी नाम 'यूजेनिक्स' है। समाज-व्यवस्था पर इस विज्ञान का वैसा प्रभाव पड़ सकता है, इसका पूर्ण परिचय यूजेनिक्स शास्त्र में प्राप्त हो सकता है। यह

नवीन शास्त्र अभी बन ही रहा है। मानव-जीवन का आदर्श क्या होना उचित है, इसका निर्णय हुए बिना समाजशास्त्र का निर्माण होना व्यर्थ है। वैज्ञानिकगण आज इस बात को स्वीकार करने लगे हैं कि बुद्धिवृत्ति की अपेक्षा मानव-जीवन पर हृदय वृत्ति का बहुत अधिक प्रभाव है। बुद्धिमान् होने से ही मानव का कल्याण सम्भव नहा, मानव को अचञ्छा भी होना पडेगा। फुरसत के समय मनुष्य किस प्रकार जीवन जितायेगा, उसके आमोद प्रमोद किस ढङ्ग के होंगे, किस रीति से शिक्षा पाने पर उसका जीवन साथेक होगा, इन सब बातों का निर्णय कौन करेगा और कैसे होगा? समाज से आर्थिक विपमता को दूर करना एक बड़ा भारी कार्य है, इसमें कोई सन्देह नहीं, किन्तु केवल आर्थिक विपमता के दूर होने से ही मनुष्य अचञ्छे होने लगेगे उसका क्या निश्चय है? ससार भर का दरिद्र शोपित-वर्ग यही कल्पना कर रहा है कि कैसे वह भी ससार के पैसेवाले व्यक्तियों की तरह हो सकेगा। ससार के पैसेवाले व्यक्ति का ही आदर्श उसका आदर्श हो रहा है। किन्तु यथार्थ दृष्टि से ससार के पैसेवाले व्यक्तियों के जीवन तो उद्देश्य हीन ही होते हैं। आज मानव के लिए एक नवीन सामाजिक और वैयक्तिक आदर्श की नितान्त आवश्यकता है। इस नवीन, दार्शनिक भावनाओं से उद्भासित, मानव-कल्याण की कामना से अनुप्राणित वैयक्तिक और सामाजिक आदर्श के सहारे वशानुक्रम विज्ञान के आधार पर नवीन रूप से समाज-व्यवस्था की आवश्यकता है। धर्मशास्त्र से ही जीवन का आदर्श बनेगा और वशानुक्रम विज्ञान के आधार पर ही नवीन समाज की व्यवस्था होगी।

## वशानुक्रम के सम्बन्ध में प्रमाण पुस्तकों की सूची:—

- 1 Human Heredity by Erwin Baur Eugen Fischer and Fritzdanz Translated by Eden and Cedar Paul 1931 George Allen and Unwinded London
- 2 You and Heredity—by Amram Sheinfeld—1939
- 3 An Introduction to the Study of Heredity—E Macbride—1931
- 4 The Study of Heredity by E B Ford—1938
- 5 Heredity, Engenics and Social Progress by H Bibby—1939
- 6 Genetics by H E Walter—1923
- 7 Hereditary Genius by Francis Galton—
- 8 Science for the Citizen by Lancelot Hoghen—
- 9 An Outline of Modern knowledge—
- 10 Nature and Nature—L Hoghen—1933
- 11 Essays in Popular Science—J S Huxley
- 12 Essays of a Biologist—J S Huxley
- 13 Evolution The Modern Synthesis—J S Huxley 1938
- 14 The Causes of Evolution—J B S Haldane—1932
- 15 Evolution and Genetics—T H Morgan—1928
- 16 Journal of Heredity—American Genetic Association Washington
- 17 Crime as Destiny—J Lange—1931 Eng trans
- 18 The Trend of the Race—S J Holmes—1921 New York
- 19 Religion and the Sciences of Life
- 20 Heredity by J A Thomson





